



शेअरखान वैल्यूमाइन्

Visit us at www.sharekhan.com

जून 2007



स्टॉक आइडिया

- अरबिंदो फार्मा

व्यू प्वाइंट

- ग्लोबल ब्रोडकास्ट न्यूज
- इंफो एज इंडिया
- पेज इंडस्ट्रीज
- पटेल इंजीनियरिंग

स्टॉक अप्डेट्स

- अहमदनगर फोर्जिंग्स
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स
- ग्रासिम इंडस्ट्रीज
- महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा
- वॉकहार्ट

सेक्टर रिपोर्ट

- ऑटोमोबाइल्स
- बैंकिंग
- एफएमसीजी
- फार्मास्यूटिकल्स

साथ में हमारे सभी नियमित स्तंभ



- रिपोर्ट कार्ड
- अर्निंग्स गाइड

म्यूचुअल फण्ड्स: शीर्ष इक्विटी फण्ड पर शेअरखान की राय



शेअरखान डेस्क से

**घरेलू चिंताओं का कम हुआ असर
लेकिन अर्जनों पर है कड़ी नज़र**

पिछले माह देश के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. 28 मई को इस एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाज़ार पूंजी "एक ट्रिलियन डॉलर" के निशान को पार कर गई. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में निरंतर उछाल के कारण ही यह संभव हुआ और एक साल के अन्दर इन सूचीबद्ध कंपनियों की बाज़ार पूंजीकरण डॉलर के संदर्भ में 60 फीसदी बढ़ गई. लेकिन रुपये के संदर्भ में इसी समयावधि में 42% का मुनाफा भी

कोई छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि इसके बल पर भारतीय बाज़ार में उत्फुल्लता झलक रही है. यद्यपि बाज़ार अपने उचित स्तर पर मूल्यांकित है फिर भी वह क्या चीज़ है जो इसके जोश को बरकरार रखे हुए है ?

05

वैल्यूलाइन नियमित स्तम्भ

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|
|  | रिपोर्ट कार्ड 03 |  | शेअरखान टॉप पिक्स 07 |
|  | स्टॉक आइडिया 10 |  | स्टॉक अपडेट 12 |
|  | म्यूचुअल फण्ड्स 29 |  | सेक्टर अपडेट 31 |
|  | व्यूप्वाँइण्ट 33 |  | अर्निंग्स गाइड I |

स्टॉक आइडिया स्टैंडिंग (01 जून, 2007)

| कंपनी | सिफारिश कीमत | कीमत लक्ष्य | सिफारिश तारीख | वर्तमान सिफारिश | 01-06-07 को कीमत | लाभ/हानि (%) | निरपेक्ष निष्पादन | | | | सेंसेक्स के सापेक्ष | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
| एवरग्रीन | | | | | | | | | | | | | | |
| एचडीएफसी बैंक | 358.0 | 1,355.0 | 23-दिसंबर-03 | खरीदें | 1,152.9 | 222.0 | 13.1 | 18.3 | 3.6 | 56.9 | 7.6 | 6.5 | (2.0) | 7.0 |
| इंफोसिस टेक | 689.1 | 2,440.0 | 30-दिसंबर-03 | खरीदें | 1,940.1 | 181.5 | (5.3) | (9.9) | (11.6) | 37.5 | (9.9) | (18.9) | (16.4) | (6.2) |
| रिलायंस इंड | 567.0 | ** | 5-फरवरी-04 | खरीदें | 1,750.4 | 208.7 | 12.2 | 29.1 | 39.9 | 90.7 | 6.8 | 16.2 | 32.3 | 30.1 |
| टीसीएस | 852.5 | 1,465.0 | 6-मार्च-06 | खरीदें | 1,219.0 | 43.0 | (3.7) | (2.9) | 2.9 | 43.8 | (8.4) | (12.6) | (2.6) | (1.9) |
| एप्पल ग्रीन | | | | | | | | | | | | | | |
| एसीसी | 260.0 | 880.0 | 10-अगस्त-04 | खरीदें | 852.0 | 227.7 | 1.6 | (0.9) | (23.2) | 17.4 | (3.4) | (10.7) | (27.4) | (19.9) |
| आदित्य बिड़ला नूवो | 714.0 | 1,600.0 | 6-दिसंबर-05 | खरीदें | 1,366.5 | 91.4 | 19.4 | 16.4 | 19.3 | 102.4 | 13.6 | 4.8 | 12.8 | 38.1 |
| अपोलो टायर्स | 344.0 | 425.0 | 28-नवंबर-06 | खरीदें | 360.2 | 4.7 | 14.1 | 24.3 | 3.1 | 52.3 | 8.5 | 11.9 | (2.5) | 3.9 |
| बजाज ऑटो | 1,873.0 | 2,500.0 | 15-नवंबर-05 | खरीदें | 2,235.0 | 19.3 | (8.6) | (11.1) | (18.7) | (13.3) | (13.0) | (20.0) | (23.1) | (40.9) |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 239.0 | 310.0 | 25-अगस्त-06 | खरीदें | 271.6 | 13.6 | 15.1 | 23.2 | 1.0 | 25.1 | 9.5 | 10.9 | (4.5) | (14.7) |
| बैंक ऑफ इण्डिया | 135.0 | 219.0 | 25-अगस्त-06 | खरीदें | 211.0 | 56.3 | 9.7 | 27.6 | 2.3 | 92.1 | 4.4 | 14.9 | (3.2) | 31.0 |
| भारत बिजली | 192.3 | ** | 29-नवंबर-04 | खरीदें | 1,920.6 | 898.8 | 32.8 | 57.3 | 59.4 | 65.0 | 26.4 | 41.6 | 50.7 | 12.5 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | 1,108.0 | 2,020.0 | 25-सितंबर-06 | खरीदें | 1,892.1 | 70.8 | 10.2 | 22.3 | 56.9 | 85.6 | 4.9 | 10.1 | 48.4 | 26.6 |
| भारत हेवी इले. | 601.5 | 1,562.5 | 11-नवंबर-05 | खरीदें | 1,414.4 | 135.1 | 13.7 | 30.2 | 12.8 | 49.6 | 8.2 | 17.2 | 6.7 | 2.0 |
| भारती एयरटेल | 625.0 | 900.0 | 8-जनवरी-07 | खरीदें | 838.0 | 34.1 | 3.2 | 15.2 | 32.4 | 141.3 | (1.8) | 3.7 | 25.2 | 64.6 |
| केनरा बैंक | 213.0 | 268.0 | 25-अगस्त-06 | खरीदें | 255.2 | 19.8 | 17.2 | 18.9 | (18.0) | 15.2 | 11.5 | 7.1 | (22.4) | (21.4) |
| कॉरपोरेशन बैंक | 218.0 | 374.0 | 19-दिसंबर-03 | खरीदें | 330.2 | 51.4 | 4.5 | 27.9 | (15.6) | 11.6 | (0.5) | 15.2 | (20.2) | (23.9) |
| क्रॉम्टन ग्रीन्स | 88.1 | 280.0 | 19-अगस्त-05 | खरीदें | 250.1 | 183.7 | 13.7 | 24.8 | 29.3 | 75.5 | 8.2 | 12.4 | 22.3 | 19.7 |
| एलडर फार्मा | 298.0 | 508.0 | 26-अप्रैल-06 | खरीदें | 388.4 | 30.3 | (1.8) | (1.4) | 14.3 | 27.4 | (6.5) | (11.2) | 8.1 | (13.1) |
| ग्रासिम इण्डस्ट्रीज | 1,119.0 | 2,975.0 | 30-अगस्त-04 | खरीदें | 2,520.0 | 125.2 | 3.2 | 18.5 | (7.5) | 51.1 | (1.8) | 6.7 | (12.5) | 3.1 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 172.0 | 280.0 | 24-नवंबर-05 | खरीदें | 201.3 | 17.0 | 0.9 | 16.0 | (15.1) | (7.5) | (4.0) | 4.4 | (19.7) | (36.9) |
| हिन्दुस्तान लीवर | 103.0 | 395.0 | 30-दिसंबर-03 | खरीदें | 345.7 | 235.6 | 3.5 | 10.1 | 11.3 | 41.8 | (1.6) | (0.9) | 5.2 | (3.3) |
| आइसीआईआइ बैंक | 284.0 | 1,173.0 | 23-दिसंबर-03 | खरीदें | 928.1 | 226.8 | 7.2 | 8.5 | 5.9 | 75.8 | 2.0 | (2.3) | 0.1 | 19.9 |
| इण्डियन होटल कंपनी | 76.6 | 175.0 | 17-नवंबर-05 | खरीदें | 148.7 | 94.1 | 4.5 | 6.2 | (5.5) | 33.7 | (0.6) | (4.4) | (10.7) | (8.8) |
| आइटीसी | 69.5 | 200.0 | 12-अगस्त-04 | खरीदें | 161.5 | 132.3 | 0.9 | (6.4) | (14.1) | 2.4 | (4.0) | (15.7) | (18.7) | (30.2) |
| ल्यूपिन | 403.5 | 840.0 | 6-जनवरी-06 | खरीदें | 722.3 | 79.0 | 2.5 | 18.7 | 33.4 | 45.6 | (2.5) | 6.9 | 26.1 | (0.7) |
| महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | 232.0 | 1,050.0 | 1-अप्रैल-04 | खरीदें | 762.5 | 228.6 | (2.1) | (4.4) | (8.4) | 35.8 | (6.9) | (14.0) | (13.4) | (7.3) |
| मैरिको इण्ड | 7.7 | 63.4 | 22-अगस्त-02 | खरीदें | 57.6 | 648.1 | 5.1 | (3.7) | 9.1 | 33.6 | 0.0 | (13.3) | 3.2 | (8.9) |
| मारुति उद्योग | 360.0 | 1,050.0 | 23-दिसंबर-03 | खरीदें | 810.9 | 125.3 | 1.0 | (3.5) | (14.8) | 19.4 | (3.9) | (13.2) | (19.5) | (18.5) |
| निकोलस पिरामल | 146.0 | 393.0 | 16-मार्च-04 | खरीदें | 260.2 | 78.2 | 1.2 | 14.7 | 10.2 | 41.5 | (3.7) | 3.3 | 4.2 | (3.5) |
| ओमेक्स ऑटो | 128.0 | 134.0 | 19-जुलाई-05 | खरीदें | 92.2 | (28.0) | 5.3 | 12.2 | 8.0 | 9.3 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | (25.4) |
| रैनबैक्सी | 533.5 | 558.0 | 24-दिसंबर-03 | खरीदें | 388.2 | (27.2) | 4.5 | 15.1 | 3.1 | 0.1 | (0.5) | 3.6 | (2.5) | (31.7) |
| सत्यम कंप्यूटर्स | 181.5 | 538.0 | 30-दिसंबर-03 | खरीदें | 478.5 | 163.6 | 1.1 | 10.0 | 2.5 | 46.7 | (3.8) | (1.0) | (3.1) | 0.1 |
| एसकेएफ इण्डिया | 141.0 | ** | 23-दिसंबर-04 | खरीदें | 452.2 | 220.7 | 17.2 | 40.9 | 51.1 | 54.2 | 11.5 | 26.8 | 42.9 | 5.2 |
| एसबीआई | 476.0 | ** | 19-दिसंबर-03 | खरीदें | 1,378.1 | 189.5 | 24.7 | 30.9 | 1.3 | 71.4 | 18.6 | 17.9 | (4.2) | 16.9 |
| सुन्दरम क्लेटॉन | 1,178.0 | 1,350.0 | 15-मई-06 | खरीदें | 935.4 | (20.6) | 10.1 | (11.4) | (22.0) | (15.5) | 4.8 | (20.3) | (26.2) | (42.4) |
| टाटा मोटर्स | 473.0 | 980.0 | 29-मार्च-04 | खरीदें | 747.2 | 58.0 | 1.6 | (3.4) | (9.6) | 4.7 | (3.4) | (13.1) | (14.5) | (28.6) |
| टाटा टी | 789.0 | ** | 12-अगस्त-05 | खरीदें | 952.3 | 20.7 | 22.7 | 56.7 | 31.6 | 40.1 | 16.8 | 41.0 | 24.4 | (4.4) |
| यूनिकेम लेब | 248.0 | 360.0 | 12-दिसंबर-05 | खरीदें | 263.7 | 6.3 | 4.4 | 5.0 | 6.9 | 8.0 | (0.7) | (5.4) | 1.1 | (26.4) |
| विप्रो | 418.0 | 675.0 | 9-जून-06 | खरीदें | 544.2 | 30.2 | (4.7) | (6.9) | (8.7) | 24.9 | (9.4) | (16.2) | (13.6) | (14.8) |
| एमर्जिंग स्टार | | | | | | | | | | | | | | |
| श्री आइ इन्फोटेक | 132.0 | 400.0 | 6-अक्टूबर-05 | खरीदें | 310.3 | 135.1 | 2.5 | 23.0 | 67.6 | 87.2 | (2.5) | 10.7 | 58.5 | 27.7 |
| एबान ऑफशोर | 330.4 | 3,110.0 | 3-मार्च-05 | खरीदें | 2,659.4 | 704.9 | 2.0 | 45.8 | 136.9 | 171.7 | (3.0) | 31.3 | 124.0 | 85.3 |
| अल्फाजिओ इंडिया | 150.0 | ** | 29-नवंबर-06 | खरीदें | 346.9 | 131.2 | 28.5 | 79.2 | 106.8 | 131.7 | 22.3 | 61.3 | 95.5 | 58.1 |
| कैडिला हेल्थकेयर | 297.5 | 425.0 | 21-मार्च-06 | खरीदें | 335.0 | 12.6 | 3.8 | 5.3 | 3.4 | 17.4 | (1.2) | (5.2) | (2.2) | (19.9) |
| एफ-एम गोपेट्ज | 385.0 | 559.0 | 18-जनवरी-07 | खरीदें | 252.1 | (34.5) | (3.5) | (23.5) | (30.0) | (9.5) | (8.1) | (31.2) | (33.8) | (38.3) |
| केएसबी पंप्स | 399.0 | 625.0 | 3-अक्टूबर-05 | खरीदें | 493.8 | 23.8 | (6.6) | (6.4) | (13.0) | 1.5 | (11.1) | (15.7) | (17.7) | (30.8) |
| मार्कसन्स फार्मा | 236.0 | 360.0 | 7-मार्च-06 | खरीदें | 52.1 | (77.9) | (9.9) | (33.9) | (55.5) | (66.1) | (14.2) | (40.5) | (58.0) | (76.9) |
| नवनीत पब्लिकेशन्स | 56.8 | 67.0 | 22-अगस्त-05 | खरीदें | 60.0 | 5.6 | 5.4 | 8.2 | 5.7 | 10.4 | 0.3 | (2.6) | (0.1) | (24.7) |
| एनडीटीवी | 180.9 | ** | 10-फरवरी-05 | खरीदें | 389.6 | 115.4 | 15.5 | 23.5 | 66.2 | 99.9 | 9.9 | 11.1 | 57.2 | 36.3 |
| न्युक्लिअस सॉफ्टवेयर | 497.0 | 1,020.0 | 12-दिसंबर-06 | रखें | 1,009.8 | 103.2 | (5.2) | (2.6) | 98.9 | 235.1 | (9.8) | (12.3) | 88.1 | 128.6 |
| ऑर्किड केमिकल्स | 254.0 | 390.0 | 16-जनवरी-06 | खरीदें | 258.7 | 1.9 | 0.1 | 10.3 | 22.4 | 19.7 | (4.7) | (0.7) | 15.8 | (18.4) |



रिपोर्ट कार्ड

स्टॉक आइडिया स्टैंडिंग (01 जून, 2007)

| कंपनी | सिफ़ारिश कीमत | कीमत लक्ष्य | सिफ़ारिश तारीख | वर्तमान सिफ़ारिश | 01-06-07 को कीमत | लाभ/हानि (%) | निरपेक्ष निष्पादन | | | | सेंसेक्स के सापेक्ष | | | |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
| ओआरजी इंफ़ोमेटिक्स | 130.0 | 184.0 | 16-दिसंबर-05 | खरीदें | 115.8 | (11.0) | (9.2) | (10.8) | (37.3) | (13.6) | (13.6) | (19.7) | (40.7) | (41.1) |
| टाटा एलेक्सी | 232.0 | 385.0 | 14-दिसंबर-06 | खरीदें | 342.2 | 47.5 | 7.8 | 17.9 | 34.5 | 84.6 | 2.6 | 6.2 | 27.2 | 25.9 |
| टीवी एटीन इण्डिया | 219.0 | ** | 23-मई-05 | खरीदें | 834.2 | 280.9 | 10.5 | 43.9 | (6.5) | 101.2 | 5.1 | 29.5 | (11.6) | 37.2 |
| थरमैक्स | 124.2 | 585.0 | 14-जून-05 | खरीदें | 497.8 | 300.8 | 19.4 | 32.2 | 32.2 | 77.4 | 13.6 | 19.0 | 25.0 | 21.0 |
| यूटीआइ बैंक | 229.4 | ** | 24-फरवरी-05 | खरीदें | 576.2 | 151.2 | 24.2 | 19.9 | 18.1 | 103.9 | 18.2 | 8.0 | 11.7 | 39.1 |
| अगली डकिलिंग | | | | | | | | | | | | | | |
| अहमदनगर फ़ोर्जिंग्स | 250.0 | 380.0 | 10-अक्टूबर-06 | खरीदें | 253.0 | 1.2 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 50.5 | (2.1) | (8.8) | (3.2) | 2.7 |
| अशोक लेलेण्ड | 38.0 | 44.0 | 23-मई-06 | खरीदें | 38.4 | 1.1 | (1.4) | (1.3) | (7.8) | 9.2 | (6.2) | (11.1) | (12.8) | (25.5) |
| अरबिंदो फार्मा | 684.0 | 914.0 | 28-मई-07 | खरीदें | 697.7 | 2.0 | (0.3) | 4.9 | 8.9 | 24.2 | (3.8) | (5.8) | 3.7 | (20.5) |
| बीएसएसएफ इण्डिया | 220.0 | 300.0 | 18-सितंबर-06 | खरीदें | 268.5 | 22.0 | 18.2 | 31.0 | 18.1 | 32.4 | 12.5 | 17.9 | 11.7 | (9.7) |
| सीएट | 122.0 | 190.0 | 28-नवंबर-06 | खरीदें | 176.4 | 44.6 | 23.7 | 50.3 | 39.8 | 104.4 | 17.7 | 35.3 | 32.2 | 39.4 |
| दीपक फ़र्टिलाइजर्स | 50.6 | 126.0 | 17-मार्च-05 | खरीदें | 92.8 | 83.4 | 10.0 | 7.7 | 16.8 | 6.5 | 4.6 | (3.1) | 10.5 | (27.3) |
| फेम केयर फार्मा | 358.0 | 500.0 | 13-दिसंबर-06 | खरीदें | 429.8 | 20.1 | 13.3 | 15.1 | 10.3 | 34.8 | 7.8 | 3.6 | 4.3 | (8.0) |
| जीनस पॉवर इंफ़ारस्ट्रक्चर्स | 101.0 | 380.0 | 6-जुलाई-05 | खरीदें | 262.9 | 160.2 | 9.6 | (2.6) | 19.8 | 5.1 | 4.3 | (12.3) | 13.3 | (28.3) |
| हेक्सवेअर टेक्नोलॉजीज | 159.0 | 220.0 | 30-मार्च-07 | खरीदें | 155.6 | (2.2) | (8.3) | 1.5 | (13.4) | 22.4 | (12.8) | (8.7) | (18.1) | (16.5) |
| आइसीआइ इण्डिया | 250.0 | 581.0 | 26-मई-05 | खरीदें | 524.7 | 109.9 | 21.5 | 23.0 | 32.2 | 50.7 | 15.6 | 10.8 | 25.1 | 2.8 |
| इण्डिया सीमेंट्स | 220.0 | 231.0 | 28-सितंबर-06 | खरीदें | 181.3 | (17.6) | 1.6 | 4.3 | (23.8) | 21.9 | (3.3) | (6.1) | (27.9) | (16.9) |
| इंडो टेक ट्रांसफार्मर | 199.0 | 375.0 | 28-नवंबर-06 | खरीदें | 348.3 | 75.0 | 7.1 | 30.1 | 57.0 | 90.0 | 1.9 | 17.1 | 48.5 | 29.6 |
| जेएम फायनॉसियल | 214.0 | ** | 29-अगस्त-05 | खरीदें | 1,100.0 | 414.0 | 6.1 | 18.9 | 43.3 | 57.6 | 1.0 | 7.1 | 35.5 | 7.5 |
| जयप्रकाश एसोशिएट्स | 125.0 | 850.0 | 30-दिसंबर-03 | खरीदें | 697.8 | 458.2 | 15.7 | 30.6 | 1.8 | 71.6 | 10.1 | 17.5 | (3.7) | 17.0 |
| केईआइ इण्डस्ट्रीज | 39.4 | 140.0 | 30-अगस्त-05 | खरीदें | 91.2 | 131.3 | 28.2 | 14.6 | 4.2 | 31.0 | 22.0 | 3.2 | (1.5) | (10.7) |
| एनआइआइटी टेक्नोलॉजीज | 204.0 | 720.0 | 31-मार्च-06 | खरीदें | 590.3 | 189.3 | 31.5 | 29.2 | 120.9 | 237.1 | 25.1 | 16.3 | 108.9 | 129.9 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 180.0 | 578.0 | 19-दिसंबर-03 | खरीदें | 535.3 | 192.4 | 6.3 | 20.5 | (2.6) | 40.5 | 1.2 | 8.4 | (7.9) | (4.2) |
| रत्नामणि मेटल्स | 270.0 | ** | 8-दिसंबर-05 | खरीदें | 882.6 | 226.9 | 24.6 | 28.3 | 87.2 | 154.3 | 18.6 | 15.5 | 77.0 | 73.4 |
| संघवी मूवर्स | 265.0 | 1,050.0 | 5-अगस्त-05 | खरीदें | 839.9 | 216.9 | 19.0 | 17.3 | 8.9 | 13.6 | 13.2 | 5.6 | 3.0 | (22.5) |
| सारेगामा इण्डिया | 149.0 | 375.0 | 4-जुलाई-05 | खरीदें | 289.4 | 94.2 | 23.5 | 34.8 | 34.9 | 14.2 | 17.6 | 21.4 | 27.6 | (22.1) |
| सेलन एक्स्प्लोरेशन | 58.0 | 101.0 | 20-मार्च-06 | खरीदें | 84.0 | 44.8 | (0.8) | 10.7 | 9.9 | 14.6 | (5.6) | (0.3) | 4.0 | (21.8) |
| साउथ ईस्ट एशिया मरिन | 190.0 | 300.0 | 12-अक्टूबर-06 | खरीदें | 192.4 | 1.2 | 0.6 | (2.8) | 13.5 | 14.5 | (4.2) | (12.5) | 7.4 | (21.9) |
| सुब्रोज | 206.0 | 340.0 | 26-अप्रैल-06 | खरीदें | 229.3 | 11.3 | 0.4 | (0.3) | (12.0) | 17.7 | (4.5) | (10.3) | (16.8) | (19.7) |
| सन फार्मा | 302.0 | 1,297.0 | 24-दिसंबर-03 | खरीदें | 1,092.0 | 261.6 | 6.3 | 15.2 | 5.7 | 39.5 | 1.2 | 3.7 | (0.1) | (4.8) |
| सूर्या फार्मा | 139.0 | 205.0 | 2-दिसंबर-05 | खरीदें | 72.1 | (48.2) | (2.3) | 1.5 | (7.7) | (24.7) | (7.0) | (8.6) | (12.7) | (48.6) |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | 384.0 | 935.0 | 10-अगस्त-05 | खरीदें | 837.7 | 118.2 | 2.1 | (3.2) | (8.1) | 40.9 | (2.8) | (12.9) | (13.1) | (3.9) |
| यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया | 46.0 | 141.0 | 19-दिसंबर-03 | खरीदें | 121.1 | 163.3 | 13.3 | 21.5 | (7.4) | 20.9 | 7.8 | 9.3 | (12.5) | (17.5) |
| यूनियर्सल केबल्स | 123.0 | 179.0 | 30-अगस्त-05 | खरीदें | 114.4 | (7.0) | 39.3 | 15.2 | 7.4 | 25.4 | 32.6 | 3.7 | 1.6 | (14.4) |
| वॉकहार्ट * | 248.0 | 552.0 | 24-दिसंबर-03 | खरीदें | 425.7 | 71.6 | (0.7) | 11.9 | 14.4 | 18.0 | (5.6) | 0.8 | 8.2 | (19.5) |
| वल्डर्स पिक | | | | | | | | | | | | | | |
| इसैब इण्डिया | 60.0 | 575.0 | 21-मई-04 | खरीदें | 419.7 | 599.4 | 14.3 | 23.2 | 14.8 | 21.1 | 8.7 | 10.9 | 8.6 | (17.4) |
| ओरिएण्ट पेपर एण्ड | 214.0 | 800.0 | 30-अगस्त-05 | खरीदें | 447.3 | 109.0 | (6.1) | 5.7 | (23.1) | 21.8 | (10.6) | (4.9) | (27.3) | (16.9) |
| डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज | 51.0 | 87.0 | 2-दिसंबर-05 | खरीदें | 49.2 | (3.6) | 13.9 | (3.1) | (9.6) | (16.4) | 8.4 | (12.7) | (14.5) | (43.0) |
| कैननवाल | | | | | | | | | | | | | | |
| इलाहाबाद बैंक | 73.0 | 101.0 | 25-अगस्त-06 | खरीदें | 86.1 | 17.9 | 8.4 | 12.0 | (7.7) | 14.1 | 3.1 | 0.8 | (12.7) | (22.1) |
| आन्ध्रा बैंक | 85.0 | 101.0 | 25-अगस्त-06 | खरीदें | 87.2 | 2.5 | 6.9 | 15.4 | (2.0) | 23.6 | 1.7 | 3.9 | (7.3) | (15.7) |
| सिप्ला | 101.2 | 256.0 | 24-दिसंबर-03 | खरीदें | 224.2 | 121.5 | 6.3 | (2.8) | (11.9) | 3.1 | 1.2 | (12.5) | (16.7) | (29.7) |
| गेटवे डिस्ट्रिक्टार्क्स | 190.0 | 250.0 | 11-अगस्त-05 | खरीदें | 182.3 | (4.1) | 4.1 | 12.1 | 0.9 | (7.2) | (0.9) | 0.9 | (4.6) | (36.7) |
| इण्टरनेशनल कॉन्स्रक्शन | 350.0 | 519.0 | 20-सितंबर-05 | खरीदें | 320.9 | (8.3) | 19.3 | 10.5 | (2.3) | 4.5 | 13.5 | (0.6) | (7.6) | (28.7) |
| जेके सीमेंट्स | 149.0 | 200.0 | 17-नवंबर-05 | खरीदें | 149.1 | 0.0 | (2.6) | (6.4) | (22.2) | 7.4 | (7.3) | (15.8) | (26.4) | (26.8) |
| मद्रास सीमेंट्स | 1,498.0 | 3,500.0 | 17-नवंबर-05 | खरीदें | 2,792.7 | 86.4 | (2.8) | (0.4) | (11.2) | 22.6 | (7.5) | (10.3) | (16.0) | (16.4) |
| श्री सीमेंट | 445.0 | 1,500.0 | 17-नवंबर-05 | खरीदें | 1,183.0 | 165.8 | 12.6 | 3.4 | (14.1) | 44.6 | 7.1 | (7.0) | (18.7) | (1.3) |
| ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | 52.2 | 100.0 | 9-दिसंबर-05 | खरीदें | 87.5 | 67.5 | 35.4 | 35.3 | 1.5 | 26.2 | 28.8 | 21.8 | (4.0) | (13.9) |

*वित्तीय वर्ष के स्थान पर कैलेण्डर वर्ष



घरेलू चिंताओं का कम हुआ असर लेकिन अर्जनों पर है कड़ी नज़र

पिछले माह देश के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. 28 मई को इस एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाज़ार पूंजी "एक ट्रिलियन डॉलर" के निशान को पार कर गई. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में निरंतर उछाल के कारण ही यह संभव हुआ और एक साल के अन्दर इन सूचीबद्ध कंपनियों की बाज़ार पूंजीकरण डॉलर के संदर्भ में 60 फीसदी बढ़ गई. लेकिन रुपये के संदर्भ में इसी समयावधि में 42% का मुनाफा भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है क्योंकि इसके बल पर भारतीय बाज़ार में उत्फुल्लता झलक रही है. यद्यपि बाज़ार अपने उचित स्तर पर मूल्यांकित है फिर भी वह क्या चीज़ है जो इसके जोश को बरकरार रखे हुए है ?

हमारे विचार में इसके पीछे तीन कारण हैं : एकाध चिंताओं से राहत, निश्चित सकारात्मक आंकड़ों का प्रवाह, तथा सबसे महत्वपूर्ण, बाज़ार में जबरदस्त लिक्विडिटी का मौजूद होना. कुछ ही समय पहले तक बाज़ार के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण मुद्रास्फीति रहा है, चूंकि इसी ने केन्द्रीय बैंक को कड़ी राजकोषीय नीति अपनाने पर मजबूर किया, नतीजतन ब्याज दरों में उछाल आई और रुपया भी मजबूत हुआ. दरों में तेज़ी और रुपये में मजबूती से विव2008 में भारतीय कंपनियों के मुनाफे पर बुरा असर पड़ने का अनुमान है जैसाकि इस साल अप्रैल एवं मई के दौरान हमने ऑटोमोबाइल एवं हाऊसिंग (आवासन) क्षेत्रों में वृद्धि मंद होते देखी है. लेकिन साथ ही हमारे पास एक सुखद समाचार भी है. वह यह कि अंततः हमें मुद्रास्फीति की चिंता से राहत मिल ही गई लेकिन कैसे ? चार महीने तक 6% के ऊपर अपने उच्च स्तर पर जमे रहने के बाद, 26 मई को समाप्त सप्ताह में थोक भाव सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) नाटकीय अंदाज़ से नीचे उतर कर 4.85% पर आ गया जो 29 जुलाई 2006 को समाप्त सप्ताह के बाद से अब तक का सबसे निम्न स्तर है. सबसे मजे की बात यह है कि इस स्तर को पाने में केवल एक माह का समय लगा. यहां पर यह कहना जरूरी है कि यह सब कुछ शेअरखान के लिए कोई अचभे की बात नहीं है चूंकि यह उन गिने-चुने ब्रोकिंग हाऊस में से एक है जो पिछले साल इसी अवधि में मुद्रास्फीति के उच्च आधार को ध्यान में रखते हुए इस गिरावट की अपेक्षा कर रहे थे. इस सूचकांक में और भी गिरावट की संभावना है—वास्तव में, हमारा पूर्वानुमान है कि अगले माह यह गिरकर 4.5% के स्तर पर आ सकता है.

यह अपेक्षा की जाती है कि मुद्रास्फीति के नीचे आने से ब्याज दरों में भी राहत मिलेगी. ब्याज दरों में आई सर्खी ने न केवल उपभोगीय मांग को कमज़ोर किया, वरन् इसने चलती पूंजी को भी मंहया किया है. भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ के मुताबिक, पिछले दो माह के दौरान कारों की बिक्री एक साल की सबसे धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी है. बहरहाल, हमें विश्वास है कि ब्याज दरें अपने उच्च स्तर के करीब हैं और आगे चलकर नीति दरों में ज़्यादा से ज़्यादा 25-बेसिस प्वाइंट्स की एक और बढ़त की उम्मीद की जा सकती है.

इन दिनों चिंता के एक अन्य स्रोत के रूप में रुपये का नाम लिया जा रहा है. इस घरेलू मुद्रा ने इस साल अब तक 8% की बढ़त बना ली है और अगस्त 2006 के बाद से इसमें 14% की उछाल देखी गई है. रुपये के मूल्य में इस तेज़ वृद्धि का कारण विदेशी फंडों का मजबूत अंतर्वाह तथा रुपये के समर्थन के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की अनिच्छा रही है चूंकि आरबीआइ को इस बात का डर था कि धनापूर्ति में तेज़ी से मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढेगा. लेकिन अब चूंकि मुद्रास्फीति का झुकाव सामान्य स्तरों की ओर बन चुका है, इसलिए रुपये के समर्थन में विदेशी विनिमय बाज़ारों में आरबीआइ की दखलअंदाज़ी की संभावना बढ़ गई है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस संदर्भ में, केन्द्रीय बैंक ने 28 मई को विदेशी विनिमय बाज़ार से 500 मिलियन डॉलर की खरीदारी के जरिये एक शुरुआत भी कर डाली है. यह एक अच्छी खबर है चूंकि रुपये में आई उछाल से अब तक कई आनुषंगिक नुकसान उठाये जा चुके हैं. इसने देश की निर्यात क्षमताओं को क्षतिग्रस्त किया है. डॉलर के संदर्भ में, निर्यात क्षेत्र ने पिछले साल अप्रैल माह में दर्ज 12.7% की वृद्धि के मुकाबले इस साल अप्रैल माह में 23.6% की तेज़ी दर्शाया; जबकि रुपये के संदर्भ में, अप्रैल 2006 में दर्ज 15.8% की तुलना में 15.4% की वृद्धि दर्ज हुई. ऐसी कंपनियां जो डॉलरों में कमाई करती हैं, (जैसे सूचना प्रौद्योगिकी [आइटी], आइटी-समर्थित सेवायें, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग [बीपीओ], टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रत्न-आभूषण एवं हॉस्पिटैलिटी कंपनियां) वे काफी प्रभावित हुई हैं. हमारा अनुमान है कि इस साल इन कंपनियों की आयों में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है चूंकि विव2008 में भी रुपये में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है. स्टॉक बाज़ार में विदेशी फंडों के सतत प्रवाह तथा डीएलएफ एवं आइसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियों द्वारा पवित्रबद्ध विशाल पब्लिक ऑफरिंग्स के जरिये अतिरिक्त फंडों के प्रवाह से रुपये में और भी मजबूती आने की उम्मीद है.

बाज़ार अपने उचित मूल्य पर पहुंच चुका है, इसके बावजूद वह कौन-सा कारक है जिसने इसमें निरंतर तेज़ी को जारी रखा है. इसी बात ने हमें उस कारक की ओर ध्यान आकर्षित किया; वह है—लिक्विडिटी (तरलता). चाहे हम घरेलू स्तर पर बात करें या वैश्विक स्तर पर, लिक्विडिटी की बहुलता हर जगह बनी हुई है. केन्द्रीय बैंकों की उदार मौद्रिक नीतियां, डेरिवेटिव्स जैसे वित्तीय साधनों का उद्गमन, तथा हेज फंडों एवं निजी इक्विटी संस्थानों में आई विकास की लहर से पिछले कुछ सालों के दौरान विश्वस्तर पर प्रचुर मात्रा में लिक्विडिटी उमड़ पड़ी है. केवल निजी इक्विटी संस्थानों में इस साल अब तक यूएसडी 447 बिलियन की बोली लगा चुकीं हैं जबकि पिछले साल यह रकम यूएसडी 228 बिलियन ही थी. दूसरी ओर, हेज फंडों की संपत्तियां पिछले दस सालों में तीन गुना बढ़कर यूएसडी 1.57 ट्रिलियन हो गई हैं. उल्लेखनीय यह है कि पिछले कुछ सालों के दौरान इन फंडों का एक बड़ा हिस्सा भारत की ओर आने वाले मार्ग पर गतिशील दिखा है.

बड़े मुनाफे की उम्मीद में, दुनिया भर के निवेशक भारतीय बाज़ार में अपना धन डाल रहे हैं. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले कैलेंडर वर्ष 2006 में यूएसडी 8.8 बिलियन का निवेश किया था, इसकी तुलना में कैलेंडर वर्ष 2007 में, उनके द्वारा भारतीय बाज़ार में अब तक यूएसडी 4.0 की रकम डाली जा चुकी है. भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में, 2006-07 के दौरान यूएसडी 13.3 बिलियन की रकम हासिल की है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह निवेश केवल यूएसडी 5.6 बिलियन था. प्रधानमंत्री ने यूएसडी 30 बिलियन के बराबर अतिरिक्त एफडीआई की उम्मीद जताई है. इतना ही नहीं, एक आकलन के मुताबिक, अगले पांच वर्षों के दौरान, 9% की विकास-दर को बरकरार रखने के लिए भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 35.1% के बराबर निवेश की आवश्यकता है.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का शानदार प्रदर्शन ही है जो भारी मात्रा में विदेशी फंडों को अपनी ओर खींच रहा है. पिछले माह प्रकाशित मजबूत आर्थिक आंकड़ों से यह पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था असली ऊंचाई पर नज़र आ रही है. औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष मार्च में दर्ज 8.9% के मुकाबले

शेष अगले पृष्ठ पर...



इस वर्ष उसी माह के दौरान 12.9% की दर से बढ़ा है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के एक नवीनतम आकलन ने संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए 11.3% पर औद्योगिक विकास का आधार प्रस्तुत किया है। खनन, निर्माण एवं बिजली उत्पादन क्षेत्रों ने मार्च 2007 में क्रमशः 6.3%, 14.1% एवं 7.8% तथा विव2007 में क्रमशः 15.1%, 12.3% एवं 7.2% की उछाल दर्ज की। अर्थव्यवस्था की स्थिति दर्शाने वाला मुख्य संकेतक, जीडीपी ने मार्च में समाप्त तिमाही में 9.1% की उत्तम दर से वृद्धि दर्ज की, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें 9.4% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई और यह वृद्धि सरकार द्वारा आकलित 9.2% की वृद्धि-दर से ज़्यादा तथा लगभग दो दशकों में सबसे अधिक है।

चौथी तिमाही के दौरान कृषि-क्षेत्र जोकि इस समय अपेक्षाकृत एक सुस्त क्षेत्र दिख रहा है, उसमें भी विकास की झलक देखने को मिली। विव2007 की अंतिम तिमाही में कृषि की विकास-दर पिछली तिमाही में दर्ज 1.6% की छोटी दर के मुकाबले बढ़कर 3.8% पर आ गई हालांकि विव2006 में दर्ज 6% की तुलना में यह विकास-दर 2.7% पर काफी कम है। बहरहाल, देश की जीडीपी में इस क्षेत्र की भागीदारी 18.5% है और कृषि-उत्पादों में किसी भी प्रकार की तेज़ी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगी क्योंकि यह मुद्रास्फीति को और भी नीचे लाने में मदद करेगी। इसके पीछे एक उचित तर्क यह है कि इस समय मुद्रास्फीति में जो गिरावट देखी गई है, वह कृषि-उत्पादों जैसे गेहूँ, दाल एवं खाद्य अनाजों में मांग-आपूर्ति के बीच हुए अंतर का नतीजा है। फिर भी, यदि खाद्य अनाजों एवं अन्य फसलों की मांग-आपूर्ति के बीच संतुलन कायम करना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम कृषि-क्षेत्र की विकास-दर को और भी अधिक बढ़ायें।

इस संदर्भ में, कृषि-क्षेत्र पर मानसून की मेहरबानी हो सकती है। भारत मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमानित, इस साल का सामान्य मानसून, जो काफी नज़दीक है, कृषि के विकास-दर को त्वरित करने में मदद कर सकता है। इस साल के मानसून ने कुछ पहले ही अपने दर्शन दिये हैं। पूर्वानुमानित तारीख 1 जून को गलत साबित करते हुए इसने मई के अंतिम सप्ताह में ही देश के तटीय क्षेत्रों में अपनी झलक दिखला दी है। समय से थोड़ा जल्दी आये इस मानसून से कई फसलों, जैसे रूई, मूंगफली, चावल एवं सोयाबीन को फायदा पहुंच सकती है बशर्ते अगले दो माह के दौरान अच्छी वर्षा देखने को मिले। देश की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून काफी अहमियत रखता है क्योंकि यह न केवल कृषि-उत्पादन को निर्धारित करता है बल्कि उपभोगीय मालों की ग्रामीण मांग भी इस पर निर्भर करती है है।

पिछले माह अमरीका में कुछ सकारात्मक आंकड़ें दिखे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उभरे मंदी के डर को थोड़ा कम किया है। उदाहरणस्वरूप, इस बड़ी अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक गतिविधियों में फिर से जोश दिखाई दी, बेरोजगारी दर घटकर पिछले छः सालों के निम्न स्तर पर पहुंच गई और शेयर बाजारों में भी तेज़ी देखी गई। कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास-दर भले ही चार वर्षों से अधिक की अवधि में सबसे निम्न स्तर (0.6%) पर दिखाई दिया हो, फिर भी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार दो माह (अप्रैल एवं मई) से सुधार देखी जा रही है जो अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। यद्यपि 2% पर मौजूद मुद्रास्फीति फेडरल रिजर्व (फेड) के सुरक्षित दायरे के अंतिम सिरे पर जमा हुआ है, लेकिन फेड अध्यक्ष को उम्मीद है कि यह “धीरे-धीरे अपने सामान्य दरों” पर पहुंच जायेगा। उन्हें यह भी विश्वास है कि इस साल आवासन बाज़ार में आई गिरावट थम जायेगी और अर्थव्यवस्था सामान्य दरों से आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाज़ी नहीं की जा रही है। यही बात हमें फेड वायदा दर-सारणी (फ्यूचर्स रेट चार्ट) में भी देखने को मिल रही है; जो ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव तथा फेड की नीति संबंधी कार्यों को मापने का एक सूचक है। उपर्युक्त चार्ट में एक सीधी क्षैतिज रेखा देखी जा रही है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि कैलेंडर वर्ष 2007 में बाज़ार फेड द्वारा दरों में कटौती की अपेक्षा नहीं करता है। 9 मई को आयोजित बैठक में, फेड ने मुख्य दरों को अपरिवर्तित रखा तथा 27-28 की आगामी बैठक में भी दर में किसी कटौती की उम्मीद नहीं की जाती है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि इन सकारात्मक विकासों, मज़बूत आर्थिक आंकड़ों तथा लिक्विडिटी की बहुलता ने पिछले कुछ हफ्तों से बाज़ार में काफी जोश भर दिया है। फिर भी कुछ चिंताजनक पहलू ऐसे भी हैं जो बाज़ार को आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं। उनमें से एक है-पब्लिक ऑफरिंग्स की भरमार। इनमें डीएलएफ एवं आइसीआइसीआइ बैंक के पब्लिक ऑफरिंग्स भी शामिल हैं। अनुमानतः ये जून तक बाज़ार में पहुंच जायेंगे जो बड़ी मात्रा में फंडों को प्राथमिक बाज़ार तक खींच कर ले जायेंगे। नमूने के तौर पर: डीएलएफ एवं आइसीआइसीआइ बैंक, दोनों को मिलाकर ₹.25,000-30,000 करोड़ की रकम इकट्ठा होने की उम्मीद की जाती है। इसके इलावा, बाज़ार का मूल्यांकन, अपने अग्रवर्ती अर्जन के 16.5x पर उस स्तर के करीब है जिस स्तर पर कुछ ही समय पहले इसमें गिरावट देखी गई थी।

वर्तमान परिस्थिति में कच्चा तेल कुछ हद तक डर का माहौल बना सकता है। नियमित रूप से आगे बढ़ते हुए इसने पिछले माह यूएसडी 70 की ऊंचाई को छू ही लिया है और आने वाले समय में भी इसके आस-पास रहने की उम्मीद है क्योंकि अभी अमरीका (दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता) में ड्राइविंग सीज़न अपने जोर पर है और गैसोलीन की मांग भी उच्च बनी रह सकती है। इसके इलावा अमरीका में तुफानों का मौसम आ चुका है तथा इस साल अधिक संख्या में आंधी-तुफानों का पूर्वानुमान है। यदि कच्चा तेल अपने उच्च स्तर पर टिका रहता है, तो भारत सरकार पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाने पर मजबूर हो सकती है जिससे मुद्रास्फीति का कुरूप चेहरा फिर से नज़र आ सकता है।

उल्लेखनीय यह है कि ब्याज दरें, जिसके बारे में शीर्ष ही अपने चरम सीमा पर पहुंचने की उम्मीद की गई थी, पिछले कुछ माह से मांग को कमजोर कर भारतीय कंपनियों पर अपना असर दिखा रही हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव ऑटोमोबाइल कंपनियों पर पड़ सकती है। इसके साथ-साथ निर्यात मांग में संभावित गिरावट तथा विनिमय दर का प्रभाव इंडिया इंक की आय पर भी पड़ सकती है; कम से कम विव2008 की पहली तिमाही में। चूंकि दूसरी छमाही के दौरान आय-वृद्धि में तेज़ी आती है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि तब बाज़ार में फिर से जोश भर जायेगा और इसी बात ने हमारे एक-वर्षीय सूचकांक लक्ष्य 15500 को कायम रखा है।

चूंकि भारतीय विकास की मूल कहानी में कुछ भी फेर-बदल नहीं दिख रहा है, इसके बल पर भारतीय बाज़ार घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों प्रकार के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। इसके इलावा, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था (जैसी हमारी अर्थव्यवस्था है) में विकासान्मुख मूलतः मज़बूत कंपनियों लंबे समय तक असाधारण मुनाफा देती रहेंगी। यह कहना आवश्यक नहीं है कि शेअरखान के जरिये ऐसी कंपनियों का पता चलता रहेगा और उनके ठोस विश्लेषण आप तक पहुंचते रहेंगे। ■

शेअरखान के पसंदीदा स्टॉक्स

मई 2007 के प्रकाशन में, हमने शेअरखान टॉप पिक्स के अंतर्गत अपने 12 स्टॉक आइडियाज सिफारिश में शामिल किया था. 01 मई, 2007 तक स्टॉकों के इस समूह ने 7.9% का मुनाफा दिया, जबकि उसी समयांतराल में सेंसेक्स एवं एसएंडपी सीएनएक्स निपटी में क्रमशः 3.5% एवं 3.52% की उछाल देखी गई.

इस बार हमने पोर्टफोलियो में दो परिवर्तन किये हैं. आदित्य बिडुला नूवो एवं जीनस पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के स्टॉक्स निकाल कर उनकी जगह दो नये स्टॉक्स-एचडीएफसी बैंक एवं अरबिंदो फार्मा-शामिल किये गये हैं. ■

| कंपनी का नाम | सीएमपी* (रुपये) | विव06 | पीईआर विव07ई | विव08ई | विव06 | आरओई (%) विव07ई | विव08ई | कीमत लक्ष्य | वृद्धि (%) |
|--------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|-------|--------------------|--------|----------------|---------------|
| अरबिंदो फार्मा | 697.7 | 52.9 | 20.9 | 15.2 | 8.6 | 13.5 | 15.7 | 914.0 | 31.0 |
| भारती एयरटेल | 838.0 | 70.4 | 37.2 | 26.2 | 20.7 | 29.1 | 32.3 | 900.0 | 7.0 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | 1,892.1 | 26.0 | 21.2 | 18.0 | 29.7 | 26.7 | 24.1 | 2,020.0 | 7.0 |
| भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स | 1,414.4 | 41.2 | 28.6 | 22.5 | 23.0 | 26.2 | 26.4 | 1,563.0 | 10.0 |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज** | 345.7 | 28.8 | 19.5 | 16.6 | 19.5 | 21.7 | 23.1 | 395.0 | 14.0 |
| एचडीएफसी बैंक | 1,152.9 | 41.5 | 32.2 | 27.7 | 17.7 | 19.3 | 15.8 | 1,355.0 | 18.0 |
| हिन्दुस्तान लीवर# | 201.3 | 33.5 | 28.8 | 23.4 | 56.8 | 56.5 | 57.3 | 280.0 | 39.0 |
| आइसीआइसीआइ बैंक | 928.1 | 32.5 | 26.8 | 26.2 | 13.6 | 13.3 | 10.3 | 1,173.0 | 26.0 |
| इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर | 348.3 | 33.2 | 14.7 | 12.0 | 23.3 | 30.6 | 28.7 | 375.0 | 8.0 |
| महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | 762.5 | 27.0 | 21.3 | 16.9 | 22.2 | 27.2 | 23.2 | 1,050.0 | 38.0 |
| सन फार्मास्यूटिकल्स | 1,092.0 | 35.4 | 27.3 | 22.8 | 36.1 | 19.5 | 18.7 | 1,297.0 | 19.0 |
| थर्मैक्स | 497.8 | 58.8 | 29.8 | 21.3 | 22.3 | 31.4 | 32.4 | 585.0 | 18.0 |

*सीएमपी (वर्तमान बाजार भाव) 01 जून, 2007 को.

*जून में समाप्त वर्ष कंपनी

#कैलेंडर वर्ष कंपनी

| कंपनी का नाम | सीएमपी (रुपये) | विव06 | पीईआर विव07ई | विव08ई | विव06 | आरओई (%) विव07ई | विव08ई | कीमत लक्ष्य | ऊपर (%) |
|----------------|-------------------|-------|-----------------|--------|-------|--------------------|--------|----------------|------------|
| अरबिंदो फार्मा | 697.7 | 52.9 | 20.9 | 15.2 | 8.6 | 13.5 | 15.7 | 914.0 | 31.0 |

टिप्पणियां: ■ अपने प्रक्रम रासायन योग्यताओं के बल पर अरबिंदो फार्मा एपीए कंपनी से प्रगति कर एक मज़बूत संरूपण कंपनी बन रही है.

■ अरबिंदो के पास अमरीकी बाज़ार के लिए 110 डीएमएफ्स एवं 82 एएनडीएज उत्पादों की लाइन खड़ी है. विव2007 के दौरान बड़े पैमाने पर मंजूरी मिलने के साथ, हम अपेक्षा करते हैं कि अमरीकी जेनरिक कारोबार से कंपनी को रु.100 करोड़ का वृद्धिशील राजस्व प्राप्त होगा.

■ एन्टि-एचआइवी बाजार में एक मज़बूत कंपनी के रूप में, अरबिंदो ने अपने एआरवी उत्पादों के लिए कई नये उत्पादों की मंजूरी प्राप्त कर ली है. हम अपेक्षा करते हैं कि विव2008 एवं विव2009 में कंपनी एआरवी संरूपण उत्पादों से क्रमशः यूएसडी 99 मिलियन एवं यूएसडी 128.7 मिलियन का राजस्व प्राप्त होगा.

■ उपर्युक्त सुधारों के बल पर हम अपेक्षा करते हैं कि विव2007-09ई के दौरान, कंपनी के राजस्व एवं आय क्रमशः 24.3% एवं 70% सीएजीआर से बढ़ेंगे, जिससे विव2009 में कंपनी का अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) रु.57.1 हो जायेगा. वर्तमान बाज़ार भाव रु.698 पर, स्टॉक अपने विव2008ई एवं विव2009ई आकलित अर्जनों के क्रमशः 15.2x एवं 12.2x पर कारोबार कर रहा है.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----|
| भारती एयरटेल | 838.0 | 70.4 | 37.2 | 26.2 | 20.7 | 29.1 | 32.3 | 900.0 | 7.0 |
|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|-----|

टिप्पणियां: ■ भारती एयरटेल लिमिटेड (बीएल) वायरलेस दूरसंचार क्षेत्र में आई क्रान्ति में सबसे आगे रहा है तथा इस खंड के विकास में इसका योगदान भी अधिक रहा है. पिछले तीन वर्षों के दौरान, इसने 75% से अधिक सीएजीआर पर नये ग्राहक जोड़े हैं तथा अगले दो वर्षों में इसके ग्राहक आधार में 35% से अधिक सीएजीआर से बढ़त की अपेक्षा की जाती है.

■ प्रति इकाई औसत राजस्व (एआरपीयू) पर दबाव बने रहने के बावजूद, इन्वेंटिव सर्विसेज पर कंपनी का फोकस, लागत नियंत्रण मानकों तथा ऊपर उठते आर्थिक-स्तर से इसके मार्जिनों में सुधार हो रही है. फलस्वरूप, विव2006-09 के दौरान कंपनी की आय में 46% सीएजीआर से बढ़त का अनुमान है.

■ वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2007 एवं विव2008 अर्जन आकलनों के क्रमशः 26.2x तथा 20.5x पर कारोबार कर रहा है.

| कंपनी का नाम | सीएमपी (रुपये) | विव06 | पीईआर विव07ई | विव08ई | विव06 | आरओई (%) विव07ई | विव08ई | कीमत लक्ष्य | ऊपर (%) |
|-------------------------|---|-------|--------------|--------|-------|-----------------|--------|-------------|---------|
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | 1,892.1 | 26.0 | 21.2 | 18.0 | 29.7 | 26.7 | 24.1 | 2,020.0 | 7.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> अपने व्यापक उत्पाद-समूह, आर एण्ड डी योग्यताओं एवं प्रमाणित रिकॉर्ड के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) रक्षा क्षेत्रों में आए बड़े अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने मार्च 2007 में समाप्त वर्ष तक रु.9,100 करोड़ के बराबर लंबित ऑर्डर बैकलॉग की घोषणा की है तथा यह रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रक्षा उपकरणों में 64% की बढ़त से लाभ उठाएगी. इसके अतिरिक्त, अग्रणी रक्षा कॉन्ट्रैक्टर, नॉर्दर्न ग्रेमन के साथ हुई संधि से लंबे समय में कंपनी के विकास में काफी मदद मिलेगी. वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2007 एवं विव2008 अर्जन आकलनों के क्रमशः 21.2x तथा 18.0x आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है. | | | | | | | | |
| भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स | 1,414.4 | 41.2 | 28.6 | 22.5 | 23.0 | 26.2 | 26.4 | 1,563.0 | 10.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) बिजली उपकरणों का अग्रणी आपूर्तिकर्ता है. यह विद्युत क्षेत्र में हुए निवेश की चार गुना बढ़ोतरी (9वें पंचवर्षीय योजना के रु.112,000 करोड़ की तुलना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में रु.500,000 करोड़) का लाभ मुख्य रूप से उठायेगा. बीएचईएल के पास अभी रु.55,000 का आदेश बुक है, अर्थात इसके विव2007 राजस्व का 3x के बराबर है. इससे कंपनी उच्च अर्जनों की दृश्यता प्रकट होती है. विद्युत मंत्रालय ने 5 विशाल विद्युत परियोजना को प्रस्तावित किया है, जिसमें रु.80,000 करोड़ के कुल मूल्य के साथ 20,000 (4,000 मेगावाट x5) मेगावाट का क्षमता विस्तार शामिल है. बड़े आकार (500 मेगावाट +) के सुपर-क्रिटिकल बॉयलर्स के डिजाइन एवं निर्माण हेतु एलस्टॉम के साथ बीएचईएल का हाल ही में हुए तकनीकी स्थानांतरण करार से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं संचालित होंगी. हम अपेक्षा करते हैं कि रु.80,000 करोड़ के विशाल निवेश से बीएचईएल का स्पष्ट शेयर बढ़ेगा, जिससे इसके निवेश बुक में वृद्धि संवेग कायम रहेगा. स्टॉक अपने विव08ई अर्जनों के 22.5x पीईआर पर कारोबार कर रहा है. अपने प्रतिद्वन्द्वियों जैसे सीमेंस, एबीबी एवं लार्सन एण्ड टुब्रो की तुलना में बीएचईएल का मूल्यांकन काफी आकर्षक दिखता है. | | | | | | | | |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | 345.7 | 28.8 | 19.5 | 16.6 | 19.5 | 21.7 | 23.1 | 395.0 | 14.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारत की अग्रणी आइटी सेवा कंपनियों में से एक है, जिसने पिछले कुछ तिमाहियों के दौरान कई बड़े सौदे (मल्टि मिलियन, बहु-वर्षीय) पाने में कामयाब हुई है. इन सौदों के बल पर कंपनी की राजस्व-वृद्धि दृश्यता में काफी सुधार हुई है. पिछले तीन तिमाहियों के दौरान कंपनी ने उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किये हैं. इसके अतिरिक्त, बड़े सौदों की वजह से कंपनी की लाभकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव की चिंता के बावजूद, मार्जिनों में भी काफी सुधार देखी गई है. वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2008 एवं विव2009 आकलित अर्जनों के क्रमशः 16.5x एवं 13.8x पर कारोबार कर रहा है. हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. | | | | | | | | |
| एचडीएफसी बैंक | 1,152.9 | 41.5 | 32.2 | 27.7 | 17.7 | 19.3 | 15.8 | 1,355.0 | 18.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> एचडीएफसी बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों का एक उत्तम बैंक है, जो बाजार के विभिन्न परिस्थितियों में 31% की स्थाई अर्जन-वृद्धि बरकरार रखता है. जब संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम अपने मार्जिनों पर दबाव डाल रहा था, उस समय भी बैंक ने अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन में 4.4% का विस्तार दर्ज किया. बैंक के शानदार संपत्ति उत्तरदायित्व प्रबंधन तथा 55% पर निम्न लागत वाला उच्च एवं स्थिर जमा आधार, जो बढ़ते ब्याज दरों के समय लागत को नीचे करने में मदद करता है, के कारण ही विषम परिस्थिति में भी बैंक ने अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन को आगे बढ़ाया. बैंक के प्रबंधन के पास शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है. रु.4,200 करोड़ की नवीनतम पूंजी विस्तार योजना बुक मूल्य बढ़ायेगी तथा बैंक को तेज़ रफ्तार वेग से आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी. स्टॉक अपने विव2009ई अर्जनों के 21.2x, विव2009ई बुक मूल्य के 3.1x तथा विव2009ई उपबंध-पूर्व लाभ के 8.2x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.1,355 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. | | | | | | | | |
| हिन्दुस्तान लीवर | 201.3 | 33.5 | 28.8 | 23.4 | 56.8 | 56.5 | 57.3 | 280.0 | 39.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> हिन्दुस्तान लीवर (एचएलएल) भारत की अग्रणी फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड (एफएमसीजी) कंपनी है. एफएमसीजी खंड में वॉल्यूम वृद्धि की गति पिक-अप ले रही है तथा इस वृद्धि से एचएलएल सबसे अधिक फायदे में रहेगा. कंपनी ने अपने सभी उत्पादों में मूल्य-शक्ति को पुनःप्राप्त किया है. हमें विश्वास है कि उत्तम मूल्य-शक्ति एवं विकसित उत्पाद समूह के बल पर राजस्व-वृद्धि में तेजी आएगी. घाटा करने वाले कारोबारों की पर नियंत्रण, लागत कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तथा अपने खाद्य व्यवसाय पर अधिक फोकस करने से कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा. स्टॉक अपने कैलेंडर वर्ष 2007ई के अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) रु.8.5 के 23.4x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.280 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. | | | | | | | | |

| कंपनी का नाम | सीएमपी (रुपये) | विव06 | पीईआर विव07ई | विव08ई | विव06 | आरओई (%) विव07ई | विव08ई | कीमत लक्ष्य | ऊपर (%) |
|---------------------------------|--|-------|--------------|--------|-------|-----------------|--------|----------------|---------|
| आइसीआइसीआइ बैंक | 928.1 | 32.5 | 26.8 | 26.2 | 13.6 | 13.3 | 10.3 | 1,173.0 | 26.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> आइसीआइसीआइ भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है. रिटेल अग्रिम खण्ड में अपनी मजबूत स्थिति तथा ऋण एवं शुल्क आय में उछाल के जरिए बैंक दो तरफा लाभ उठा रहा है. बैंक के विभिन्न सहायक खंड (जीवन बीमा, सामान्य बीमा, आइसीआइसीआइ सेक्योरिटीज) इसके समग्र मूल्यांकन में रु.382 का योगदान करते हैं. होलिंग कंपनी (बीमा एवं संपत्ति प्रबंधन कारोबार) की सूचीकरण भविष्य में बैंक के मूल्य में वृद्धि करेंगे. बैंक ने रु.20,000 की इक्विटी बढ़ाने की योजना बनाई है, जो आगामी तीन वर्षों में इसकी वर्तमान वृद्धि-दरों को बरकरार रखने में मददगार साबित होगी. पहले भी प्रबंधन ने डाइव्युशन पश्चात् इक्विटी पर मुनाफा बढ़ाया है. इसके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी तेजी आ रही है, सिर्फ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर नियंत्रण की जरूरत है. स्टॉक अपने वित्त वर्ष 2008ई अर्जनों के 26.2x तथा विव2008ई बुक मूल्य के 2.1x के बराबर पीईआर पर कारोबार कर रहा है. | | | | | | | | |
| इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर | 348.3 | 33.2 | 14.7 | 12.0 | 23.3 | 30.6 | 28.7 | 375.0 | 8.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, एक अग्रणी ट्रांसफॉर्मर निर्माता कंपनी है, जो जबरदस्त मांग परिवेश का लाभ उठा रहा है. सरकार द्वारा घोषित नीति तथा 2012 तक घर-घर बिजली पहुंचाने की मोहिम से उत्पन्न मजबूत मांग का फायदा उठाने के लिए कंपनी अपनी विद्यमान निर्माण क्षमता 2,450 एमवीए से बढ़ाकर 7,450 एमवीए कर रही है. कंपनी के पास रु. 200 करोड़ (विव2006 राजस्व का 2x) मूल्य का जबरदस्त ऑर्डर-बुक है तथा 18-20% के बीच उच्च परिचालन मार्जिन (इंडस्ट्री में सबसे अधिक) के कारण यह हमारे टॉप पिक्स स्टॉकों में से एक बन गया है. वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2007 एवं विव2008 अर्जन आकलनों के क्रमशः 14.7x तथा 12.0x के बराबर आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है. | | | | | | | | |
| महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | 762.5 | 27.0 | 21.3 | 16.9 | 22.2 | 27.2 | 23.2 | 1,050.0 | 38.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> कृषि के प्रति सरकार का विश्वास बढ़ने तथा क्रेडिट की आसानी से उपलब्धता, एम एण्ड एम को लाभ पहुंचायेगा. इसके उत्पादों में कई नये उत्पाद शामिल हुए हैं, जैसे, यूवी प्लेटफार्म, मध्यम आकार के कार लोगन (रीनॉल्ट के सहयोग से) तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रकों के सहयोग से अन्य उत्पाद. मध्यम आकार का एक दूसरा बहु-उद्देशीय वाहन (कोड नाम <i>इंजेनियो</i>) भी विव2008 में लांच होने की अपेक्षा है. बेहतर उत्पाद-समूह एवं उच्चतर परिचालन कुशलता से कंपनी के मार्जिन-विस्तार में काफी मदद मिलेगी. टेक महिन्द्रा, महिन्द्रा जेस्को, तथा एमएमएफएसएल जैसी सहायक कंपनियां भी जबरदस्त कामकाज दिखला रही हैं. वर्तमान स्तर पर, स्टॉक अपने विव2008 संघटित अर्जनों के 10.8x पर उद्धृत कर रहा है. | | | | | | | | |
| सन फार्मास्यूटिकल्स | 1,092.0 | 35.4 | 27.3 | 22.8 | 36.1 | 19.5 | 18.7 | 1,297.0 | 19.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> सन फार्मा न्युरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबेटोलॉजिस्ट एवं ऑर्थोपेडिक्स के साथ अग्रणी स्थान पर बरकरार है. यूएस एफडीए मंजूरी के लिए लंबित 56 संक्षेपित न्यू ड्रग अप्लिकेशन्स (एएनडीएज) तथा प्रतिवर्ष 30+ फाइलिंग दर के साथ, सन फार्मा के पास यूएस बाजार के लिए जबरदस्त उत्पाद कतार में मौजूद हैं. यूएस में बिकने वाले 25 उत्पादों में से 15 उत्पादों में सन फार्मा तीन बड़ी कंपनियों में से एक है. विव2006-08 के दौरान आरओडब्ल्यू बाजार में सन फार्मा 60% सीएजीआर की वृद्धि दर्शायेगी. इसके पास 750 पंजीकृत उत्पाद मौजूद हैं तथा मंजूरी हेतु 300+ उत्पाद लंबित हैं. रु.1,500 करोड़ से अधिक नगद की उत्तम स्थिति के साथ, सन फार्मा अधिग्रहणों के जरिए मूल्य-संवर्धन के लिए सक्षम है. कंपनी की उन्नतिशील अनुसंधान एवं विकास इकाई को एक अलग कंपनी के रूप अलग करने से भविष्य में अतिरिक्त संवर्धन की अपेक्षा है. कंपनी की अलग हुई उन्नतिशील आर एंड डी कतार में एक न्यू केमिकल इंटीटी तथा दो नॉवेल ड्रग डेलिवरी सिस्टम उत्पाद मौजूद हैं. | | | | | | | | |
| थर्मैक्स | 497.8 | 58.8 | 29.8 | 21.3 | 22.3 | 31.4 | 32.4 | 585.0 | 18.0 |
| टिप्पणियां: | <ul style="list-style-type: none"> अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं विस्तृत गतिविधियों के साथ, थर्मैक्स, औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों में लंबे समय तक चलने वाले कैपेक्स बूम पर सवार है. मुख्य सेक्टरों में क्षमता-विस्तार एवं संबंधित परियोजनाओं से थर्मैक्स को काफी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं. थर्मैक्स का वर्तमान ऑर्डर बुक रु.3,024 करोड़ का है, जो इसके विव2006 राजस्व का 1.9x है तथा उच्च अर्जन दृश्यता प्रदान करता है. विभिन्न खंडों में तेजी एवं बढ़ते हुए ऑर्डर बुक से, विव06-08 के दौरान थर्मैक्स का संघटित राजस्व 28.9% सीएजीआर से बढ़ने की संभावना है. लागत कम करने वाले मापदंडों एवं आर्थिक-स्तरों से विकसित परिचालन लीवरेज से विव06-08 के दौरान कंपनी के मार्जिनों में 260-बेसिस प्वाइंट्स के विस्तार की उम्मीद है. वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जनों के 21.3x पर कारोबार कर रहा है. 31 दिसंबर 2006 को कंपनी के ऑर्डर बुक पर रु.43 प्रतिशेयर नगद एवं नगद-तुल्य की मौजूदगी मार्जिन को जोखिम रहित बनाता है. | | | | | | | | |



स्टॉक आइडिया

अरबिंदो फार्मा

11

अरबिंदो फार्मा

अग्ली डक्लिग

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.684


मई 28, 2007

संरूपण-विकास पर बड़ा दांव

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.914 |
| बाजार पूंजी: | रु.3,649 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.762/468 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.0 लाख |
| बीएसई कोड: | 524804 |
| एनएसई कोड: | AUROPHARMA |
| शेअरखान कोड: | AURPHARM |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 2.4 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत चार्ट



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 2.2 | 0.2 | 15.3 | 21.5 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 1.4 | -5.0 | 9.8 | -11.0 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

मुख्य बिन्दु

- **संरूपण कारोबार में 62.2% सीएजीआर से बढ़त**: अरबिंदो फार्मा (अरबिंदो) ने विभिन्न बाजारों के लिए 1,172 संरूपण फाइलों की एक लंबी लाइन खड़ी कर ली है तथा कंपनी अपने विशेष जेनरिक संरूपण व्यवसाय में विशाल वृद्धि की उम्मीद रखती है. यह अपेक्षा की जाती है कि विव2006-09 के दौरान, संरूपण विक्री में 62.2% संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि होगी.
- **उत्पादों की लंबी लाइन**: विव2007 के दौरान, अरबिंदो ने 32 एनडीएज तथा 41 डीएमएफ फाइल किया जिससे अमरीकी बाजार में कुल डीएमएफ एवं एनडीएफ फाइलिंग्स की संख्या क्रमशः 110 एवं 82 हो गई है. बिसोप्रोलोल, सिमवस्टैटिन एवं ज़ोलिपिडेम टारटरेट जैसे उत्पादों के लिए हाल ही यूएसएफडीए की मंजूरी को देखते हुए, हम यह आकलन करते हैं कि विव2008 के दौरान अमरीकी जेनरिक कारोबार से कंपनी को रु.100 करोड़ वृद्धिशील राजस्व प्राप्त होगा.
- **यूरोपीय कारोबार में 50% से ज़्यादा विस्तार**: अरबिंदो को यह उम्मीद है कि उत्पाद के बढ़ते पंजीयनों तथा यूके स्थित मिलफार्म एवं नीदरलैंड स्थित फार्मासिन इंटरनेशनल जैसे नवीनतम अधिग्रहणों से मिल रहे सहक्रियात्मक लाभों के बल पर यूरोपीय कारोबार में 50% की वृद्धि होगी. यूरोप में मझौले आकार वाले अधिग्रहणों पर भी कंपनी विचार कर रही है.
- **एआरवी कारोबार में स्थायी वृद्धि**: हाल ही में मिले पंजीयनों के मद्देनजर, हम यह आशा करते हैं कि कंपनी के एआरवी कारोबार में स्थायी वृद्धि देखने को मिलेगी. हमारा आकलन है कि कंपनी का (एन्टि-रिट्रोवाइरल) एआरवी कारोबार विव2008 एवं विव2009 में क्रमशः यूएसडी 99 मिलियन एवं यूएसडी 128.7 मिलियन के बराबर राजस्व उत्पन्न करेगा.
- **संचटित पीएटी में 70% सीएजीआर से वृद्धि**: संरूपण निर्यातों में बढ़ते विकास से कंपनी के संचटित राजस्व को काफी बल मिलेगा. विव2006-09ई के दौरान कंपनी का संचटित राजस्व 24.3% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है (विव2009ई में रु.3,143.1 करोड़). इसी समयावधि में कंपनी का समायोजित शुद्ध मुनाफे में 70% सीएजीआर से वृद्धि की अपेक्षा की जाती है जिससे अर्जन रु.57.1 प्रतिशेयर हो जायेगा.
- **कीमत-लक्ष्य रु.914 के साथ खरीदने की सिफारिश**: वर्तमान बाजार भावर रु.684 पर, अरबिंदो अपने विव2008ई एवं विव2009ई अर्जनों के क्रमशः 14.9x एवं 12.0x पर कारोबार कर रहा है. एक-वर्षीय कीमत-लक्ष्य रु.914 (वर्तमान स्तरों से 34% अधिक तथा विव2009ई अर्जनों का 16x) के साथ हम स्टॉक पर कवरेज का आरंभ कर रहे हैं.

कंपनी की पृष्ठभूमि

अरबिंदो आरंभ से ही एपीआइज का आपूर्तिकर्ता रहा है जिसने सबसे अधिक फोकस सेमि-सिंथेटिक पेनिसिलिन एवं सेफालोस्पोरिन पर दिया है. लेकिन इसके प्रक्रम रासायन योग्यताओं की दैन है कि कंपनी एपीए से प्रगति कर विशेष जेनरिक फार्म्यूलेटर की एक दर्मियानी कंपनी बन रही है.

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

मुख्य वित्तीय स्थितियां

| विवरण | विव05 | विव06 | विव07ई | विव08ई | विव09ई |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| शुद्ध विक्री (रुपये करोड़) | 1321.6 | 1593.6 | 2057.5 | 2622.4 | 3143.1 |
| पीएटी (रुपये करोड़) | 4.8 | 45.5 | 202.7 | 277.9 | 348.4 |
| शेयरों की संख्या (करोड़) | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| ईपीएस (रुपये) | -2.1 | 13.2 | 33.4 | 45.8 | 57.1 |
| पीएआर (x) | -327.8 | 52.0 | 20.5 | 14.9 | 12.0 |
| ईवी/ईबीआइडीटीए (x) | 33.4 | 23.0 | 11.9 | 9.3 | 7.7 |
| कीमत/बीवी (x) | 5.1 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2.0 |
| आरओसीई (%) | 4.6 | 7.4 | 11.2 | 13.4 | 14.7 |
| आरओएनडब्ल्यू (%) | -1.6 | 8.6 | 13.5 | 15.7 | 16.5 |




स्टॉक अपडेट

| | | | |
|-------------------------|----|---------------------------------------|----|
| अहमदनगर फोर्जिंग्स | 13 | महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | 21 |
| आन्ध्रा बैंक | 13 | नवनीत पब्लिकेशंस (इंडिया) | 21 |
| अशोक लेलैंड | 14 | निकोलस पिरामल इंडिया | 22 |
| बजाज ऑटो | 14 | एनआइआईटी टेक्नोलॉजीज | 22 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 15 | ऑर्किड केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स | 23 |
| बैंक ऑफ इंडिया | 15 | सारंगामा इंडिया | 23 |
| भारत बिजली | 16 | सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी | 24 |
| भारत इलेक्ट्रॉनिक्स | 16 | श्री सीमेंट | 24 |
| भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स | 17 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 25 |
| सिपला | 17 | सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज | 25 |
| एसब इण्डिया | 18 | टाटा मोटर्स | 26 |
| ग्रासिम इंडस्ट्रीज | 18 | थर्मैक्स | 26 |
| हिन्दुस्तान लीवर | 19 | अल्ट्राटेक सीमेंट | 27 |
| जयप्रकाश एसोशिएट्स | 19 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 27 |
| केएसबी पंप्स | 20 | यूनिवर्सल केबल्स | 28 |
| ल्यूपिन | 20 | वॉकहार्ट | 28 |

अहमदनगर फोर्जिंग्स

अगली डकिलिंग
खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.250
मई 03, 2007
कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.380 |
| बाजार पूंजी: | रु.831 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.300/133 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 21,543 |
| बीएसई कोड: | 513335 |
| एनएसई कोड: | AHMEDFORGE |
| शेअरखान कोड: | AHMDFORG |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 1.7 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप

कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 3.2 | -12.2 | -5.4 | 14.4 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -2.8 | -11.1 | -12.0 | -2.3 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

विकास के पथ पर

परिणाम के मुख्य अंश


- विव2007 की तीसरी तिमाही में अहमदनगर फोर्जिंग्स ने जबरदस्त नतीजे दर्ज किये. तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री 69% की दर से बढ़कर रु.175.2 करोड़ हो गई.
- कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाकर 110,000 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) कर ली है तथा इस समय यह अपनी 64% उपयोगिता-स्तर पर परिचालित है. हमें उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में क्षमता-विस्तार कंपनी की शुद्ध बिक्री को और भी मजबूत करेगा.
- कंपनी की परिचालन संबंधी बेहतर क्षमता के बल पर इसके मार्जिनों में 21% का विस्तार हुआ. परिचालन लाभ 72.6% की दर से बढ़कर रु.36.8 करोड़ पर दर्ज हुआ. पिछले दो वर्षों में इस्रात की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी के बावजूद, कंपनी बेहतर मार्जिन को बरकरार रखने में कामयाब रही है (बिक्री के प्रतिशत के रूप में कंपनी के कच्चे माल की लागत 63.5% से बढ़कर 67.9% हो गई).
- तिमाही के दौरान, कंपनी द्वारा किये गये पूंजी-खर्च (कैपेक्स) की बंदौलत ब्याज खर्च में बढ़त देखी गई. स्थिर अवमूल्यन लागत एवं निम्न करों के बल पर कंपनी का शुद्ध लाभ 86% की दर से बढ़कर रु.20.5 करोड़ हो गया.
- वर्तमान स्तरों पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जनों के 6.8x तथा इंटरप्राइज मूल्य (ईवी)/ब्याज, अवमूल्यन, कर एवं परिशोधन पूर्व अर्जन (ईबीआइडीटीए) के 4.7x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.380 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

आन्धा बैंक

कैननबॉल
खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.82
मई 08, 2007
कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.101 |
| बाजार पूंजी: | रु.3,921 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.98.5/56.5 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 5.5 लाख |
| बीएसई कोड: | 532418 |
| एनएसई कोड: | ANDHBANK |
| शेअरखान कोड: | ANDHBANK |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 23.8 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप

कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 12.1 | -5.6 | -10.7 | 1.9 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 3.8 | -0.7 | -15.7 | -10.7 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

टिकाऊ कामकाज

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में आन्धा बैंक का शुद्ध मुनाफा एक स्थिर वृद्धि के साथ रु.138.8 करोड़ पर दर्ज हुआ जो हमारे अपेक्षित कर पश्चात् लाभ (पीएटी) रु.138.8 करोड़ से ज्यादा बेहतर है. पीएटी में ऐसी वृद्धि अपेक्षा से कम परिचालन खर्चों की बंदौलत हुई.
- तिमाही के दौरान, बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआइआइ) वर्ष दर वर्ष 18.4% की दर से बढ़कर रु.362.2 करोड़ हो गई. लेकिन संपत्ति आय के मुकाबले बैंक के फंडों की लागत ज्यादा तेज़ी से बढ़ने के कारण इसके शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर अनुकामिक दबाव बना रहा. इसके साथ-साथ अनुकामिक आधार पर बैंक के निम्न लागत वाले जमा आधार में भी गिरावट आई.
- कोषागार आय में 40.4% की गिरावट के बावजूद, बैंक की गैर-ब्याज आय वर्ष दर वर्ष 9% की दर से बढ़कर रु.138.4 करोड़ हो गई. कोषागार आय को छोड़कर गैर-ब्याज आय में वर्ष दर वर्ष 20.3% की वृद्धि देखी गई.
- उपबंधों एवं आकस्मिक व्ययों में वर्ष दर वर्ष 23% की गिरावट देखी गई लेकिन तिमाही के दौरान, उच्च गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) एवं मानक संपत्ति उपबंध के कारण यह तिमाही दर तिमाही आधार पर यह 25.7% की दर से बढ़ गया.
- पीएटी में सीमांत वृद्धि हुई यद्यपि कर पूर्व लाभ (पीबीटी) वर्ष दर वर्ष 158.7% की दर से आगे बढ़ा. इसका मुख्य कारण यह था कि विव2006 की चौथी तिमाही में हुई कर-वापसी की तुलना में विव2007 की चौथी तिमाही में रु.76 करोड़ बतौर कर-शुल्क जुड़े.
- 9.8% पर टीयर-1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के साथ बैंक का सीएआर 11.3% पर बेहतर बना हुआ है. वर्तमान बाजार भाव रु.82 पर, स्टॉक अपने विव2008ई ईपीएस के 6.5x, उपबंध पूर्व लाभ (पीपीपी) के 3.6x तथा बुक मूल्य के 1.1x पर कारोबार कर रहा है. बैंक अपने प्रतियोगियों की तुलना में निम्न मूल्य के साथ आकर्षक मूल्यांकनों पर उपलब्ध है. कीमत-लक्ष्य रु.101 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

अशोक लेलैंड

अगली डिविडेंड

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.39.5


मई 07, 2007

बेहतरीन प्रदर्शन

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.44 |
| बाजार पूंजी: | रु.5,143 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.52.5/30 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 44.75 लाख |
| बीएसई कोड: | 500477 |
| एनएसई कोड: | ASHOKLEY |
| शेअरखान कोड: | ASHOKLEY |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 63.2 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 11.3 | -15.2 | -5.5 | -16.4 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 2.1 | -12.6 | -11.3 | -27.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में अशोक लेलैंड लिमिटेड (एएलएल) ने जबरदस्त नतीजे दर्ज किये जो मार्जिन के संदर्भ में हमारी अपेक्षाओं से आगे हैं. तिमाही के दौरान, 28.4% वॉल्यूम-वृद्धि तथा वसूली में 2.9% की बढ़त के बल पर कंपनी की शुद्ध बिक्री 32.1% की दर से आगे बढ़ी.
- तिमाही के दौरान, परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 11.6% की दर से आगे बढ़ा जो हमारे आकलनों से आगे रहा. पिछले साल की तुलना में, ओपीएम में 100-बेसिस प्वाइंट्स का विस्तार हुआ जिसका मुख्य कारण कच्चे माल की उच्च लागत है. फलस्वरूप, तिमाही में परिचालन लाभ 21.1% की दर से बढ़कर रु.264.9 करोड़ पर पहुंच गया.
- निम्न ब्याज लागत एवं करों की मदद से कंपनी का शुद्ध मुनाफा 28.8% की दर से बढ़कर रु.174.6 करोड़ पर पहुंच गया. विव2007 के दौरान, वॉल्यूम में 35% की वृद्धि की बदौलत कंपनी की शुद्ध बिक्री 36.5% की दर से बढ़ी. ओपीएम 30-बेसिस प्वाइंट्स नीचे खिसक कर 9.9% पर आ गया जबकि पूरे साल का मुनाफा 46% बढ़कर रु.436.3 करोड़ हुआ.
- विव2008 में कंपनी ने क्षमता-विस्तार एवं नये उत्पादों के विकास हेतु रु.1,000 की पूंजी खर्च योजना बनाई है. देश में बढ़ती ब्याज दरों एवं लिक्विडिटी में कसाव को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग पर हमें खास नज़र रखनी पड़ेगी. हमें उम्मीद है कि वृद्धि दरें सामान्य रहेंगी तथा विव2008 में वॉल्यूम में 11.9% की वृद्धि होगी. कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1,00,000 वाहन के बिक्री-स्तर पर पहुंचने की योजना बनाई है.
- वर्तमान बाजार भाव रु.39.5 पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जन के 11x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.44 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

बजाज ऑटो

एप्पल ग्रीन

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.2,248


मई 21, 2007

डिमर्जर, डिस्क्लोजर्स से हुआ नुकसान

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.2,500 |
| बाजार पूंजी: | रु.22,695 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.3,259/2,085 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 2.9 लाख |
| बीएसई कोड: | 500490 |
| एनएसई कोड: | BAJAJAUTO |
| शेअरखान कोड: | BAJAJ |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 6.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | -8.4 | -24.0 | -10.8 | -22.9 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -12.5 | -24.0 | -16.6 | -39.6 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में बजाज ऑटो लिमिटेड की शुद्ध बिक्री 6.8% की दर से बढ़कर रु.2,313.6 करोड़ पर दर्ज हुई. तिमाही के दौरान, परिचालन लाभ 23.2% की दर से गिरकर रु.326.3 करोड़ पर पहुंचा जबकि असाधारण पूर्व शुद्ध लाभ 3.9% की दर से गिरकर रु.320.75 करोड़ हुआ.
- कंपनी ने बहुत दिनों से विचाराधीन डिमर्जर की घोषणा की है, जिसके तहत दो अलग-अलग कंपनियां स्थापित होंगी. एक बजाज ऑटो लिमिटेड (बीएएल; नया) के नाम से निर्माण व्यवसाय वाली कंपनी होगी तथा दूसरी बजाज फिनसर्व लिमिटेड (बीएफएल) के नाम से जानी जायेगी जिसका कारोबार बीमा, ऑटो ऋण तथा विंड पॉवर होगा. विद्यमान कंपनी का नाम बदलकर बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (बीएचआइएल) किया जायेगा. शेयरधारकों की होल्डिंग नई कंपनी में 70% तथा बीएचआइएल में 30% होगी. इस गतिविधि को हम नकारात्मक महसूस करते हैं क्योंकि सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट से जोखिम उठा सकती है.
- विद्यमान बीएल कंपनी के मौजूदा एक शेयर के बदले शेयरधारकों को बीएचआइएल का एक शेयर, रु.10 के बराबर बीएल (नया) का एक शेयर तथा रु.5 के बराबर बीएफएल का एक शेयर प्राप्त होगा.
- बीएल ने यह भी घोषणा किया कि 2016 तक एलायंस के पास जीवन बीमा कारोबार में मौजूद 26% स्टैक को बढ़ाकर पूर्व-निर्धारित मूल्य पर 74% करने का कॉल ऑप्शन मौजूद है. बीमा के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मानदंड में राहत से बीएल के स्टैक कम होने की संभावना बनी हुई है.
- नये बीएल को रु.1,254 प्रतिशेयर तथा बीएफएल को रु.449 प्रतिशेयर पर मूल्यांकित करते हुए, हम बीएल पर अपने सम-ऑफ-द-पार्ट्स (एसओटीपी) कीमत-लक्ष्य को घटाकर रु.2,500 कर रहे हैं. बीएल के नकद तथा निवेश पोर्टफोलियो तथा दोनों नई कंपनियों में बीएचआइएल की हिस्सेदारी के मद्देनजर, हम बीएचआइएल का मूल्य रु.835 निकलता है. हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें



बैंक ऑफ बड़ौदा

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.285

मई 17, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.310 |
| बाजार पूंजी: | रु.10,460 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.296/176 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 6.0 लाख |
| बीएसई कोड: | 532134 |
| एनएसई कोड: | BANKBARODA |
| शेअरखान कोड: | B0B |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 16.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 19.5 | 20.2 | 3.7 | 12.7 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 15.8 | 21.8 | -1.3 | -6.8 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

कामकाज में उल्लेखनीय सुधार

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) वर्ष दर वर्ष 17.6% बढ़ा लेकिन तिमाही दर तिमाही 25.4% की गिरावट के साथ रु.245.7 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- समायोजित शुद्ध ब्याज आय (एनआइआइ) वर्ष दर वर्ष 21.5% एवं तिमाही दर तिमाही 9.6% की दर से बढ़कर रु.1,052.6 करोड़ हुई जो रु.1,002 करोड़ के हमारे आकलन से ज्यादा है. संपत्ति आय में सुधार के बल पर शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआइएम) में 9-बेसिस प्वाइंट्स की बढ़त देखी गई.
- गैर-ब्याज आय वर्ष दर वर्ष 6.9% की दर से बढ़कर रु.397.8 करोड़ हुई; वृद्धि में रुकावट का मुख्य कारण कोषागार आय में 61.7% की बड़ी गिरावट थी. बहरहाल मुख्य शुल्क आय में वर्ष दर वर्ष 36.4% एवं तिमाही दर तिमाही 13.9% की बढ़त देखी गई.
- रु.300 करोड़ की अनुवर्ती गिरावट के साथ रु.2,092 करोड़ पर मौजूद सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के बल पर बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में मजबूती बरकरार है. प्रतिशत के रूप में शुद्ध एनपीए पिछली तिमाही के 0.67% से कम 0.6% पर मौजूद है. 8.74% पर टीयर-1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के साथ बैंक का सीएआर 11.8% पर सुरक्षित बना हुआ है.
- संपत्ति गुणवत्ता के बेहतर स्तरों के साथ बैंक अपने कारोबार में जबरदस्त वृद्धि की उम्मीद करता है. बहरहाल कारोबार में वृद्धि के समानुपात लाभकारिता में सुधार नहीं देखी गई है, जिसकी वजह से इक्विटी पर निम्न वापसी की शंका बनी हुई है. कारोबार में निरंतर वृद्धि के लिए जो संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता थी, हमें लगता है कि बैंक ने उसे कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया है और अब प्रबंधन लाभकारिता में सुधार पर ज्यादा ध्यान दे रहा है. वर्तमान बाजार भाव रु.285 पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जन के 8x तथा बुक मूल्य के 1.1x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.310 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

बैंक ऑफ इंडिया

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.200

मई 03, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.219 |
| बाजार पूंजी: | रु.9,762 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.214/80 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 23 लाख |
| बीएसई कोड: | 532149 |
| एनएसई कोड: | BANKINDIA |
| शेअरखान कोड: | B0I |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 14.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 14.6 | 0.8 | 12.0 | 65.1 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 8.0 | 2.0 | 4.2 | 41.0 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.219

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ) का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) हमारे आकलन रु.288.9 करोड़ के मुकाबले वर्ष दर वर्ष 76% की दर से बढ़कर रु.447 करोड़ पर पहुंच गया जिसका मुख्य कारण गैर-ब्याज आय में वर्ष दर वर्ष 78.0% की जबरदस्त उछाल रही.
- रु.973 करोड़ के हमारे आकलन के विपरीत, बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआइआइ) वर्ष दर वर्ष 28.8% तथा तिमाही दर तिमाही 7.7% की दर से बढ़कर रु.991 करोड़ पर पहुंच गई. उच्च प्रतिफल एवं नियंत्रित लागत के साथ निम्न लागत वाले स्थिर जमा आधार की मदद से अनुवर्ती आधार पर बैंक के मार्जिनों में सुधार देखी गई.
- गैर-ब्याज आय वर्ष दर वर्ष 78% एवं तिमाही दर तिमाही 79% की दर से बढ़कर रु.576 करोड़ पर पहुंच गई जिसने सभी को अचंभे में डाल दिया. शुल्क आय में वर्ष दर वर्ष 40.4% एवं तिमाही दर तिमाही 38.5% की वृद्धि काफी आशाजनक तथा दीर्घकालिक दिख रही है चूंकि बैंक की मुख्य शुल्क आय उसके विप्रेषण, नकद प्रबंधन, बैंक प्रतिभूतियों जैसे कारोबारों से पैदा होती है.
- सभी पहलुओं पर ध्यान देने के पश्चात्, हमें यह लगता है कि विव2007 में बीओआइ ने स्वयं को एक बेहतर सार्वजनिक बैंक (पीएसबी) के रूप में सिद्ध कर दिया है. बैंक के प्रबंधन ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए उचित उद्देश्य का प्रदर्शन किया है. बैंक के विकसित अर्जन दृश्यता पर आधारित, हमने अपने विव2008ई पीएटी आकलन को 15% बढ़ाकर रु.1,352 करोड़ किया है. वर्तमान बाजार भाव रु.200 पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) के 7.2x, उपबंध-पूर्व लाभ (पीपीपी) के 3.1x तथा बुक मूल्य के 1.5x पर कारोबार कर रहा है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.219 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

भारत बिजली

एप्पल ग्रीन

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.1,637


मई 11, 2007

विव2007 की चौथी तिमाही के नतीजे

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.1,730 |
| बाजार पूंजी: | रु.925 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.1,709/750 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 11,565 |
| बीएसई कोड: | 503960 |
| एनएसई कोड: | BBL |
| शेअरखान कोड: | BHARATBIJ |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 0.4 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 18.5 | 8.9 | 27.5 | 3.2 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 13.5 | 14.6 | 22.5 | -7.0 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

परिणाम के मुख्य अंश

- भारत बिजली लिमिटेड के विव2007 की चौथी तिमाही के नतीजे हमारी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर आये. जबरदस्त ऑर्डर बुक के बल पर तिमाही में कंपनी का राजस्व 73% की दर से बढ़कर रु.179 करोड़ हुआ. शुद्ध मुनाफा 123% की शानदार दर से बढ़कर रु.29.07 करोड़ पर दर्ज हुआ, जो हमारी अपेक्षाओं से काफी आगे है.
- तिमाही में परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) वर्ष दर वर्ष 21.1% के मुकाबले 370-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 24.8% हुआ, जिसके चलते तिमाही में परिचालन लाभ 105% की दर से बढ़कर रु.44.5 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- ओपीएम में यह सुधार कच्चे माल की लागत/बिक्री की निम्न अनुपात के बल पर हुआ, जो पिछले साल दर्ज 64.9% के मुकाबले इस साल की चौथी तिमाही में कम हो कर 62.8% पर पहुंच गई है. ओपीएम में सुधार के पीछे परिचालन संबंधी अन्य कुशलताओं का भी हाथ रहा; अन्य खर्च/बिक्री अनुपात वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.6% से घटकर 5.9% पर आ गई. तिमाही में ब्याज लागत 20% कम हुई जबकि अवमूल्यन खर्च 89% बढ़े.
- कंपनी ने रु.25 (250%) प्रतिशेयर का लाभांश घोषित किया है.
- कंपनी की ट्रांसफार्मर निर्माण क्षमता का सामयिक विस्तार; 3000 मेगावाट से 8000 मेगावाट, कंपनी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ. इसके इलावा, पॉवर सेक्टर के लिए विशाल निवेश की मौजूदगी तथा औद्योगिक क्षेत्र में जारी गतिविधियों से बीबीएल का ऑर्डर-बुक मजबूत बनेगा.
- वर्तमान बाजार भाव रु.1,637 पर, स्टॉक अपने विव2007 अर्जन के 16.3x तथा ईबीआईटीए के 8.6x पर कारोबार कर रहा है. नकद एवं नकद समकक्ष को छोड़कर, स्टॉक अपने विव2007 अर्जन के 13x पर उद्धृत कर रहा है. उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे तथा पिछले ऑर्डरों के मजबूत ढेर के मद्देनजर, कीमत-लक्ष्य रु.1,730 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण करने के पश्चात् हम आपके समक्ष विव2008 अर्जन आकलनों एवं संशोधित कीमत-लक्ष्य को पेश करेगे. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

एप्पल ग्रीन

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.1,740


मई 03, 2007

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.2,020

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.2,020 |
| बाजार पूंजी: | रु.13,920 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.1,794/815 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.5 लाख |
| बीएसई कोड: | 500049 |
| एनएसई कोड: | BEL |
| शेअरखान कोड: | BEL |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 1.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 14.4 | 25.2 | 55.1 | 31.1 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 7.7 | 26.8 | 44.3 | 11.9 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की शुद्ध बिक्री 10% की दर से बढ़कर रु.1,734.2 करोड़ पर दर्ज हुई.
- कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 150-बेसिस प्वाइंट्स की सुधार के साथ 28% हो गया जिसका मुख्य कारण बिक्री के प्रतिशत के रूप में कच्चे माल की लागत में 460-बेसिस प्वाइंट्स की बचत है. मार्जिन विस्तार के साथ, अन्य आय में हुई 62.8% की शानदार वृद्धि के बल पर कंपनी की आय 27.1% बढ़कर रु.357.1 करोड़ पर पहुंच गई.
- पूरे साल भर में, कंपनी की शुद्ध बिक्री 9.4% की बढ़त के साथ रु.3,894 करोड़ हुई. कच्चे माल की लागत में बचत के कारण, परिचालन लाभ मार्जिन 50-बेसिस प्वाइंट्स के विस्तार के साथ 24.2% हो गया. इसके अतिरिक्त, अन्य आय में 69.1% की उछाल के बल पर कंपनी की आय 22.4% की अपेक्षाकृत उच्च दर से बढ़कर रु.713.9 करोड़ हो गई.
- बकाया ऑर्डर उम्मीद से ज्यादा बढ़कर रु.9,000 करोड़ पर दर्ज हुए और इसी वजह से तिमाही के दौरान कंपनी का कामकाज काफी बेहतर दिखा. इसके इलावा विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ नवीनतम संधियां/संयुक्त कारोबार ने कंपनी के राजस्व-वृद्धि दृश्यता में काफी काफी सुधार किया है.
- इन सब सुधारों शामिल करते हुए, हमने अपने विव2008 अर्जन आकलनों में 10.9% की बढ़त की है. वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक विव2008 एव विव2009 आकलित अर्जनों के क्रमशः 12.5x तथा 9.9x (नकद के लिए समायोजित) पर कारोबार कर रहा है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.2,020 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें



स्टॉक अपडेट

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.2,724

मई 28, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.3,125 |
| बाजार पूंजी: | रु.66,673 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.2,760/1,531 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 5.0 लाख |
| बीएसई कोड: | 500103 |
| एनएसई कोड: | BHEL |
| शेअरखान कोड: | BHEL |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 7.8 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 8.4 | 18.6 | 7.4 | 43.0 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 7.4 | 12.4 | 2.2 | 4.8 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.3,125

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की तीसरी तिमाही के अंत तक रु.46,700 करोड़ के बराबर शेष ऑर्डरों के बल पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (बीएचईएल) का कारोबार 25% की दर से बढ़कर रु.7,576 करोड़ पर पहुंच गया.
- वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.16,300 करोड़ के ऑर्डर अंतर्वाह में 56% की मजबूत वृद्धि के बल पर तिमाही के दौरान पिछले ऑर्डरों का ढेर 45% की आकर्षक दर से बढ़कर रु.55,000 करोड़ के बराबर हो गया.
- पावर खंड ने अपने राजस्व में 23% की वृद्धि दर्ज की जबकि इंडस्ट्री खंड ने 30% की तेजी दिखलाई. तिमाही के दौरान, परिचालन लाभ (ओपीएम) में वर्ष दर वर्ष 135-बेसिस प्वाइंट्स की विस्तार होने से परिचालन लाभ 33% की दर से बढ़कर रु.1,587 करोड़ हो गया. कंपनी के पास मौजूद विशाल सुरक्षित नकद पर बढ़ती हुई आय के कारण अन्य आय 34% की दर से बढ़कर रु.286 करोड़ पर दर्ज हुई.
- विव2007 में कंपनी का लेन-देन 29% की दर से बढ़कर रु.18,702 करोड़ हुआ तथा शुद्ध मुनाफा 42% की दर से बढ़कर रु.2,385 पर पहुंच गया.
- अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में, बीएचईएल ने पूरे साल में रु.1,903 करोड़ के निर्यात ऑर्डर्स प्राप्त किये हालांकि पिछले पांच सालों में कंपनी ने रु.1,275 करोड़ के औसत वार्षिक ऑर्डर बुक दर्ज किये थे.
- वर्तमान स्तरों पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जनों के 21.8x तथा विव2008ई ईबीआईडीटीए के 13.9x पर कारोबार दर्ज कर रहा है. ऑर्डर बुक में जारी वृद्धि के अपेक्षाओं तथा आय में जबरदस्त वृद्धि के मद्देनजर, हमें विश्वास है कि मूल्यांकन काफी आकर्षक है. स्टॉक अपने प्रतियोगियों, एबीबी, सीमेंस एवं अरेवा की तुलना में सस्ते दामों पर उपलब्ध है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.3,125 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

सिप्ला

कैननबॉल


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.215

मई 07, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.256 |
| बाजार पूंजी: | रु.16,673 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.280/180 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 2.8 लाख |
| बीएसई कोड: | 500087 |
| एनएसई कोड: | CIPLA |
| शेअरखान कोड: | CIPLA |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 47.1 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | -5.1 | -12.9 | -15.0 | -18.4 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -13.0 | -10.2 | -20.3 | -28.9 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.256

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में सिप्ला के नतीजे अपेक्षाओं से कम रहे. रु.199.6 करोड़ के अनुमान के विपरीत, कंपनी ने रु.125.7 करोड़ शुद्ध मुनाफा दर्ज किया. कंपनी के राजस्व 6.3% की छोटी बढ़त के साथ रु.938.5 करोड़ पर दर्ज हुआ. एपीआई निर्यात 27% की दर से गिरकर रु.141.46 करोड़ पर जा पहुंचा जिसकी वजह से बिक्री में गिरावट देखी गई.
- निम्न मार्जिन वाले एन्टी-रिट्रोवाइरल्स उत्पादों की उच्च सहभागिता एवं विनियमित बाजारों में एपीआई की निम्न बिक्री के चलते तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 590-बेसिस प्वाइंट्स नीचे गिरकर 15.7% हो गया. फलस्वरूप परिचालन लाभ 22.8% की गिरावट के साथ रु.147.0 करोड़ पर दर्ज हुआ. अन्य आय में 40% की कमी तथा उच्च कर-भार (4.0% से बढ़कर 11.3%) के साथ, कंपनी का शुद्ध मुनाफा 40.3% गिरकर रु.125.7 करोड़ पर आ गया.
- निर्यात कारोबार में उम्मीद से खराब प्रदर्शन तथा ओपीएम में गिरावट के कारण, सिप्ला ने विव2007 एवं विव2007 की चौथी तिमाही, दोनों के लिए निराशाजनक आंकड़े सूचित किये. इसी वजह से, हम अपने विव2008 अर्जन आकलन को 17.4% नीचे कर रहे हैं तथा साथ में विव2009 के लिए अपने आकलनों को प्रस्तुत कर रहे हैं.
- वर्तमान बाजार भाव रु.215 पर, स्टॉक अपने विव2008 अर्जन (रु.10.9) के 19.7x तथा विव2009 अर्जन (रु.12.8) के 16.7x पर कारोबार कर रहा है. यद्यपि हमने अपने आकलनों को कम किया है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्यात खंड से होने वाली आयों में सुधार की उम्मीद पूरी तरह से नकार दिया जा सकता है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.256 (विव2009ई ईपीएस रु.12.8 का 20x) के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

एसब इण्डिया

वल्चर्स पिक


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.378

मई 04, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.575 |
| बाजार पूंजी: | रु.582 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.467/237 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 16,230 |
| बीएसई कोड: | 500133 |
| एनएसई कोड: | ESABINDIA |
| शेअरखान कोड: | ESAB |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 1.0 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 24.2 | -1.9 | -7.3 | -16.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 11.3 | 0.1 | -13.9 | -28.0 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

अपेक्षाओं को पार करते हुए

परिणाम के मुख्य अंश

- कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में एसब इंडिया के नतीजे हमारी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर आये. तिमाही के दौरान, कंपनी की शुद्ध बिक्री 29% बढ़कर रु.81.2 करोड़ हुई तथा शुद्ध मुनाफा 38% की मजबूत बढ़त के साथ रु.12.3 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- चेन्नई स्थित नई फैक्ट्री जोकि अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुई है, ने कंपनी की शुद्ध बिक्री को बढ़ाने में काफी सहयोग दिया. पूर्णतः क्रियाशील होने के पश्चात् यह फैक्ट्री शुद्ध बिक्री में रु.60 करोड़ का योगदान करेगी. तिमाही में कंपनी का राजस्व 29% की आकर्षक दर से बढ़ा चूकि उपकरण (इक्विपमेंट) खंड का राजस्व 31.7% तथा उपभोगीय (कंज्यूमेबल) खंड का राजस्व 28.1% की दर से बढ़ा.
- तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ 44% बढ़कर रु.19.6 करोड़ हुआ चूंकि परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 250-बेसिस प्वाइंट्स की सुधार के साथ 24.1% पर दर्ज हुआ. ओपीएम में यह सुधार दोनों खंडों की बेहतर लाभकारिता के बल पर हुआ. उपकरण खंड का ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन (ईबीआईटी) मार्जिन 396-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 16.5% तथा उपभोगीय खंड का ईबीआईटी मार्जिन 282-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 27.7% के स्तर पर आ गया.
- चेन्नई में एक नये प्लांट के स्थापित होने से तिमाही में कंपनी का अवमूल्यन शुल्क 24% बढ़ गया. चूंकि कंपनी ने अपने सारे कर्ज का निपटान करने की वजह से एक कर्ज-मुक्त बन कंपनी गई है, इसलिए तिमाही में इसका ब्याज खर्च न के बराबर रहा.
- वर्तमान बाजार भाव रु.378 पर, स्टॉक अपने कैलेंडर वर्ष 2007 अर्जन के 11.2x पर उद्धृत कर रहा है. ईवी/ईबीआईटीए आधार पर, स्टॉक अपने कैलेंडर वर्ष 2007 ईबीआईटीए के 6.2x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.575 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

ग्रासिम इंडस्ट्रीज

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.2,505

मई 16, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.2,975 |
| बाजार पूंजी: | रु.22,946 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.2,908/1,462 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.6 लाख |
| बीएसई कोड: | 500300 |
| एनएसई कोड: | GRASIM |
| शेअरखान कोड: | GRASIM |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 6.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 8.4 | -5.3 | -7.2 | 19.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 4.1 | -2.6 | -10.6 | -0.3 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.2,975

परिणाम के मुख्य अंश

- सीमेंट की मजबूत वसूलियों तथा विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) एवं स्यांज कारोबारों में उच्च वॉल्यूम के बल पर विव2007 की चौथी तिमाही में ग्रासिम इंडस्ट्रीज (ग्रासिम) के एकल राजस्व वर्ष दर वर्ष 37.4% की तेज दर से बढ़कर रु.2,490 करोड़ पर दर्ज हुए.
- सीमेंट खंड में ईबीआईटीए वर्ष दर वर्ष 77% की उछाल के साथ रु.470 करोड़ हुआ, जिसके कारण कंपनी का परिचालन लाभ वर्ष दर वर्ष 66% की दर से बढ़कर रु.771 करोड़ पर पहुंच गया.
- तिमाही में उच्च उधारों के चलते ब्याज खर्च वर्ष दर वर्ष 55% की तेजी के साथ बढ़कर रु.36 करोड़ हुए जबकि अवमूल्यन शुल्क वर्ष दर वर्ष 15% बढ़कर रु.87.6 करोड़ पर जा पहुंचा.
- अधिशेष धन के अविनियोजन के कारण अन्य आय के रूप में रु.78 करोड़ की प्राप्ति हुई जिसके बल पर ग्रासिम का शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 69.1% की दर से बढ़कर रु.437 करोड़ हो गया.
- पूंजी खर्च (कैपेक्स) योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है तथा विव2009 की पहली तिमाही तक 8 मिलियन मेट्रिक टन की एक नई क्षमता के संचालन की उम्मीद है. कंपनी खरच, गुजरात स्थित अपनी वीएसएफ क्षमता को 45,625 टन से बढ़ाकर 63,725 टन कर रही है. इसके साथ हरिहर में हुए क्षमता-विस्तार को मिलाकर कंपनी की कुल वीएसएफ क्षमता बढ़कर 350,000 टन हो जायेगी.
- हम अपने संघटित विव2008 अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) आकलन में 3.8% की बढ़ोतरी कर उसे रु.245 कर रहे हैं तथा रु.208 पर अपने विव2009 ईपीएस आकलन को प्रस्तुत कर रहे हैं.
- वर्तमान बाजार भाव रु.2,505 पर, स्टॉक अपने विव2008ई ईपीएस के 10.1x तथा विव2009ई ईपीएस के 11.9x पर कारोबार कर रहा है. वीएसएफ कारोबार से उच्च नकद प्रवाह द्वारा कंपनी की स्थायित्व प्रकट होती है. इसको ध्यान में रखते हुए, संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.2,975 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

हिन्दुस्तान लीवर

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.195

मई 08, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.280 |
| बाजार पूंजी: | रु.42,699 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.289/166 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 34.3 लाख |
| बीएसई कोड: | 500696 |
| एनएसई कोड: | HINDLEVER |
| शेअरखान कोड: | HLL |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 106.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|-------|-------|
| निरपेक्ष | -0.8 | -4.4 | -19.8 | -29.9 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -8.2 | 0.5 | -24.3 | -38.2 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

बिक्री में अच्छी बढ़त, पर मार्जिस निराशाजनक

परिणाम के मुख्य अंश

- कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल) का शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 13.6% की दर से बढ़कर रु.333.9 करोड़ हुआ, जो हमारी अपेक्षाओं से थोड़ा कम है.
- होम एंड पर्सनल केयर (एचपीसी) खंड (जिसके अंतर्गत साबुन एवं डिजेंट, तथा वैयक्तिक वस्तुओं का कारोबार आता है) में हुई वर्ष दर वर्ष 8.73% की वृद्धि के बल पर, एचएलएल के शुद्ध राजस्व वर्ष दर वर्ष 13.8% की दर से बढ़े. वैयक्तिक उत्पादों (पर्सनल केयर) वाले कारोबार में निम्न वृद्धि देखी गई लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले तिमाहियों में इसमें तेजी आयेगी.
- वैयक्तिक उत्पाद खंड में निम्न वृद्धि के चलते कंपनी का ब्याज एवं कर पश्चात् लाभ (पीबीआइटी) मार्जिन 70-बेसिस प्वाइंट्स नीचे गिरकर 13.6% पर आ गया. साबुन एवं डिजेंट कारोबार में 9.6% की अच्छी वृद्धि देखी गई जबकि वैयक्तिक उत्पाद कारोबार ने 7.4% की निम्न वृद्धि दर्ज किया. निहार ब्रैंड के निपटान के समायोजन पर पर्सनल उत्पादों में 10.5% की बढ़त दिखती है. पेय उत्पाद कारोबार में वर्ष दर वर्ष 16.6% की तेजी देखी जबकि संसाधित खाद्य कारोबार ने वर्ष दर वर्ष 26% की वृद्धि दर्ज की.
- कच्चे माल की उच्च लागत के चलते एचएलएल का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) वर्ष दर वर्ष 44-बेसिस प्वाइंट्स कम होकर 11.37% हुआ. बिक्री के प्रतिशत के रूप में, बिक्री एवं प्रशासनिक खर्चें 35% ऊपर चढ़े जिसकी वजह से मार्जिन में और भी गिरावट आई.
- साबुन एवं डिजेंट खंड ने वर्ष दर वर्ष 12.1% पर अपने ईबीआइटी मार्जिन को बरकरार रखने में कामयाबी दिखाई जबकि वैयक्तिक उत्पाद खंड में ईबीआइटी मार्जिन 30-बेसिस प्वाइंट्स सुधर कर 24.7% हो गया.
- वर्तमान बाजार भाव रु.195 पर, स्टॉक अपने कैलेंडर वर्ष 2007ई ईपीएस रु.8.5 के 22.8x तथा अपने कैलेंडर वर्ष 2008ई ईपीएस रु.9.6 के 20x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.280 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

जयप्रकाश एसोशिएट्स

अग्ली डेविलिंग


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.667

मई 22, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.850 |
| बाजार पूंजी: | रु.14,607 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.753/280 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 9.6 लाख |
| बीएसई कोड: | 532532 |
| एनएसई कोड: | JPASSOCIAT |
| शेअरखान कोड: | JPASSO |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 11.5 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 14.9 | 5.9 | 0.1 | 47.5 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 10.7 | 3.9 | -5.8 | 10.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

सीमेंट खंड से सुधरा समस्त कामकाज

परिणाम के मुख्य अंश

- तिमाही के दौरान जयप्रकाश एसोशिएट्स (जयप्रकाश) की कुल राजस्व वृद्धि वर्ष दर वर्ष 3.6% रही तथा इस मंद गति से बढ़कर कंपनी का राजस्व रु.886 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- सीमेंट कारोबार में राजस्व वर्ष दर वर्ष 45.8% की दर से बढ़कर रु.602 करोड़ हुए जबकि निर्माण कारोबार के राजस्व वर्ष दर वर्ष 34% की दर से बढ़कर रु.330 करोड़ पर दर्ज हुए चूंकि तिमाही के दौरान नई परियोजनाएं तेजी के चरण में थीं और पुरानी परियोजनाएं पूरी हो रही थीं.
- जयप्रकाश का कुल परिचालन मार्जिन (ओपीएम) 1,170-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 29.7% हो गया. इसका पूरा श्रेय ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन (ईबीआइटी) मार्जिन को जाता है जो तिमाही के दौरान, मजबूत वसूलियों एवं सीमेंट वॉल्यूम के बल पर सीमेंट कारोबार 1,660-बेसिस प्वाइंट्स की तेज उछाल के साथ 35% पर पहुंच गया.
- तिमाही के दौरान, कंपनी के ब्याज खर्चें वर्ष दर वर्ष 12% की दर से बढ़कर रु.65 करोड़ तथा अवमूल्यन शुल्क वर्ष दर वर्ष 11% बढ़कर रु.42 करोड़ हुआ. शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 87% की मजबूत दर से बढ़कर रु.130 करोड़ पर पहुंच गया.
- हमने अपने विव2008 अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) आकलन को रु.29.5 पर अपरिवर्तित रखा है तथा रु.33.2 पर अपने विव2009 ईपीएस आकलन प्रस्तुत किया है. वर्तमान बाजार भाव रु.671 पर, स्टॉक अपने विव2009 ईपीएस के 20x पर कारोबार कर रहा है. कंपनी पर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है तथा सम-ऑफ-दी-पार्ट्स (एसओटीपी) कीमत-लक्ष्य रु.850 प्रतिशेयर बरकरार रखा है. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

केएसबी पंप्स

एमर्जिंग स्टार


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.490

मई 14, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.625 |
| बाजार पूंजी: | रु.870 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.680/360 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 2,180 |
| बीएसई कोड: | 500249 |
| एनएसई कोड: | KSBPUMPS |
| शेअरखान कोड: | KSBPUMPS |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 0.58 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|------|-------|
| निरपेक्ष | -2.9 | -15.5 | -0.1 | -21.1 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -7.2 | -11.2 | -4.2 | -30.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.625

परिणाम के मुख्य अंश

- कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में मार्जिन के संदर्भ में, केएसबी पंप्स के नतीजे हमारी उम्मीदों से कम आये. तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री 13.5% की दर से बढ़कर रु.109.6 करोड़ हुई.
- पंप कारोबार का राजस्व 7.1% बढ़कर रु.78.9 करोड़ पर दर्ज हुआ जबकि वॉल्व कारोबार 35.6% की दर से बढ़कर रु.30.1 करोड़ पर पहुंच गया. बहरहाल, पंप कारोबार का मार्जिन पिछले साल के 19.8% से गिरकर 11.4% पर आ गया, चूंकि पिछले साल की बिक्री में उच्च मार्जिन वाले न्यूक्लियर पंपों की आपूर्ति शामिल थी.
- स्थिर ब्याज एवं अवमूल्यन लागतों के बल पर, कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 4.6% की दर से गिरकर रु.12.5 करोड़ पर दर्ज हुआ. इसका प्रबंधन तेज़ी की आशा रखता है चूंकि इसका ऑर्डर बुक 40% की दर से बढ़ रहा है. उम्मीद है कि कंपनी के मार्जिन भी पिछले साल के स्तरों पर बरकरार रहने की उम्मीद है या बेहतर उत्पाद समूह के बल पर उसमें थोड़ी सुधार भी हो सकती है.
- केएसबी पंप्स, बाज़ार में जिसकी हिस्सेदारी 12-14% है, वह उपयोक्ता (यूज़र) उद्योग में विशाल निवेश से मुनाफा हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, तथा इसके बल पर आने वाले समय में वृद्धि-संवेग बने रहने की उम्मीद की जाती है. बहरहाल, कच्चे माल की उच्च लागत तथा पहली तिमाही में अपेक्षा से कम मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, हम अपने कैलेंडर वर्ष 2007 अर्जन आकलन को 6.8% घटाकर रु.34.8 तथा कैलेंडर वर्ष 2008 अर्जन आकलन को 9.1% कम करके रु.41.8 कर रहे हैं.
- वर्तमान बाज़ार भाव रु.490 पर, स्टॉक 12x कैलेंडर वर्ष 2008ई कीमत/आय अनुपात (पीईआर) तथा 6.5x इंटरप्राइज मूल्य (ईवी)/ब्याज, अवमूल्यन, कर एवं परिशोधन पूर्व अर्जन (ईबीआइडीटीए) पर उद्धृत करता है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.625 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

ल्यूपिन

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.707

मई 11, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.840 |
| बाजार पूंजी: | रु.5,680 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.755/406 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 4.0 लाख |
| बीएसई कोड: | 500257 |
| एनएसई कोड: | LUPIN |
| शेअरखान कोड: | LUPLTD |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 3.8 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 14.2 | 17.4 | 41.5 | 17.9 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 9.3 | 23.6 | 35.9 | 6.2 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.840

परिणाम के मुख्य अंश


- विव2007 की चौथी तिमाही में ल्यूपिन की शुद्ध बिक्री वर्ष दर वर्ष 22.8% की दर से बढ़कर रु.518.1 करोड़ हुई. तिमाही में ल्यूपिन का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) वर्ष दर वर्ष 460-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 14.5% पर दर्ज हुआ. उम्मीद से कम ओपीएम का मुख्य कारण कच्चे माल की लागत में प्रत्याशित उछाल तथा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर उच्च खर्च था.
- कंपनी का शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 173.1% की बढ़त के साथ रु.137.1 करोड़ पर दर्ज हुआ. बहरहाल, इसमें पेरिन्डोप्रिल एकाधिकार की बिक्री से संबंधित एक समय की आय भी शामिल थी. हमारे आकलनों के मुताबिक, यदि पेरिन्डोप्रिल एकाधिकार की बिक्री से प्राप्त कर-पश्चात् प्रतिफल को हिसाब में नहीं जोड़ा जाये तो शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष केवल 22% की दर से बढ़कर रु.61.3 करोड़ होता है; तब भी यह हमारे आकलन रु.57.5 करोड़ से ज़्यादा है.
- विव2007 में ल्यूपिन का मुनाफा (एक समय के मुनाफे को छोड़कर) बिल्कुल हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही रहा. यही कारण है कि हम अपने विव2008 आंकड़ों में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं. विव2009 के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि राजस्व 18% की दर से बढ़कर रु.3,054.4 करोड़ तथा मुनाफा 25% बढ़कर रु.410.5 करोड़ हो जायेगा.
- प्रबंधन ने विव2008 एवं विव2009 के लिए क्रमशः रु.3,000 करोड़ (50% वृद्धि) एवं रु.4,200 करोड़ (40% वृद्धि) का आकर्षक राजस्व-वृद्धि निर्देश दिया है. बहरहाल, हमारे आर्गेनिक वृद्धि आकलनों के मुताबिक, वर्तमान भाव रु.707 पर, स्टॉक अपने विव2008ई एवं विव2009ई अर्जनों के क्रमशः 19x एवं 15.2x पर उपलब्ध है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.840 (विव2009ई अर्जन का 18x) के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा

एप्पल ग्रीन
खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: ₹.765
मई 29, 2007
कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | ₹.1,050 |
| बाजार पूंजी: | ₹.18,186 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | ₹.1,002/488 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 8.0 लाख |
| बीएसई कोड: | 500520 |
| एनएसई कोड: | M&M |
| शेअरखान कोड: | M&M |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 19.8 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप

कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | -3.0 | -7.3 | -8.9 | 28.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -6.3 | -16.9 | -14.3 | -5.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

निवेश की स्थिति में

परिणाम के मुख्य अंश


- विव2007 की चौथी तिमाही में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (एमएंडएम) की एकल बिक्री वर्ष दर वर्ष 20% की दर से बढ़कर ₹.2,747 करोड़ पर पहुंच गई. अपवादस्वरूप मर्दों के पूर्व कर पश्चात् लाभ (पीएटी) ₹.247.1 करोड़ पर दर्ज हुआ. पिछले साल महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) के शेयरों की बिक्री से ₹.166 करोड़ की एक असाधारण आय वसूल हुई जिसके चलते इस साल सूचित पीएटी विव2006 की चौथी तिमाही में दर्ज ₹.255 करोड़ से 21% गिरकर ₹.233 करोड़ पर आ गया.
- विव2007 में एकल बिक्री 22% की दर से बढ़कर ₹.10,050 करोड़ पर जा पहुंची. ऑटोमोटिव कारोबार में घरेलू वॉल्यूम 17.8% की दर से बढ़ा जबकि निर्यात कारोबार में 45% की उछाल आई. ट्रैक्टर खंड में 22% की जबरदस्त उछाल देखी गई.
- संघटित आधार पर, विव2007 कंपनी की शुद्ध बिक्री 43% की दर से बढ़कर ₹.17,617 करोड़ हुई. वर्ष में, अपवादस्वरूप मर्दों के पूर्व संघटित पीबीटी वर्ष दर वर्ष 50.7% की दर से बढ़कर ₹.2,320 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- कंपनी ने इस वर्ष ₹.2,000 करोड़ पूंजी खर्च (कैपेक्स) की योजना बनाई है, जिसका इस्तेमाल क्षमता-विस्तार, नये उत्पादों के लांच तथा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों पर किया जायेगा. पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड (पीटीएल) एवं स्वराज इंजन की खरीदारी तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए भी फंडों की आवश्यकता है. इन सभी परियोजनाओं का वित्तपोषण कर्ज एवं इक्विटी को मिलाकर किया जायेगा.
- इन दिनों गैर-ऑटोमोटिव व्यवसाय का भी योगदान बढ़ा है. विव2007 में, इस व्यवसाय ने कंपनी की बिक्री में 39% तथा पीएटी में 51% का योगदान दिया है.
- वर्तमान बाजार भाव ₹.764 पर, स्टॉक अपने विव2009 संघटित अर्जनों के 8.7x पर कारोबार कर रहा है. एसओटीपी कीमत-लक्ष्य ₹.1,050 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

नवनीत पब्लिकेशंस (इंडिया)

एमर्जिंग स्टार
खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: ₹.55
मई 09, 2007
कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| कीमत लक्ष्य: | ₹.67 |
| बाजार पूंजी: | ₹.524 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | ₹.70/50.5 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 53,251 |
| बीएसई कोड: | 508989 |
| एनएसई कोड: | NAVNETPUBL |
| शेअरखान कोड: | NAVNEET |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 3.6 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप

कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 6.7 | -4.9 | -2.4 | -14.8 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -0.4 | 0.9 | -7.7 | -24.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

नतीजे उम्मीद के मुताबिक

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही के दौरान, नवनीत पब्लिकेशंस के राजस्व 5% की दर से बढ़कर ₹.46.8 करोड़ पर दर्ज हुए. चौथी तिमाही जिसमें पब्लिकेशन कारोबार अक्सर सुस्त पड़ जाता है, इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 3% बढ़कर ₹.16.9 करोड़ हो गया. बहरहाल, स्टेशनरी कारोबार में 7% की दर से वृद्धि (चौथी तिमाही में ₹.28.3 करोड़) जारी है. इस वृद्धि के पीछे सबसे बड़ा योगदान उच्च घरेलू बिक्री का रहा.
- विव2007 की चौथी तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) पिछले साल की चौथी तिमाही में दर्ज 8% से 200-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 10% हुआ. फलस्वरूप, परिचालन लाभ 27% बढ़कर ₹.4.71 करोड़ हो गया.
- निम्न अन्य आय एवं उच्च दरों के कारण कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 13% की दर से गिरकर ₹.1.33 करोड़ पर आ गया. नवनीत इंड्यूट्रिमेंट के साथ विलयन के चलते विव2006 में कंपनी करों के बोझ से बची रही.
- वार्षिक आधार पर, कंपनी के राजस्व एवं आय क्रमशः 11% बढ़कर ₹.326.7 करोड़ एवं 23% बढ़कर ₹.43.5 करोड़ पर दर्ज हुए. पब्लिकेशन व्यवसाय में बेहतर लाभकारिता के बल पर कंपनी का ओपीएम 200-बेसिस प्वाइंट्स सुधर कर 22% हुआ. कंपनी ने 3.6% की लाभांश वृद्धि के साथ ₹.2 प्रतिशेयर के हिसाब से लाभांश की घोषणा की है.
- कंपनी ने गुजरात में एक विंडमिल-आधारित बिजली उत्पादन प्लांट की स्थापना पर ₹.25 करोड़ निवेश की घोषणा की है. जुलाई 2007 के अंत तक यह बिजली परियोजना क्रियाशील हो जायेगी. इससे कंपनी को आयकर बचाने में मदद मिलेगी तथा राजस्व का एक अतिरिक्त श्रोत भी उत्पन्न हो जायेगा.
- वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2007 एवं विव2008 आकलित अर्जनों के क्रमशः 12x एवं 10x पर कारोबार कर रहा है. एक-वर्षीय कीमत-लक्ष्य ₹.67 (विव2008ई अर्जन का 12x) के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

निकोलस पिरामल इंडिया

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.243

मई 03, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.393 |
| बाजार पूंजी: | रु.5,350 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.287/150 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.4 लाख |
| बीएसई कोड: | 500302 |
| एनएसई कोड: | NICHOLASPIR |
| शेअरखान कोड: | NICHPI |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 10.4 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 3.1 | 0.1 | 10.4 | 9.2 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -2.8 | 2.5 | 2.0 | -8.6 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे

परिणाम के मुख्य अंश

- घरेलू बिक्री में 13% का इज़ाफा और वैश्विक राजस्व में 14% की विशाल बढ़त के बल पर, विव2007 की चौथी तिमाही में निकोलस पिरामल की संघटित बिक्री 52% की दर से बढ़कर रु.645.2 करोड़ पर पहुंच गई। अवेसिया फार्मास्यूटिकल्स से अधिग्रहित कारोबारों के समेकन तथा यूके स्थित फाइज़र की पूर्ववर्ती फैक्ट्री, मोरपेठ ने वैश्विक राजस्व को आगे बढ़ाया है।
- विव2007 की चौथी तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 480-बेसिस प्वाइंट्स के विस्तार के साथ 13.2% पर आ गया, लेकिन रु.20 करोड़ के बराबर एक खर्च के कारण यह 15.6% की हमारी अपेक्षा से काफी नीचे रहा। यदि इस खर्च को अलग रखा जाये तो कंपनी का ओपीएम 790-बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 16.3% होता है।
- विव2007 की चौथी तिमाही में कंपनी का संघटित शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 260% की आकर्षक दर से बढ़कर रु.54.9 करोड़ पर दर्ज हुआ, जो रु.50.5 करोड़ की हमारी अपेक्षा से ज़्यादा है।
- विव2007 में, कंपनी की संघटित बिक्री 55.0% बढ़कर रु.2,470 करोड़ हो गई, जबकि इसका परिचालन लाभ 83.0% बढ़कर रु.380 करोड़ हो गया। वर्ष में शुद्ध मुनाफा 80.7% ऊपर उठकर रु.220 करोड़ हो गया।
- विव08 के लिए, कंपनी ने अपने ठेका-निर्माण (कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग) व्यवसाय में 100% की वृद्धि तथा अपने कुल राजस्व में 25% की बढ़त का निर्देश दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि वह अपने मार्जिन को 15.5% पर बरकरार रखेगी।
- हमारे आकलन के मुताबिक, विव2008 एवं विव2009 के लिए कंपनी की शुद्ध आय क्रमशः रु.297.0 करोड़ (30.1% की वृद्धि) तथा रु.355.3 करोड़ (20% की वृद्धि) है। वर्तमान बाजार भाव रु.256 पर, निकोलस पिरामल अपने विव2009 आकलित अर्जन के 15.1x पर कारोबार कर रहा है। कीमत-लक्ष्य रु.393 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं। ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

एनआइआइटी टेक्नोलॉजीज

अग्ली डिविंग


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.519

मई 23, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.720 |
| बाजार पूंजी: | रु.2,007 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.564/131 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.4 लाख |
| बीएसई कोड: | 532541 |
| एनएसई कोड: | NIITTECH |
| शेअरखान कोड: | NIITTECH |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 2.3 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 8.6 | 2.8 | 93.8 | 177.0 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 4.4 | -0.5 | 83.0 | 97.6 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.720

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही के दौरान एनआइआइटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एनटीएल) के संघटित राजस्व तिमाही दर तिमाही 5.2% एवं वर्ष दर वर्ष 46.5% की दर से बढ़कर रु.243.5 करोड़ पर दर्ज हुए।
- रुपये में हुई मूल्य-वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, कंपनी के मार्जिस 70-बेसिस प्वाइंट्स सुधर कर 21.9% हुए। हितकारी राजस्व मिश्रण, ऊपरी व्यय में बचत, बीपीओ कारोबार एवं रूम सॉल्यूशंस के विकसित कामकाज के संचयी प्रभाव से मार्जिन में विस्तार हुआ।
- अन्य आय में उछाल (विदेशी सहायक कंपनी में कर वापसी से रु.5.6 करोड़ की प्राप्ति), निम्न अवमूल्यन शुल्क तथा प्रभावी कर दर में 2% की तेज़ गिरावट से कंपनी की आय काफी मजबूती हुई है। फलस्वरूप, संघटित आय तिमाही दर तिमाही 32.7% तथा वर्ष दर वर्ष 138.9% की विस्फोटक दर से बढ़कर रु.45.9 करोड़ हो चुकी है। यह लगातार तीसरी तिमाही है जब कंपनी ने अपनी आयों में 20% की अनुवर्ती वृद्धि दर्ज की है।
- चौथी तिमाही में मिले यूएसडी 72 मिलियन के बड़े ऑर्डरों तथा यूएसडी 103 मिलियन के पिछले ऑर्डरों (अब तक का सबसे उच्चतम स्तर) के बल पर कंपनी वृद्धि-संवेग बरकरार रहने की उम्मीद करती है।
- नतीजों की घोषणा के साथ ही कंपनी ने अपने शेयरधारकों को दो शेयरों पर एक इक्विटी शेयर बतौर बोनस तथा विद्यमान पूंजी पर 65% लाभांश दिया। स्टॉक अपने विव2008 एवं विव2009 आकलित अर्जनों के क्रमशः 12.2x एवं 10.1x पर कारोबार कर रहा है। संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.720 (विव2009 अर्जन का 14x) के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं। ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

ऑर्किड केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स

एमर्जिंग स्टार


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.259

मई 09, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.390 |
| बाजार पूंजी: | रु.1,705 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.347/142 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.6 लाख |
| बीएसई कोड: | 524372 |
| एनएसई कोड: | ORCHIDCHEM |
| शेअरखान कोड: | ORCHID |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 5.1 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|-------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | -3.8 | -4.6 | 20.3 | -22.6 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -10.2 | 1.2 | 13.8 | -31.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

नतीजे उम्मीदों के मुताबिक

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में ऑर्किड केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स (ऑर्किड) की शुद्ध बिक्री 3.4% की वृद्धि के साथ रु.248.0 करोड़ हो गई. बिक्री में यह वृद्धि हमारी उम्मीद से ज्यादा थी. कंपनी ने अमरीका में अपने कामकाज को बेहतर बनाया रखा है. बाजार में इसके दो मुख्य उत्पाद-सेफिड्राआकज़ोन एवं सेफप्रोज़िल-की हिस्सेदारी 20-25% बनी हुई है. इसके इलावा, अमरीका में सेफोक्सिटिन एवं सेफाज़ोलिन के थोक जेनरिक आपूर्तिकर्ता के रूप में, ऑर्किड ने इन उत्पादों की उच्च हिस्सेदारी बरकरार रखा है.
- कंपनी के विकसित उत्पाद एवं भौगोलिक स्थिति के कारण कच्चे माल की लागत में 14.5% की गिरावट आई जिसके बल पर तिमाही में ऑर्किड का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 190-बेसिस प्वाइंट्स की सुधार के साथ 30.7% हो गया. मार्जिन में सुधार की वजह से कंपनी का परिचालन लाभ 10.2% की दर से बढ़कर रु.76.1 करोड़ हो गया.
- कंपनी ने अपने कुल कर्ज यूएसडी 290 मिलियन में यूएसडी 138 मिलियन की रकम चुका दिया है. मोटे तौर पर किये गये परिकलन से पता चलता है कि कर्ज की अदायगी हो जाने की वजह से विव2008 में ऑर्किड को रु.56 करोड़ की बचत होगी.
- वर्तमान बाजार भाव रु.259 पर, ऑर्किड अपने विव2008 आकलित अर्जन के 10.1x पर कारोबार कर रहा है. अमरीका में होने वाले बड़े लांचों से विव2008 एवं विव2009 में कंपनी की जबरदस्त वृद्धि संभाव्यता तथा कनाडा एवं यूरोप में प्रवेश के मद्देनज़र, स्टॉक का मूल्यांकन काफी आकर्षक है. कीमत-लक्ष्य रु.390 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

सारेगामा इंडिया

अगली डकिलिंग


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.295

मई 29, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.375 |
| बाजार पूंजी: | रु.433 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.303/122 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 22,583 |
| बीएसई कोड: | 532163 |
| एनएसई कोड: | SAREGAMA |
| शेअरखान कोड: | GRAMCO |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 0.72 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 27.4 | 33.3 | 30.8 | 23.5 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 23.0 | 19.5 | 23.1 | -8.6 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

साज़ बज उठे

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में, सारेगामा इंडिया लिमिटेड (एसआइएल) के राजस्व रु.29.3 करोड़ पर वर्ष दर वर्ष स्थिर रहे. अपेक्षाओं के अनुरूप, कंपनी की भौतिक बिक्री वर्ष दर वर्ष 23.8% की दर से गिरकर रु.19.1 करोड़ पर दर्ज हुई जबकि गैर-भौतिक बिक्री वर्ष दर वर्ष 117.4% की मज़बूत दर से बढ़कर रु.9.5 करोड़ हो गई.
- तिमाही में गैर-भौतिक बिक्री का योगदान विव2006 की चौथी तिमाही के 14.9% से बढ़कर 33.3% हो गया और विव2006 के 14.9% से बढ़कर विव2007 में 30.2% हो गया. यह कंपनी के लिए एक बड़ी सकारात्मक अवस्थिति है क्योंकि कंपनी के राजस्व मिश्रण का झुकाव उच्च मार्जिन वाले कारोबार की ओर बढ़ रहा है.
- कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) विव2006 की चौथी तिमाही में दर्ज 1.7% से सुधर कर विव2007 की चौथी तिमाही में 10.1% पर आ गया तथा विव2006 की चौथी तिमाही में हुई रु.0.4 करोड़ हानि के विपरीत विव2007 की चौथी तिमाही में कंपनी ने रु.1.6 करोड़ अपवादस्वरूप मद पूर्व शुद्ध मुनाफा दर्ज किया.
- एसआइएल के लिए कई विकास प्रवर्तक (ट्रिगर) मौजूद हैं. इन ट्रिगरों में शामिल हैं-कई रेडिया स्टेशनों के खुलने की उम्मीद; संगीत संबंधी विषयों का बढ़ना, टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या में तेज़ वृद्धि तथा इन टेलीकॉम उपभोक्ताओं का रिंग टोन्स, कॉलर ट्यून्स आदि की ओर ज़्यादा झुकाव होना, विव2008 की पहली तिमाही में संगीत ट्रैकों वाले कंपनी के पोर्टल की शुरूआत होने की उम्मीद तथा ग्लोबल होलसेल क्लब का सूचीकरण.
- वर्तमान बाजार भाव रु.295 पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) रु.16 के 18.4x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.375 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी

अगली डिविलिंग


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.84

मई 03, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.101 |
| बाजार पूंजी: | रु.121 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.114/50 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 49,350 |
| बीएसई कोड: | 530075 |
| एनएसई कोड: | SELAN |
| शेअरखान कोड: | SELAEXP |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 0.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 14.5 | 9.1 | 7.7 | -9.1 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 7.9 | 10.4 | 0.2 | -22.4 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.101

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी (सेलन) की शुद्ध बिक्री 93.2% की दर से बढ़कर रु.8.5 करोड़ हो गई. पिछली तिमाही के दौरान वॉल्यूम में हुई उछाल के कारण शुद्ध बिक्री उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी. यूएसडी 55 प्रति बैरल की औसत वसूली वर्ष भर में वसूल हुए यूएसडी 58 प्रति बैरल के औसत से कम रही.
- परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) पिछले वर्ष की चौथी तिमाही के 43.7% से बढ़कर 61.6% हो गया. फलस्वरूप, परिचालन लाभ 171.9% की दर से बढ़कर रु.5.2 करोड़ पर पहुंच गया.
- समायोजित शुद्ध लाभ विव2006 की चौथी तिमाही में दर्ज रु.1.4 करोड़ से 134.7% बढ़कर रु.3.4 करोड़ पर दर्ज हुआ (रु.1.9 करोड़ की एक बार की अन्य आय समायोजित).
- वार्षिक आधार पर, शुद्ध बिक्री 39.8% बढ़कर रु.26.2 करोड़ हुई जिसका मुख्य कारण वॉल्यूम में 39% की बढ़त है. विव2007 के दौरान कंपनी ने तेल के एक लाख बैरलों की बिक्री की सीमा को पार कर लिया. कंपनी के मार्जिस काफी हद तक स्थिर रहे तथा समायोजित शुद्ध लाभ 60% की दर से बढ़कर रु.10.6 करोड़ हुआ.
- अपने तेल-क्षेत्रों के विकास के पहले चरण के सकारात्मक परिणाम से प्रोत्साहित होकर, कंपनी वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान छ: से आठ नये तेल-कुंओं की खुदाई के बारे में सोच रही है. नये कुंओं के वाणिज्यीकरण से वृद्धिशील वॉल्यूम (चौथी तिमाही के दौरान बकरील में दो कुएं) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास के दूसरे चरण से वॉल्यूम में अपेक्षित वृद्धि के बल पर इस साल कंपनी के संपूर्ण उत्पादन वॉल्यूम में 40-50% बढ़त की उम्मीद की जाती है.
- वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक विव08 एवं विव09 आकलित अर्जनों के क्रमशः 7.5x एवं 5.8x पर कारोबार कर रहा है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.101 (विव2009 आकलित अर्जन का 7x तथा इंटरप्राइज मूल्य [ईवी]/ तेल भंडार [प्रमाणित एवं संभावित] का 1.2x) के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

श्री सीमेंट

कैननबॉल


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.1,091

मई 16, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | परीवेक्षणधीन |
| बाजार पूंजी: | रु.3,797 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.1,592/650 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 24,534 |
| बीएसई कोड: | 500387 |
| एनएसई कोड: | SHREECEM |
| शेअरखान कोड: | SHREECEM |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 1.3 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 15.6 | -20.9 | -21.8 | 7.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 11.0 | -18.7 | -24.7 | -10.4 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

विव2007 की चौथी तिमाही के नतीजे

परिणाम के मुख्य अंश

- वॉल्यूम में वर्ष दर वर्ष 36% तथा वसूलियों में 24% की बढ़त के बल पर विव2007 की चौथी तिमाही में श्री सीमेंट के राजस्व वर्ष दर वर्ष 68% की दर से बढ़कर रु.378 करोड़ हुए.
- बिजली ईंधन लागत में वर्ष दर वर्ष 51% की बढ़त (कोयले की बढ़ती कीमत के चलते) तथा ढुलाई लागत में वर्ष दर वर्ष 35% की उछाल के कारण कंपनी के खर्चें (अवमूल्यन शुल्क समायोजित) वर्ष दर वर्ष 67% की दर से बढ़कर रु.226.9 करोड़ हुए.
- परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) वर्ष दर वर्ष 69% बढ़कर रु.151 करोड़ हुआ जबकि परिचालन लाभ मार्जिन 40% पर रहे (रु.20 करोड़ के पूर्व-प्रवर्ती खर्चें समायोजित)
- ब्याज लागत वर्ष दर वर्ष आधार पर स्थिर रहे लेकिन अनुवर्ती आधार पर उनमें गिरावट देखी गई. तिमाही में कंपनी ने रु.154 करोड़ के बराबर एक अवमूल्यन शुल्क जुटाया, जिसमें मार्च 2007 के दौरान आरंभ की गई इकाई-4 के लिए रु.114 करोड़ तथा पूर्व-प्रवर्ती खर्च के परिशोधन के तौर पर रु.20 करोड़ की रकम शामिल है.
- तिमाही में कर-उपबंध हेतु रु.0.3 करोड़ की सीमांत रकम दर्ज की गई. अवमूल्यन हेतु उच्च व्यवस्था के चलते, कंपनी ने रु.23.8 करोड़ का निम्न शुद्ध मुनाफा दर्ज किया.
- विव2007 में कंपनी की शुद्ध बिक्री वर्ष दर वर्ष 104% बढ़कर रु.1,367 करोड़ हुई जबकि शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 862% की विशाल दर से बढ़कर रु.177 करोड़ हुआ. इकाई-2 से संबंधित रु.199 करोड़ की अवमूल्यन व्यवस्था को समायोजित करते हुए, शुद्ध मुनाफा रु.376 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- प्रबंधन से बात-चीत के पश्चात् हम कंपनी के लिए अपने संशोधित अर्जन आकलन एवं कीमत-लक्ष्य को प्रस्तुत करेंगे. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें



स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

एप्पल ग्रीन

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.1,227


मई 15, 2007

मुख्य परिचालन कामकाज हुआ मज़बूत

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.1,325 |
| बाजार पूंजी: | रु.64,577 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.1,379/684 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 12.6 लाख |
| बीएसई कोड: | 500112 |
| एनएसई कोड: | SBIN |
| शेअरखान कोड: | SBI |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 17.0 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 20.7 | 9.5 | 7.0 | 28.0 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 15.6 | 9.5 | 2.4 | 10.8 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के नतीजे हमारी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर रहे. बैंक का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) हमारे आकलन रु.1,260 करोड़ के मुकाबले 75% की दर से बढ़कर रु.1,493 करोड़ पर दर्ज हुआ. पीएटी में अपेक्षा से अधिक वृद्धि का मुख्य कारण बॉण्ड पोर्टफोलियो हेतु रु.950 करोड़ की व्यवस्था रकम का वापस होना था.
- सूचित शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 21.5% की दर से बढ़कर रु.4,320 करोड़ हुई, जबकि एक समय वाले मदों में समायोजित एनआईआई वर्ष दर वर्ष 23.9% ऊपर रही. हमारी गणना के मुताबिक, बेहतर प्रतिफल तथा संतुलित लागतों के बल पर बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) अनुवर्ती आधार पर 17-बेसिस प्वाइंट्स तथा वार्षिक आधार पर 29-बेसिस प्वाइंट्स की सुधार के साथ 3.24% हुआ.
- सूचित गैर-ब्याज आय वर्ष दर वर्ष 22.6% बढ़कर रु.2,894.3 करोड़ हुई. बहरहाल, अतिरिक्त उपबंध के कारण रु.950 करोड़ की वापस हुई.
- तिमाही में बैंक ने मिले-जुले नतीजों की घोषणा की. एक ओर जहां एनआईआई एवं शुल्क आय में वृद्धि के बल पर मुख्य परिचालन कामकाज में सुधार देखी गई, वहीं उच्च उपबंधों ने संपूर्ण लाभ-वृद्धि को परिमित किया. लेकिन रु.950 करोड़ की उपबंध वापसी से मुनाफे उम्मीद से ज्यादा रहे. विव2007 में एसबीआई द्वारा पाई गई उच्च लाभांश आय में समायोजन तथा थोड़ा उच्च एनपीए उपबंधों को ध्यान में रखकर, हमने अपने विव2008ई पीएटी आकलन को 2.6% घटाकर रु.5,377.9 करोड़ किया है.
- वर्तमान बाजार भाव रु.1,226 पर, स्टॉक अपने विव2008ई एकल अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) के 13x, विव2008ई एकल बुक मूल्य के 1.7x तथा विव2008ई संघटित बुक मूल्य के 1.3x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.1,325 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज

अग्ली डकिलिंग

खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.1,064


मई 21, 2007

चौथी तिमाही का विश्लेषण एवं अधिग्रहण की विशेषतायें

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.1,297 |
| बाजार पूंजी: | रु.20,578 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.1,196/640 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 2.3 लाख |
| बीएसई कोड: | 524715 |
| एनएसई कोड: | SUNPHARMA |
| शेअरखान कोड: | SUNPHARM |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 6.1 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|-------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | -12.0 | -1.0 | 4.8 | 19.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -15.9 | -0.9 | -2.0 | -6.5 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज (सन फार्मा) की संघटित शुद्ध बिक्री वर्ष दर वर्ष 33.8% की दर से बढ़कर रु.544.2 करोड़ पर पहुंच गई. घरेलू कारोबार में 43.4% तथा निर्यात कारोबार में 22.4% की वृद्धि की बदैलत शुद्ध बिक्री में इस प्रकार की मजबूत वृद्धि हुई. विव2007 की चौथी तिमाही में, कैराको की बिक्री वर्ष दर वर्ष 32% की दर से बढ़कर यूएसडी 32.7 मिलियन तथा विव2007 में 41% की दर से बढ़कर यूएसडी 17 मिलियन हो गई.
- सन फार्मा का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 610-बेसिस प्वाइंट्स की विस्तार के साथ 28.3% पर पहुंच गया, फलस्वरूप परिचालन लाभ 70% बढ़कर रु.154.5 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- तिमाही में सन फार्मा की अन्य आय 24.2% की दर से बढ़कर रु.94.2 करोड़ हुई, जो हमारे आकलन रु.42.7 करोड़ से काफी अधिक है.
- घरेलू संरूपण एवं निर्यात, दोनों कारोबारों में जबरदस्त राजस्व-वृद्धि के साथ ओपीएम में 610-बेसिस प्वाइंट्स का विस्तार एवं अपेक्षा से अधिक अन्य आय की बदैलत, विव2007 की चौथी तिमाही में सन फार्मा का शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 48.4% की दर से बढ़कर रु.212.1 करोड़ पर दर्ज हो गया जो हमारे आकलन रु.184.4 करोड़ से आगे है.
- कंपनी ने विव2008 के लिए 15-18% परिमित संघटित राजस्व-वृद्धि का निर्देश दिया है (जो हमारे 30% वृद्धि आकलन से कम है) जबकि वर्ष के दौरान कैराको ने 30% वृद्धि का निर्देश दिया है. विव2008 में सन फार्मा अपने ओपीएम को बरकरार रखना चाहती है. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

टाटा मोटर्स

एप्पल ग्रीन


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.708

मई 23, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.980 |
| बाजार पूंजी: | रु.27,362 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.975/651 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 14.3 लाख |
| बीएसई कोड: | 500570 |
| एनएसई कोड: | TATAMOTORS |
| शेअरखान कोड: | TELCO |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 21.4 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 0.5 | -13.5 | -12.7 | -3.0 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | -3.3 | -16.3 | -17.6 | -30.8 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.980

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में टाटा मोटर्स के नतीजे, खासकर लाभकारिता के संदर्भ में हमारी उम्मीदों से थोड़े खराब दिखे. 16.2% वॉल्यूम-वृद्धि तथा वसूली में 3.3% की बढ़त के बल पर तिमाही में कंपनी की शुद्ध बिक्री (फॉरेक्स लाभ को छोड़कर) 20.0% की दर से बढ़कर रु.8,206.8 करोड़ हो गई.
- कच्चे माल की उच्च लागत तथा उत्पाद समूह में परिवर्तन के चलते वसूली में अनुवर्ती गिरावट से लाभकारिता में कमी आई. पिछले साल दर्ज रु.4.4 करोड़ के मुकाबले अन्य आय इस तिमाही में रु.60.4 करोड़ पर मजबूत दिखी. कंपनी का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 25.9% बढ़कर रु.576.7 करोड़ हुआ.
- पिछले साल में दर्ज रु.20,672 करोड़ के विपरीत इस पूरे वर्ष में, कंपनी का शुद्ध राजस्व 33% की वृद्धि के साथ रु.27,404.8 करोड़ हो गया जबकि शुद्ध मुनाफा 25% की दर से बढ़कर रु.1,913.5 करोड़ पर दर्ज हुआ.
- साल भर में कंपनी की संघटित बिक्री 36.4% बढ़कर रु.32,426.4 करोड़ हो गई जबकि संघटित शुद्ध मुनाफा 25.4% बढ़कर रु.2,170 करोड़ हो गया.
- वाणिज्यिक वाहन खंड पर हमारा रुख सावधानी का है तथा उम्मीद करते हैं कि लिक्विडिटी में कसाव एवं उच्च ब्याज दरों के चलते विव2008 की पहली तिमाही में गिरावट जारी रहेगी. हम अपेक्षा करते हैं कि ब्याज दरों में नरमी तथा फंडों की उपलब्धता से वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही तक स्थिति में सुधार होगी.
- हम अपने विव2008 अर्जन आकलनों को 6.2% कम करके रु.53.4 कर रहे हैं तथा विव2009 आकलनों को प्रस्तुत कर रहे हैं. हम विव2009 में एकल अर्जन के लिए रु.60.8 तथा संघटित अर्जन के लिए रु.70.3 की अपेक्षा करते हैं. वर्तमान स्तरों पर, स्टॉक अपने विव2009 एकल ईपीएस के 11.7x तथा संघटित ईपीएस के 10.1x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.980 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

थर्मैक्स

एमर्जिंग स्टार


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.488

मई 30, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.585 |
| बाजार पूंजी: | रु.5,815 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.499/206 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 1.0 लाख |
| बीएसई कोड: | 500411 |
| एनएसई कोड: | THERMAX |
| शेअरखान कोड: | THERMAX |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 4.5 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 12.9 | 24.4 | 26.0 | 63.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 8.2 | 10.7 | 17.7 | 20.4 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.585

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में थर्मैक्स के राजस्व वर्ष दर वर्ष 65% की विशाल दर से बढ़कर रु.856.5 करोड़ हो गया, जो हमारी अपेक्षाओं से अधिक है. ऊर्जा (एनर्जी) खंड का राजस्व वर्ष दर वर्ष 74% बढ़कर रु.685.5 करोड़ तथा परिवेश (इंवायर्मेंट) खंड का राजस्व वर्ष दर वर्ष 53.7% बढ़कर रु.205 करोड़ हुआ.
- कच्चे माल की उच्च कीमतों तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के कारण तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) वर्ष दर वर्ष 70-बेसिस प्वाइंट्स गिरकर 12.4% हो गया.
- कंपनी के पिछले ऑर्डर्स वर्ष दर वर्ष 79% की दर से बढ़कर रु.3,100 करोड़ (विव2007 संघटित राजस्व के 1.3x) के बराबर हो गये. तिमाही के दौरान ऑर्डरों का अंतर्वाह 38% बढ़कर रु.894 करोड़ हो गया जो राजस्व की मजबूत दृश्यता को प्रकट करता है.
- पिछले कुछ तिमाहियों से जारी वृद्धि, हानि उठाने वाली सहायक कंपनी, एमई इंजीनियरिंग की बंदी तथा विव2008 के लिए शुद्ध बिक्री में 40% का संशोधित वृद्धि निर्देश के मद्देनजर, हम अपने विव2008 अर्जन आकलन में 2.4% की बढ़ोतरी कर रहे हैं. कंपनी के पास मौजूद रु.50 प्रतिशेयर नकद एवं नकद समकक्ष हमारे एक-वर्षीय संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.585 को सुरक्षा प्रदान करता है. संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.585 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

अल्ट्राटेक सीमेंट

अगली डकिलिंग


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.816

मई 09, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.935 |
| बाजार पूंजी: | रु.10,118 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.1,204/248 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 37,569 |
| बीएसई कोड: | 532538 |
| एनएसई कोड: | ULTRACEMCO |
| शेअरखान कोड: | ULTRACEM |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 5.8 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|--------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 17.7 | -26.2 | -7.7 | 3.2 |
| संसेक्स के सापेक्ष | 9.9 | -21.7 | -12.8 | -8.1 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.935

परिणाम के मुख्य अंश

- वसूली में वर्ष दर वर्ष 28% की जबरदस्त वृद्धि तथा वॉल्यूम में वर्ष दर वर्ष 12% की वृद्धि के बल पर अल्ट्राटेक सीमेंट की शुद्ध बिक्री वर्ष दर वर्ष 43% की दर से बढ़कर रु.1,465 करोड़ पर दर्ज हुई.
- सीमेंट की कीमतों से कंपनी के उच्च मुनाफे की बढौलत परिचालन लाभ वर्ष दर वर्ष 113% की दर से बढ़कर रु.409 करोड़ हो गया जबकि ब्याज, कर, अवमूल्यन एवं परिशोधन पूर्व अर्जन (ईवीआइडीटीए) प्रतिटन लगभग दोगुना होकर रु.811 हो गया.
- स्थिर ब्याज लागत, अवमूल्यन व्यवस्था एवं कर-दर की मदद से कंपनी का शुद्ध मुनाफा वर्ष दर वर्ष 184% की जबरदस्त दर से बढ़कर रु.231 करोड़ हो गया.
- 4 मिलियन मेट्रिक टन वाली परियोजना अपने निर्धारित समय पर चल रही है तथा विव2008 के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद की जाती है. इससे कंपनी की क्षमता बढ़कर 21.5 मिलियन मेट्रिक टन हो जायेगी.
- कंपनी गुजरात स्थित 92-मेगावाट क्षमता वाले एक लिम्नाइट-आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट (सीपीपी) तथा हिंदी, छत्तीसगढ़ में 46-मेगावाट क्षमता वाले एक कोयला-आधारित सीपीपी प्लांट की स्थापना कर रही है. इन सीपीपी परियोजनाओं के पूरा होने पर कंपनी की बिजली लागत रु.5.28 प्रति इकाई से घटकर विव2009 तक रु.2 प्रति इकाई होने की उम्मीद है, जिससे रु.120-130 करोड़ की बचत होगी.
- हम उम्मीद करते हैं कि विव2007-09 के दौरान कंपनी की आय 11% बढ़कर रु.77.2 प्रतिशेयर हो जायेगी. वर्तमान बाजार भाव रु.816 पर, स्टॉक अपने विव2008 एवं विव2009 आकलित अर्जन के क्रमशः 11.3x एवं 10.6x पर कारोबार कर रहा है. स्टॉक का इंटरप्राइज मूल्य (ईवी) प्रतिटन यूएसडी 112 है. स्टॉक के सकारात्मक ट्रिगर्स पर नजर रखते हुए, हम लघुकृत संशोधित कीमत-लक्ष्य रु.935 के साथ स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अगली डकिलिंग


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: रु.120

मई 17, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| कीमत लक्ष्य: | रु.141 |
| बाजार पूंजी: | रु.6,061 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | रु.142/81 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 7.9 लाख |
| बीएसई कोड: | 532477 |
| एनएसई कोड: | UNIONBANK |
| शेअरखान कोड: | UBI |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 22.5 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|--------------------|------|------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 17.0 | 12.1 | -9.9 | 6.9 |
| संसेक्स के सापेक्ष | 13.4 | 13.6 | -14.2 | -11.6 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

मुख्य परिचालन कामकाज में आई तेज़ी

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने उम्मीद से नीचे परिणाम घोषित किये. बैंक का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) वर्ष दर वर्ष 57.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.254.7 करोड़ के हमारे आकलन के मुकाबले रु.228.1 करोड़ हो गया. इसका मुख्य कारण तिमाही के दौरान बैंक द्वारा किये गये अपेक्षा से अधिक उपबंध थे.
- समायोजित शुद्ध ब्याज आय (एनआइआइ) वर्ष दर वर्ष 29.4% तथा तिमाही दर तिमाही 9.4% की दर से बढ़कर रु.750.4 करोड़ हुआ. विव2007 की चौथी तिमाही के दौरान, बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआइएम) अनुवर्ती आधार पर 38-बेसिस प्वाइंट्स की सुधार के साथ 3.37% हो गया. लागतों में संतुलित बढत के साथ प्रतिफल में सुधार से बैंक को वार्षिक एवं तिमाही, दोनों आधार पर अपने मार्जिनों को बढ़ाने में मदद मिली.
- परिचालन लाभ वर्ष दर वर्ष 49.4% तथा तिमाही दर तिमाही 30.7% की दर से बढ़े, जबकि मुख्य परिचालन लाभ (अर्थात् कोषागार एवं दूसरे मुनाफों को छोड़कर) में वर्ष दर वर्ष 56.4% एवं तिमाही दर तिमाही 31.4% की वृद्धि हुई. मुख्य आय में एक अच्छी बढत तथा परिचालन खर्चों पर पकड़ की बढौलत यह वृद्धि हुई.
- प्रबंधन ने लाभकारी कारोबारों पर फिर से ध्यान दिया है तथा संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार आने वाले समय में बैंक के कामकाज के लिए एक बेहतर कदम है, जिसकी झलक हमें इसके विकसित एनआइएम एवं निम्न एनपीए स्तरों में मिल जाती है. इस समय बैंक अपने प्रतियोगियों की तुलना में आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध है. वर्तमान बाजार भाव रु.120 पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जन के 5.6x तथा अपने विव2008ई बुक मूल्य के 1x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य रु.141 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

यूनिवर्सल केबल्स

अगली डिविडेंड


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: ₹.95

मई 24, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| कीमत लक्ष्य: | ₹.179 |
| बाजार पूंजी: | ₹.220 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | ₹.135/61 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 14,414 |
| बीएसई कोड: | 504212 |
| एनएसई कोड: | UNIVCABLES |
| शेअरखान कोड: | UNCABLES |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 1.1 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|-------|-------|-------|
| निरपेक्ष | 7.3 | -8.6 | -10.3 | -9.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 4.0 | -13.5 | -14.9 | -32.7 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से ज़्यादा बेहतर

परिणाम के मुख्य अंश

- विव2007 की चौथी तिमाही में यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड (यूसीएल) के नतीजे हमारी उम्मीदों से ज़्यादा बेहतर आये. यूसीएल की शुद्ध बिक्री 51% की दर से बढ़कर ₹.129 करोड़ हुई; तथा शुद्ध मुनाफा 77% की दर से बढ़कर ₹.6.2 करोड़ हो गया हालांकि हमने ₹.5 करोड़ की अपेक्षा की थी.
- तिमाही में अन्य खर्च/बिक्री अनुपात पिछले वर्ष के 14.43% से घटकर 10.78% पर आ गई, जिससे कंपनी की परिचालन-संबंधी कुशलताओं में सुधार हुआ और परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 137-बेसिस प्वाइंट्स के विस्तार के साथ 10.84% पर आ गया.
- अपने पिछले अर्धवर्ष में हमने ओपीएम में सुधार की अपेक्षा की थी चूंकि कंपनी अपने उच्च मार्जिन वाले हाइ-इंड उत्पादों पर अधिक फोकस कर रही है तथा कंपनी की सहायक कंपनी, ऑप्टिक फाइबर गोवा लिमिटेड (ओएफजीएल) लाभदायक बन चुकी है. वार्षिक आधार पर, इस ऑप्टिक फाइबर व्यवसाय ने पिछले वर्ष के मुकाबले 100% की बढ़त के साथ ₹.15 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया है. इसके पीबीआईटी ने पिछले साल हुई ₹.1.6 करोड़ की हानि के विपरीत इस साल ₹.1.4 करोड़ का लाभ दर्ज किया है.
- कंपनी ने इस साल ₹.2.40 प्रतिशेयर (अर्थात 24%) के हिसाब से अपने शेयरधारकों को लाभांश देने का निश्चय किया है, इस प्रकार स्टॉक एक बेहतर लाभांश वृद्धि को भी पेश करता है.
- वर्तमान बाजार भाव ₹.95 पर, स्टॉक अपने विव2008ई अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) तथा विव2008ई इंटरप्राइज मूल्य (ईवी)/ब्याज, अवमूल्यन, कर तथा परिशोधन पूर्व अर्जन (ईबीआईटीए) के 5x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य ₹.179 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

वॉकहार्ट

अगली डिविडेंड


खरीदें; वर्तमान बाजार भाव: ₹.431

मई 03, 2007

कंपनी विवरण

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| कीमत लक्ष्य: | ₹.552 |
| बाजार पूंजी: | ₹.4,715 करोड़ |
| 52 सप्ताह में उच्चतम/निम्नतम: | ₹.480/316 |
| एनएसई वॉल्यूम (शेयरों की संख्या): | 45,781 |
| बीएसई कोड: | 532300 |
| एनएसई कोड: | WOCKPHARMA |
| शेअरखान कोड: | WOCKLTD |
| फ्री फ्लोट (शेयरों की संख्या): | 2.9 करोड़ |

शेयरधारिता स्वरूप



कीमत कार्य निष्पादन

| (%) | 1माह | 3माह | 6माह | 12माह |
|---------------------|------|------|------|-------|
| निरपेक्ष | 7.8 | 24.0 | 11.7 | -0.3 |
| सेंसेक्स के सापेक्ष | 1.6 | 25.6 | 3.9 | -14.9 |

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

नतीजे उम्मीदों के मुताबिक

परिणाम के मुख्य अंश

- घरेलू कारोबार में 35% तथा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में 57% की बढ़त के बल पर कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में वॉकहार्ट की शुद्ध बिक्री 48.7% की दर से बढ़कर ₹.522.8 करोड़ हो गई. बिक्री में यह वृद्धि हमारी उम्मीदों से ज़्यादा रही.
- मुख्य रूप से पाइनवुड अधिग्रहण के संघटन के बल पर, यूरोपीय बाजारों में कंपनी की बिक्री 93% बढ़ गई. अमरीकी बाजार में बिक्री में 15% की तेज़ी देखी गई. कैलेंडर वर्ष 2007 की पहली तिमाही में वॉकहार्ट का परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) 260-बेसिस प्वाइंट्स की विस्तार के साथ 22.2% पर पहुंच गया.
- उच्च ब्याज लागत, अवमूल्यन शुल्क तथा कर अदायगी के बावजूद, तिमाही में वॉकहार्ट का अपवादस्वरूप-पूर्व शुद्ध मुनाफा 17% बढ़कर ₹.66.3 करोड़ हो गया. कंपनी का मुनाफा हमारे अनुमानों के मुताबिक रहा.
- यूएसडी 265 मिलियन की लागत (सभी नकद में) पर वॉकहार्ट ने फ्रांस-स्थित नेगमा लैबोरेट्रीज (नेगमा) का अधिग्रहण किया है. नेगमा यूएसडी 150 मिलियन की बिक्री एवं 18% ईबीआईटीए मार्जिन वाली कंपनी है. 2009 तक अपना टर्नओवर 1 बिलियन करने की दिशा में कंपनी ने यह अधिग्रहण किया है. हमें विश्वास है कि नेगमा का अधिग्रहण वॉकहार्ट के मूल्य को बढ़ायेगा.
- वर्तमान बाजार भाव ₹.431 पर, स्टॉक अपने कैलेंडर वर्ष 2007ई एवं 2008ई अर्जनों के क्रमशः 14.2x एवं 12.4x पर कारोबार कर रहा है. कीमत-लक्ष्य ₹.552 के साथ हम स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं. ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

शीर्ष इक्विटी फण्ड पर शेअरखान की राय

इंडिया इंक की चौथी तिमाही के कामकाज के बल पर, अप्रैल 2007 में बीएसई सेंसेक्स ने 6.1% की छलांग लगाई. इसी अवधि में निफ्टी ने भी 7% की वृद्धि दर्ज की. अप्रैल माह में, बाजार को चालित करने वाले विदेशी निवेशकों ने ₹.6,680 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू म्यूचुअल फंडों ने ₹.1,032 करोड़ के बराबर लिवाली दर्ज किया.

जनवरी-मार्च तिमाही भारतीय कंपनियों के लिए कठिन साबित हुई. इस अवधि के दौरान, मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा निर्धारित 5.0-5.5% के शांत दायरे से निकल अधिकांशतः 6.1% के स्तरों पर बनी रही. धनापूर्ति, जो विदेशी फंडों के तेज अंतर्वाह एवं बढ़ते हुए जमा आधार के बल पर 21% की मजबूत दर से आगे बढ़ती जा रही है, उसमें कसाव के कारण रुपया भी काफी मजबूत हुआ है. विदेशी विनिमय बाजार पर रोक-टोक के प्रति आरबीआइ की विमुखता से भी रुपये को मुनाफा हुआ है. इस साल स्थानीय मुद्रा अब तक डॉलर के मुकाबले लगभग 7.5% बढ़ चुका है. रुपये में जारी दृढ़ता से आईटी, फार्मा एवं टेक्सटाइल कंपनियों के अर्जन आकलनों में गिरावट का डर बना हुआ है.

तथापि इंडिया इंक ने उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि इसने चौथी तिमाही के नतीजे अपेक्षाओं के अनुरूप ही दर्ज किया है. सेंसेक्स कंपनियों (अब तक लगभग 19 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं) ने 36.8% की अपेक्षाओं के मुकाबले शुद्ध मुनाफे में 36.3% की वृद्धि दर्ज की है. फिर भी पिछली तिमाहियों के विपरीत, उम्मीद से ज्यादा बेहतर नतीजे घोषित करने में ये कंपनियां नाकाम रहीं.

इस दुःखद माहौल में एक अच्छी खबर यह है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने हेतु जो सख्त उपाय किये गये हैं, उम्मीद है कि आने वाले माह में उनसे कुछ राहत मिले और तब केन्द्रीय बैंक भी नरम एवं विकास-संबंधित नीति अपनाये. और आपने इसकी झलक नवीनतम क्रेडिट नीति में देख भी ली है. हालांकि केन्द्रीय बैंक का ज्यादा जोर मुद्रास्फीति से निपटने पर ही बना हुआ है, फिर भी इस नीति वक्तव्य में "विकास" शब्द फिर से नजर आया है. आरबीआइ अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की बड़ी गिरावट की अपेक्षा नहीं करती है और यही बात विव2008 के लिए बैंक द्वारा तय 8.5% की बेहतर विकास-दर से जाहिर हो जाती है.

इसके अतिरिक्त, एक सर्वसम्मत विचार के मुताबिक आने वाले समय में मुद्रास्फीति आरबीआइ द्वारा निर्धारित 5% के शांत स्तर से नीचे आ जायेगी. दिसंबर माह से 6% के स्तर पर जमे रहने के बाद, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) कुछ खाद्य उत्पादों एवं निर्मित सामग्रियों की निम्न कीमतों की मदद से नीचे गिरकर 5.77% (21 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में) के स्तर पर आ गया. हमें भी उम्मीद है कि मुद्रास्फीति अपने सामान्य स्तर पर आ जायेगी.

कई अन्य संकेत भी दीर्घकालिक विकास की कहानी कह रहे हैं. उदाहरणार्थ, पूंजी माल उत्पादन सूचकांक, जो देश में आर्थिक एवं निवेश गतिविधियों का एक विश्वसनीय बैरोमीटर है, ने फरवरी 2006 में दर्ज 10.7% की वृद्धि के मुकाबले इस साल फरवरी में 18.2% की बढ़त दर्ज की है.

बहरहाल, कुछ ऐसे बेकाबू कारक मौजूद हैं जो दर्द को बढ़ा सकते हैं. उदाहरणार्थ, इस साल मानसून सामान्य से कम होकर रंग में भंग कर सकता है. अभी तक, दीर्घकालिक औसत से 5% कम मानसून होने की अपेक्षा की गई है. आइएमडी का द्वितीय पूर्वानुमान जून में आने वाला है, जो मानसून की स्पष्ट तस्वीर दिखाने में सक्षम होगा.

वैश्विक कारकों के संदर्भ में, गैसोलिन की कीमतों में उछाल (कच्चे तेल में फिर से उबाल आ रहा है और यह यूएसडी 64 के स्तर पर आ चुका है) तथा रहन में गड़बड़ी के कारण, अप्रैल 2007 के दौरान अमरीका में कंज्यूमर कन्फिडेंस सूचकांक (सीसीआइ) गिरकर अपने आठ वर्षीय निम्न स्तर पर पहुंच गया. मुख्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति (ऊर्जा एवं खाद्य समग्रियों को छोड़कर) में माह दर माह 0.1% की बढ़त देखी गई, जो पिछले तीन महिनों में सबसे निम्न दर है. मुद्रास्फीति के निम्न आंकड़ों से यह पता चलता है कि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष, बेन एस. बर्नके 9 मई, 2007 को होने वाली अपनी बैठक में ब्याज दरों में कोई तबदीली नहीं कर सकते हैं ताकि आर्थिक विकास एक सामान्य दर से आगे बढ़ती रहे. इस प्रकार, अमरीकी बाजारों में सुधार गतिविधियां सामान्य बनी हुई हैं और हम निकट समय में अपने बाजारों पर इन वैश्विक गतिविधियों से कोई बड़ा खतरा नहीं महसूस करते हैं.

सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि अल्पावधि में भारतीय कंपनियों के रास्ते कुछ कठिन हो सकते हैं और जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता भी आ सकती है. लेकिन दीर्घकालिक विकास की कहानी में कोई भी फेर-बदल नहीं है. साथ ही, मुद्रास्फीति जैसे ही अपने सामान्य स्तरों की ओर बढ़ेगी, ब्याज दरें भी नरम पड़ने लगेंगी. तब रुपये का स्तर भी नीचे की ओर खिसकेगा चूंकि उस समय केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में दिलचस्पी लेने के लिए तैयार रहेगा. व्यापार एवं निवेश वातावरण को सुखद बनाने और विकास को बढ़ाने वाले ये सभी सकारात्मक पहलू हैं.

हमने बाजार में उपलब्ध इक्विटी ओरिएण्टेड योजनाओं का चयन किया है जो तीन मानकों पर आधारित हैं: वापसी द्वारा निर्देशित विगत कार्य निष्पादन, शार्प अनुपात तथा एफएएमए (वास्तविक चयन).

विगत कार्य निष्पादन योजनाओं से उत्पन्न वापसी से मापा जाता है. शार्प जोखिम-समायोजित वापसी को निर्देशित करता है जो लिए गए जोखिम के प्रत्येक इकाई के लिए अतिरिक्त जोखिम-मुक्त दर में अर्जित वापसी को देते हुए है. शार्प अनुपात एक मानक आंकड़ा है तथा यह निधियों के कार्य निष्पादन की तुलना करने में मदद करता है. यदि अनुपात उच्चतर होगा तो योजना का महत्वपूर्ण जोखिम-समायोजित वापसी भी बेहतर होगा.

चयन द्वारा सृजित वापसी को एफएएमए द्वारा मापा जाता है, अर्थात फण्ड मैनेजर द्वारा सही स्टॉक चयन करने की योग्यता से वापसी सृजित होती है. शुद्ध चयन के उच्चतर मूल्य को हमेशा पसंद किया जाता है क्योंकि यह फण्ड मैनेजर के बेहतर स्टॉक्स चुनने की योग्यता को दर्शाता है.

उपरोक्त तीनों मानकों पर आधारित हमने शार्प 10 शीर्ष स्कीमों का चयन किया है तथा फिर उन दस शीर्ष स्कीमों के लिए तीनों मानकों का औसत निकाला है. उसके बाद, हरके स्कीम के मंद कार्य-निष्पादन एवं बेहतर कार्य-निष्पादन की प्रतिशत की गणना की है (कार्य-निष्पादन के सापेक्ष).

अंत में, फण्ड्स को चयन करने में हमने वापसी द्वारा निर्देशित विगत कार्य निष्पादन को 50% भारित, शार्प अनुपात को 25% भारित तथा शेष 25% भारित एफएएमए को दिया है.

नीचे दिए गए सभी वापसी जो एक वर्ष से कम के लिए हैं, वे विशुद्ध हैं तथा जो एक वर्ष से अधिक हैं, वे वार्षिक हैं.

नीचे हमने इक्विटी ओरिएण्टेड म्यूचुअल फण्ड श्रेणी की सिफारिश किया है. ■

ऑग्रेसिव फण्ड्स

| योजना का नाम | एनएवी | 30 अप्रैल, 2007 को वापसी (%) | | |
|--|----------|------------------------------|-------|-------|
| | | 3माह | 1वर्ष | 2वर्ष |
| सुन्दरम बीएनपी परिबास सलेक्ट मिड-कैप | 90.65 | -5.07 | 8.14 | 53.16 |
| रिलायंस ग्रोथ | 275.50 | -0.70 | 9.46 | 49.48 |
| आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल एमर्जिंग स्टार फण्ड | 28.93 | -3.89 | 8.26 | 54.03 |
| एसबीआई मैग्नम मिड-कैप | 22.27 | -6.55 | 7.08 | 48.63 |
| बिरला मिड-कैप | 65.27 | -2.73 | 9.22 | 41.80 |
| सूचकांक बीएसई सेंसेक्स | 13872.37 | -2.39 | 15.15 | 50.05 |

| योजना का नाम | एनएवी | 30 अप्रैल, 2007 को वापसी (%) | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|-------|-------|
| | | 3माह | 1वर्ष | 2वर्ष |
| प्रूडेंसियल आईसीआईसीआई डायनेमिक प्लान | 67.14 | -2.02 | 16.36 | 60.69 |
| डीएसपी एमएल अपॉरच्युनिटीज | 56.01 | -1.79 | 11.53 | 49.36 |
| आईएनजी वैश्य डोमेस्टिक अपॉरच्युनिटीज | 27.47 | -1.89 | 10.17 | 45.85 |
| एचएसबीसी इंडिया अपॉरच्युनिटीज | 28.53 | -3.94 | 11.91 | 51.59 |
| फ्रैंक्लिन इंडिया अपॉरच्युनिटीज | 25.70 | -6.26 | 10.30 | 53.19 |
| एबीएन एमरो अपॉरच्युनिटीज | 21.37 | -0.95 | 11.31 | 50.47 |
| बिरला इंडिया अपॉरच्युनिटीज | 52.56 | -3.29 | 11.83 | 40.42 |
| सूचकांक बीएसई सेंसेक्स | 13872.37 | -2.39 | 15.15 | 50.05 |

| योजना का नाम | एनएवी | 30 अप्रैल, 2007 को वापसी (%) | | |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|-------|-------|
| | | 3माह | 1वर्ष | 2वर्ष |
| बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी | 52.52 | 0.81 | 27.18 | 50.05 |
| एचडीएफसी इक्विटी | 151.16 | -0.52 | 15.64 | 51.99 |
| डीएसपी एमएल टॉप 100 इक्विटी | 59.69 | 1.47 | 18.10 | 53.56 |
| फ्रैंक्लिन इंडिया प्राइम प्लस | 142.36 | -1.46 | 20.05 | 52.11 |
| एसबीआई मैग्नम मल्टिप्लायर प्लस 93 | 54.14 | -2.52 | 12.09 | 58.92 |
| आईसीआईसीआई प्रूडेंसियल पॉवर | 83.50 | -0.42 | 12.69 | 53.69 |
| बिरला सनलाइफ इक्विटी | 186.23 | -1.18 | 17.33 | 50.85 |
| एचडीएफसी टॉप 200 | 111.81 | -1.25 | 13.39 | 49.56 |
| सूचकांक बीएसई सेंसेक्स | 13872.37 | -2.39 | 15.15 | 50.05 |

थिमेटिक/एमर्जिंग ट्रेण्ड फण्ड्स

| योजना का नाम | एनएवी | 30 अप्रैल, 2007 को वापसी (%) | | |
|---|----------|------------------------------|-------|-------|
| | | 3माह | 1वर्ष | 2वर्ष |
| डीएसपी एमएल इंडिया टाइगर | 34.12 | -1.00 | 17.12 | 57.67 |
| एसबीआई मैग्नम सेक्टर अम्बेला - कॉन्ट्रा | 38.86 | -1.25 | 10.53 | 57.23 |
| टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर | 23.79 | -2.83 | 9.37 | 48.74 |
| टाटा इक्विटी पी/ई | 26.75 | 0.71 | 11.32 | 41.05 |
| टेम्पलेटन इंडिया ग्रोथ | 68.50 | -2.10 | 10.49 | 40.47 |
| कोटक ग्लोबल इंडिया | 27.38 | 0.19 | 7.74 | 42.10 |
| सूचकांक बीएसई सेंसेक्स | 13872.37 | -2.39 | 15.15 | 50.05 |

संतुलित फण्ड्स

| योजना का नाम | एनएवी | 30 अप्रैल, 2007 को वापसी (%) | | |
|--|---------|------------------------------|---------|---------|
| | | 3माह | 1वर्ष | 2वर्ष |
| एचडीएफसी प्रूडेंस | 115.438 | -1.4361 | 20.1334 | 37.7957 |
| एफटी इंडिया बैलेंस | 33.6153 | -0.2214 | 13.3342 | 34.5975 |
| फ्रैंक्लिन इंडिया बैलेंस | 36.3033 | -0.2108 | 13.3346 | 34.6059 |
| बिरला सनलाइफ 95 | 182.27 | 1.5545 | 13.5485 | 33.8471 |
| बिरला बैलेंस | 28.15 | -0.3892 | 12.0369 | 28.2231 |
| डीएसपी बैलेंस | 39.263 | -0.3047 | 11.2248 | 34.8617 |
| सूचकांक क्रिसिल बैलेंस फंड इंडेक्स | 2491.49 | -0.2658 | 11.2008 | 28.591 |

कर योजना फण्ड्स

| योजना का नाम | एनएवी | 30 अप्रैल, 2007 को वापसी (%) | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------|-------|-------|
| | | 3माह | 1वर्ष | 2वर्ष |
| फ्रैंक्लिन इंडिया इंडेक्स टैक्स | 31.93 | -0.71 | 16.82 | 46.64 |
| प्रिसिपल टैक्स सेविंग्स | 78.23 | -3.02 | 3.69 | 43.81 |
| प्रिसिपल पर्सनल टैक्ससेवर | 132.33 | -2.54 | 10.93 | 11.83 |
| सूचकांक बीएसई सेंसेक्स | 13872.37 | -2.39 | 15.15 | 50.05 |

प्रत्येक व्यक्ति की निवेश की अलग-अलग जरूरतें होती हैं, जो उसकी वित्तीय स्थिति तथा वह कितना जोखिम उठाने को तैयार है, इस पर निर्भर करता है. हम पहले यह समझते हैं कि व्यक्ति कहां निवेश करना चाहता है तथा उसमें जोखिम उठाने की कितनी क्षमता है. उसके बाद हम उपयुक्त पोर्टफोलियो की सिफारिश करते हैं. इसलिए हम आपको यह सुझाव देते हैं कि हमारे द्वारा सिफारिश किए गए फण्ड्स में निवेश करने से पूर्व आप हमारे निवेश सलाहकार से संपर्क करें.

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.



तेज़ रफ्तार दौड़ में आई बाधा

वाणिज्यिक वाहन (सीवी) खंड में काल्पनिक तेज़ी देखी जा चुकी है। जबरदस्त आर्थिक-वृद्धि, सरल वित्त व्यवस्था, निम्न ब्याज दरों तथा उच्च किराया दरों ने इस खंड के कार्य-निष्पादन में काफी योगदान दिया। लेकिन अब इस दौड़ की रफ्तार थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। यद्यपि बड़े कारक अभी भी मज़बूत नज़र आ रहे हों, लेकिन हमारा अनुमान है कि अगले 6 से 12 महीनों में वृद्धि थोड़ी ढीली पड़ेगी।

हम अपेक्षा करते हैं कि निम्नलिखित कारणों से वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि में गिरावट देखने को मिलेगी:

1. ऑटो उधार की दुर्लभता, चूंकि कई बैंकों ने इस सेक्टर की ओर अपना ध्यान कम किया है।
2. ब्याज दरों में उछाल, जिसकी वजह से प्रत्याशित ग्राहकों को खरीदारी आगे के लिए टालना पड़ रहा है।
3. पिछले साल का उच्च आधार, चूंकि पिछले साल ट्रकों पर अत्याधिक लदान पर पाबंदी लगाने के चलते मांग काफी बढ़ी थी और जिसका जबरदस्त प्रभाव एक समय के लिए बिक्री पर पड़ा था।

बहरहाल, हम बाद के 6-12 महीनों में स्थिति में फिर से सुधार की अपेक्षा करते हैं क्योंकि तब ब्याज दरों में भी नरमी आयेगी। उस समय उधार की उपलब्धता में भी सुधार की उम्मीद की जाती है चूंकि बैंक एक बार फिर इस खंड पर ध्यान देना आरंभ करेंगे। इस प्रकार हमें विश्वास

है कि यह गिरावट एक प्रकार का अपसरण है तथा देश की आर्थिक स्थिति में जबरदस्त तेज़ी के मद्देनज़र, हम उम्मीद करते हैं कि दीर्घकालिक आधार पर सीवी खंड में तेज़ रफ्तार वृद्धि बरकरार रहेगी। हम अपेक्षा करते हैं कि यह वृद्धि विव2008 में 9.7% तथा विव2009 में 10% की दर से होगी।

वर्तमान वर्ष के आयों पर प्रभाव

इस वित्तीय वर्ष में सीवी खंड की तेज़ी में कमी टाटा मोटर्स एवं अशोक लेलैंड जैसे बड़ी सीवी कंपनियों के अर्जन आकलन को प्रभावित करेगी। इस समय हम उम्मीद करते हैं कि विव2008 में टाटा मोटर्स अपने सीवी खंड की बिक्री में 12.9% की बढ़त तथा अशोक लेलैंड 11.9% की वृद्धि दर्ज करेगा। आगे किसी भी प्रकार की गिरावट इन दोनों कंपनियों के आयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है तथा हमारा आकलन है कि वृद्धि में 100-बेसिस प्वाइंट्स की गिरावट से टाटा मोटर्स का आय आकलन 1.2% तथा अशोक लेलैंड का आय आकलन 2.1% प्रभावित हो सकता है।

बहरहाल, इन दोनों कंपनियों की दीर्घकालीन मौलिक स्थिति अभी बेहतर बनी हुई है और इस लिए हम इस सेक्टर तथा इन दोनों कंपनियों के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर सकारात्मक नज़र रखते हैं। कीमत-लक्ष्य रु.980 के साथ टाटा मोटर्स तथा रु.44 के साथ अशोक लेलैंड के स्टॉक को खरीदने की सिफारिश पर कायम हैं। ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है।



सीआरआर में एक और बढ़त की संभावना बरकरार

संवेग में जारी वृद्धि, विदेशी फंडों का मज़बूत अंतर्वाह द्वारा चालित लिक्विडिटी तथा वैश्विक कमोडिटी कीमतों में उछाल को लेकन बनी हुई चिंतायें, ये सभी चीज़ें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) को प्रेरित कर सकती हैं कि वह बैंकिंग सिस्टम से एक बार फिर अतिरिक्त तरलता (लिक्विडिटी) को सोखने के उपाय करे। चूंकि सिस्टम में फंडों के ढेर फिर से भर चुके हैं और सरकार की व्यय गतिविधियां भी जारी हैं, इस लिए यह उम्मीद की जा रही है कि आरबीआइ एक पूर्वक्रमिक कार्रवाही करने के लिए विवश हो सकता है। इन बदलती हुई परिस्थितियों के बीच, मुद्रास्फीति में नियंत्रण (5.44% से गिरकर 5.27%) तथा गैर-खाद्य क्रेडिट-वृद्धि में गिरावट (पिछले साल दर्ज 30.5% वृद्धि के मुकाबले 27.1%) जैसे संतोषजनक पहलू मौजूद हैं। बहरहाल, 20.2% पर मौजूद धनापूर्ति वृद्धि (विव2008 के आरबीआइ का लक्ष्य 17%) ही इकलौता कारक है जो आरबीआइ को इस मामले में दखल देने तथा धनापूर्ति पर काबू रखने के लिए सिस्टम से लिक्विडिटी कम करने पर मजबूर कर सकता है।

लिक्विडिटी में इतनी तेज़ बढ़त की खास वजह ?

लिक्विडिटी स्थिति में सुधार के पीछे सरकारी खर्च, बांड शोधन तथा विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बाजार में आरबीआइ का नवीनतम हस्तक्षेप मुख्य कारण बन चुके हैं।

दृष्टिकोण

बाजार के कई भागीदारों को विश्वास है कि हमलोग ब्याज कसाव चक्र के उच्च स्तर के निकट पहुंच रहे हैं और यहां से हम सीआरआर में 50-बेसिस प्वाइंट्स की एक अन्य बढ़त या नीति दरों में 25-बेसिस प्वाइंट्स की एक अन्य वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। बहरहाल, नीति दरों के मुकाबले बाज़ार दरें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी हैं और इसीलिए सीआरआर में वृद्धि का प्रभाव जो हमने दिसंबर 2006 एवं मार्च 2007 के अंत में देखा था, इस बार ज़्यादा भयानक नहीं होगा। इस समय भी बाज़ार में आरबीआइ द्वारा कुछ कदम उठाये जाने की अपेक्षा की जाती है, इसलिए ऐसी कार्यवाही के संभावित प्रभाव को बाज़ार ने कुछ हद तक पहले ही झेल चुका है। ब्याज दरों से सबसे ज़्यादा असर अंदाज़ होने वाले सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, तथा रियल इस्टेट पर नीति मापदंडों के कारण कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन संपूर्ण बाज़ार में किसी प्रकार की गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे हैं और इस स्थिति को हम पहले भी देख चुके हैं जब आरबीआइ ने कुछ अप्रत्याशित कदम उठाये थे। ■

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है।

हर तरफ कीमतों में इज़ाफा

वनस्पति तेलों की बढ़ती कीमतों के कारण फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों को सामूहिक रूप से अपने उत्पादों की कीमतों में इज़ाफा करना पड़ा. आपूर्ति में कसाव एवं वैश्विक मांग में उछाल के कारण ताड़ के तेल का मूल्य पिछले एक साल में 20 फीसदी बढ़ चुका है और यह अपने दस-वर्षीय उच्च स्तर पर विराजमान है. परिणामस्वरूप, साबुन निर्माण उद्योग के पास इस बढ़े हुए मूल्य का बोझ उपभोक्ताओं के सर डालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रह गया.

एफएमसीजी खंड की बड़ी कंपनी, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल) ने अपने मुख्य ब्रैंडों की कीमतों में 5-10% का इज़ाफा किया है. इसने अपने डीटर्जेंट ब्रैंडों, *सर्फ एक्सेल ब्लू* एवं *रिन एडवांस* के दाम रु.1 बढ़ाये हैं, जिससे 500 ग्राम एवं 1 किलोग्राम वाले पैकटों के मूल्य रु.41 एवं रु.51 से बढ़कर अब क्रमशः रु.42 एवं रु.52 हो गये हैं. इसके ध्वजपोत ब्रैंड, *लाइफबाय* के मूल्य में 11% की प्रभावी दर से वृद्धि हुई है.

मार्च-अप्रैल के दौरान गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की है. पूर्व में कंपनी ने यह घोषणा की थी कि इसके सभी साबुन ब्रैंडों के मूल्य बढ़ाये जायेंगे. इसी घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए कंपनी ने साबुन खंड के मुख्य उत्पादों की कीमतों में 5-10% का इज़ाफा किया है. कंपनी के ब्रैंड *सिंथॉल* एवं *नं.1 गोदरेज* के मूल्यों में 7-8% की बढ़ोतरी हुई है. *सिंथॉल टाल्क* की कीमत भी 4-6% बढ़ चुकी है.

दूसरी ओर, मैरिको इंडस्ट्रीज ने अपने खाद्य तेल ब्रैंड *सफोला* की कीमत में फिलहाल कोई फेर-बदल नहीं किया है चूंकि इस वर्ष के आरंभ में ही इसने उत्पाद की कीमत 3-4% बढ़ा दी

थी. लेकिन नारियल तेल के मूल्यों पर निर्भर करते हुए, कंपनी अपने हेयर ऑयल ब्रैंडों, *पाराशूट* एवं *शांति अमला* के मूल्य बढ़ा सकती है.

दृष्टिकोण

हमें विश्वास है कि इन कंपनियों ने अपने संपूर्ण उत्पाद समूह में फिर से मूल्य-शक्ति हासिल कर ली है तथा उत्तम मूल्य-शक्ति एवं विकसित उत्पाद समूह से आने वाले समय में राजस्व-वृद्धि की पूरी उम्मीद है. उद्योग की रक्षामात्मक प्रवृत्ति, मुक्त नगदी निर्माण की मज़बूत क्षमता, निवेशित पूंजी पर उच्च लाभ तथा जबरदस्त विकास के दृष्टिकोण के मद्देनजर, यह सेक्टर काफी आकर्षक नजर आ रहा है. इस सेक्टर में लंबे समय के लिए हमारे चयनित स्टॉक्स एचएलएल, आइटीसी, मैरिको एवं टाटा टी हैं. ■

एफएमसीजी समूह

| | कीमत/आय | | ईवी/ईबीआइडीटीए | |
|---------|---------|---------|----------------|---------|
| | विव2007 | विव2008 | विव2007 | विव2008 |
| एचएलएल | 29.0 | 23.6 | 25.4 | 21.8 |
| आइटीसी | 23.2 | 20.8 | 14.5 | 12.8 |
| मैरिको | 29.7 | 22.7 | 17.8 | 16.2 |
| टाटा टी | 15.4 | 14.5 | 9.5 | 9.0 |

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

ओमनिसेफ एकाधिकार-रक्षण से बाहर

घटना

विभिन्न संक्रमित बीमारियों की इलाज में इस्तेमाल होने वाला *ओमनिसेफ* (जेनरिक नाम - सेफडिनिर) नामक एन्टिबायोटिक (प्रतिजैविक) का एकाधिकार अमरीका में 6 मई, 2007 को समाप्त हो गया. कैप्सूल एवं घोल, दोनों रूपों में सेफडिनिर के निर्माण एवं विपणन के लिए ल्यूपिन एवं सैन्डोज (स्वीटजरलैंड की दवा बनाने कंपनी नोवार्टिस की जेनरिक सहायक कंपनी) ने यूएस खाद्य एवं औषधि प्रबंधन (यूएसएफडीए) की ओर से अंतिम मंजूरी प्राप्त कर ली है. दूसरी ओर, दुनिया की अग्रणी जेनरिक कंपनियां, ऑर्किड केमिकल्स (ऑर्किड), रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज (रैनबैक्सी) तथा टेवा यूएसएफडीए से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं.

ओमनिसेफ के बारे में

दिसंबर 2006 में सेफडिनिर के दोनों रूपों, कैप्सूल एवं घोल की कुल बिक्री लगभग यूएसडी 900 मिलियन तक पहुंचने का आकलन है. सेफडिनिर स्पेक्ट्रम सेमिसिन्थेटिक सेफालोस्पोरिन का एक विस्तारित रूप है जिसका इस्तेमाल कान, नासूर (साइनस), गला एवं खाल से संबंधित विभिन्न प्रकार की संक्रमित बीमारियों की रोकथाम या उनके इलाज में किया जाता है.

ओमनिसेफ के लिए छः प्रतियोगी मैदान में खड़े हैं, जिनमें एक अविष्कारक (एबॉट लैबोरेट्रीज), एक प्राधिकृत जेनरिक कंपनी तथा चार अन्य जेनरिक कंपनियां (ऑर्किड, ल्यूपिन, सैन्डोज एवं टेवा) हैं. रैनबैक्सी के पास भी लंबित एएनडीए मौजूद है.

अनुमान एवं मूल्यांकन

दिसंबर 2006 को सेफडिनिर का कारोबार लगभग यूएसडी 900 मिलियन पर आकलित किया गया. हमें उम्मीद है कि इसका 80-85% बाजार नष्ट हो जायेगा. उम्मीदों पर आधारित, हमारा आकलन है कि ऑर्किड एवं ल्यूपिन के राजस्वों में सेफडिनिर क्रमशः यूएसडी 13.5 मिलियन एवं यूएसडी 16.9 मिलियन का योगदान करेगा. ऑर्किड के पूर्ण रूप से विस्तारित इक्विटी आधार पर, विव2008 में कंपनी की आय पर केवल रु.0.4 प्रतिशेयर का प्रभाव पड़ेगा. यह उम्मीद की जाती है कि विव2008 के दौरान सेफडिनिर ल्यूपिन की आय में रु.2.4 प्रतिशेयर का योगदान करेगा. ■

सेफडिनिर से राजस्व एवं आय पर प्रभाव का आकलन

| | ऑर्किड | ल्यूपिन |
|----------------------------------|--------|---------|
| बाजार माप (यूएसडी मिलियन में) | 900 | 900 |
| मूल्य में ह्रास | 85% | 85% |
| बाजार में हिस्सेदारी | 12% | 15% |
| विव2008 में माह | 10 | 10 |
| आकलित राजस्व (यूएसडी मिलियन में) | 13.5 | 16.9 |
| आकलित लाभ (यूएसडी मिलियन में) | 4.1 | 5.1 |
| वृद्धिशील ईपीएस (रुपये में) | 0.4 | 2.4 |

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

ग्लोबल ब्रोडकास्ट न्यूज

व्यूप्वाइंट

वर्तमान बाजार भाव: रु.780

मई 22, 2007

जीबीएन एवं वायाकॉम के बीच एक संयुक्त उद्यम

टीवी-18 समूह ने ग्लोबल मीडिया कंपनी वायाकॉम इंक के साथ एक संयुक्त उद्यम के जरिये भारतीय सामान्य मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की है। वायाकॉम-18 के नाम से इस 50:50 संयुक्त उद्यम को स्थापित करने के लिए टीवी-18 समूह ग्लोबल ब्रोडकास्ट न्यूज के जरिये निवेश करेगी। एक साल के अन्दर इस संयुक्त उद्यम की पहली पेशकश एक सामान्य हिन्दी मनोरंजन चैनल होगी। यह जीबीएन को टीवी-18 समूह की सामान्य ब्रोडकास्ट कंपनी के रूप में सीमांकित करेगा।

सौदे के मुताबिक, वायाकॉम इंक अपनी तीनों संचालित चैनलों, एमटीवी, वीएच1 तथा निकेलोडियोन, को संयुक्त उद्यम में शामिल करेगा जबकि टीवी-18 समूह अपने चलचित्र कारोबार को संयुक्त उद्यम के हाथों सुपुर्द करेगा। वायाकॉम-18 भी संयुक्त उद्यम के जरिये

अपने अन्य चैनलों (जो विदेश में सफलतापूर्वक प्रस्तारित हो रहे हैं) का लांच करेगा।

जीबीएन की बोर्ड ने इक्विटी में संयोजन के जरिये यूएसडी 200 मिलियन तथा कर्ज के जरिये रु.1,500 करोड़ की रकम जुटाने की योजना की मंजूरी पहले ही दे दी है। उच्च प्रतिस्पर्धा वाले इस सामान्य मनोरंजन ब्रोडकास्टिंग कारोबार को चालू करने के लिए दोनों पक्षों को विशेष निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। बहरहाल, बढ़ाई जाने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा जीबीएन द्वारा स्थापित किये जा रहे अन्य नये संयुक्त उद्यमों के संचालन में इस्तेमाल होगी। हम अपेक्षा करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में जीबीएन अपने निवेशों पर मुनाफे वसूल करना आरंभ करेगा, तब तक यह निवेश करने की स्थिति में बना रहेगा। ■

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है।

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

इंफो एज इंडिया

व्यूप्वाइंट

वर्तमान बाजार भाव: रु.807

मई 14, 2007

इंटरनेट कारोबार से पैसे बनाए

इंफो एज इंडिया के स्वामित्व में naukri.com, jeevansathi.com, 99acres.com नामक वेब पोर्टल तथा Quadrangle नामक एक भर्ती सलाहकार कंपनी है जिसका संचालन इंफो एज इंडिया खुद करती है। विव2007 में कंपनी के कुल राजस्व रु.139.6 करोड़ में भर्ती सेवाओं ने 91.6% का योगदान किया। वहीं दूसरी ओर, अन्य दोनों पोर्टलों, जो अपेक्षाकृत नवीन हैं, ने 8% का सहयोग किया।

naukri.com 55% बाजार हिस्सेदारी के साथ इस उद्योग में रोजगार साइटों के बीच अग्रणी स्थान पर मौजूद है। naukri.com मुख्यतः विभिन्न प्रकार की नौकरियों की सूचीकरण, नियोक्ता की ब्रैंडिंग तथा डेटाबेस एक्सेस (अभिगम) से अपना राजस्व उत्पन्न करता है।

jeevansathi.com अपने राजस्व की प्राप्ति उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किये गये शुल्कों से करता है। विव2008 के अंत तक प्रबंधन jeevansathi.com में विघटन की अपेक्षा करता है।

99acres.com रियल इस्टेट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यह विक्रेताओं को अपने परियोजनाओं

के विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार यह रियल इस्टेट के खरीदारों एवं विक्रेताओं के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराता है। इस सुविधा के लिए कोई एक पक्ष पोर्टल को भुगतान करता है। प्रबंधन को उम्मीद है कि विव2009 के अंत तक 99acres.com दो भागों में विभक्त हो जायेगा। विव2005-07 के दौरान इंफो एज के राजस्व में 78% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। पिछले साल के मुकाबले विव2007 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ी है। हमें विश्वास है कि अगले कुछ सालों में कंपनी की शुद्ध विक्री 40-45% की दर से बढ़ेगी।

यद्यपि हमारी नज़र में कंपनी का व्यवसाय प्रारूप उत्तम है, फिर भी कंपनी का उच्च मूल्यांकन एक विचारणीय मुद्दा है। वर्तमान बाजार भाव रु.807 पर, स्टॉक अपने विव2007 अर्जन प्रतिशेयर (ईपीएस) रु.9.9 के 81.4x तथा विव2008 सर्वसम्मत आकलित ईपीएस के 48.5x पर कारोबार कर रहा है। ■

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है।

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें



पेज इंडस्ट्रीज

व्यूपाइंट

वर्तमान बाजार भाव: रु.440

मई 15, 2007

खुदरा क्षेत्र में आई क्रान्ति पर सवार

पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीआइएल) ने जाँकी ब्रैंड नाम के तहत आंतरिक कपड़ों (नर एवं नारी दोनों के लिए) का निर्माण एवं बिक्री हेतु 1995 में अपना कारोबार स्थापित किया. कंपनी के पास 1,100 शहरों में 14,000 दुकानों का एक व्यापक वितरण नेटवर्क है जिसके बल पर कंपनी इस खंड में एक अग्रणी कंपनी के रूप में उभरी है. संपूर्ण बाजार में इसकी 9% हिस्सेदारी है तथा प्रीमियम ब्रैंड खंड में यह 23% बाजार हिस्सेदारी का योगदान देता है.

फरवरी 2007 में, कंपनी ने लगभग रु.1,000 करोड़ की पब्लिक इश्यू जारी किये जिसमें प्रोत्साहकों द्वारा रु.55 करोड़ की बिक्री के लिए पेशकश शामिल है. बाकी रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी निर्माण क्षमता को 33 मिलियन से बढ़ाकर 74 मिलियन इकाई करने, ब्रैंड को मज़बूत बनाने तथा खुदरा बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में रही है.

वृद्धि-संवेग बनाये रखने के प्रयास

विव2007 में, पीआइएल के राजस्व एवं आय क्रमशः 34% एवं 49% की दर से बढ़े. कंपनी को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में वह अपने राजस्वों में 30-35% की वृद्धि-दर कायम रखने में कायमाब रहेगी. कंपनी के विकास के लिए प्रबंधन ने कुछ गतिविधियों का खाका तैयार किया है, जो निम्नलिखित हैं.

- पीआइएल अपने संपूर्ण राजस्वों का 70% भाग पुरुषों के आंतरिक वस्त्रों से पूरा करता है. कंपनी औरतों के आंतरिक वस्त्रों, लीज़र वीयर एवं हाल ही में बाजार में उतारे गए स्लीप वीयर पर अधिक फोकस की अपेक्षा करती है.

- कंपनी अपनी वितरण नेटवर्क को मज़बूत करने तथा विशेष प्रकार के ब्रैंड स्टोर्स की श्रृंखला का विस्तार करने के क्रम में है. इसके अतिरिक्त नये बाजारों जैसे बंगलादेश में भी प्रवेश की योजना बनाई जा रही है.

- कंपनी अपनी मूल कंपनी के साथ आउटसोर्सिंग के अवसरों की तलाश में सक्रिय है तथा अपनी निर्माण क्षमता भी बढ़ा रही है.

मुख्य चिंतायें

आंतरिक कपड़ों के क्षेत्र में विद्यमान वस्त्र ब्रैंडों के प्रवेश की वजह से पीआइएल कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है. इसके इलावा, कई विदेशी ब्रैंड भी भारत में प्रवेश के लिए कतार में खड़े हैं जो इस प्रतिस्पर्धा में इज़ाफ़ा ही करेंगे. कंपनी के पास जाँकी ब्रैंड का लाइसेंस है लेकिन उसका एकाधिकार नहीं है. इसे अपनी शुद्ध बिक्री का लगभग 5% बतौर रॉयल्टी जाँकी इंटरनेशनल को देना पड़ता है.

मूल्यांकन

वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2007 अर्जन के 28.8x तथा विव2008 के आकलित अर्जन के 22x पर कारोबार कर रहा है. वर्तमान स्तरों पर स्टॉक उचित मूल्यांकन से ऊपर दिख रहा है. ■

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

पटेल इंजीनियरिंग

व्यूपाइंट

वर्तमान बाजार भाव: रु.412

मई 10, 2007

भूसंपत्ति के भाव खुले

9 मई 2007 को मुंबई में आयोजित पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (पीईएल) की विश्लेषक बैठक में हम सम्मिलित हुए जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

रियल इस्टेट के लिए योजनायें

- कंपनी ने पहली बार अपने रियल इस्टेट योजनाओं एवं अपनी भूसंपत्ति के लिए नीतियों को अनावरित किया.
- कंपनी की भूसंपत्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण भूसंपत्ति शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं जिसकी वजह से इनकी कीमतें उच्च हैं.
- कंपनी की पूर्ण सहायक कंपनी, पटेल रियल्टी इंडिया लिमिटेड (पीआरआइएल) के जरिए कंपनी रियल इस्टेट से संबंधित सभी गतिविधियां कार्यान्वित करती है.
- कंपनी के आकलन के मुताबिक, बिक्री योग्य कुल क्षेत्र लगभग 6 करोड़ वर्ग फीट में फैला हुआ है, जिसे यदि औसत मूल्य रु.2,000 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बेचा जाये तो रु.12,000 करोड़ की विशाल रकम हाथ आयेगी.
- योजना के पहले चरण में कंपनी मुंबई एवं बैंगलूर स्थित अपने जमीनों का विकास करेगी.

मुख्य निर्माण उद्योग के लिए योजनायें

- हाइड्रो पावर निर्माण उद्योग में पीईएल अग्रणी स्थान रखता है. भारत में हाइड्रो पावर के विशाल सामर्थ्य के इस्तेमाल की सरकारी योजनाओं को देखते हुए उच्च मार्जिन वाले हाइड्रो पावर खंड में कंपनी की स्थिति और भी मज़बूत होगी.

- कंपनी के पास रु.5,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मौजूद है जो इसके विव2007 संघटित बिक्री के 3.7x के बराबर है. यह कंपनी की विशाल राजस्व दृश्यता को प्रदान करता है.

- कंपनी यह अपेक्षा करती है कि अगले दो से तीन वर्षों में उसका राजस्व 25-30% संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा.

विजली उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश

पीईएल ने यह घोषणा किया है कि वह रु.5,000 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ भावनगर के निकट 1,200 मेगावाट क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही है.

मूल्यांकन एवं दृष्टिकोण

वर्तमान बाजार भाव पर, स्टॉक अपने विव2008 अर्जन के 21.7x पर कारोबार कर रहा है जो इसके प्रतियोगियों के अनुरूप है. चूंकि इन मूल्यांकनों में कंपनी की भूसंपत्ति का मूल्यांकन शामिल नहीं है, इसलिए रियल इस्टेट उद्यम में कंपनी की सफलता पर निर्भर करते हुए कंपनी का मूल्यांकन वर्तमान स्तरों से ऊपर जा सकता है. ■

लेखक का इस लेख में वर्णित किसी कंपनी में कोई निवेश नहीं है.

विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट, sharekhan.com के रिसर्च खण्ड से जानकारी प्राप्त करें

| कंपनी | कीमत (रु.) | बिक्री | | | शुद्ध लाभ | | | ईपीएस | | | ईपीएस वृद्धि (%) | पीई (%) | | | आरओसीई (%) | | आरओएनडब्ल्यू (%) | | डीपीएस (रु.) | डिवी. लाभ (%) |
|--------------------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|--------|--------|------------------|---------|--------|--------|------------|--------|------------------|--------|--------------|---------------|
| | | बिग06 | बिग07E | बिग08E | बिग06 | बिग07E | बिग08E | बिग06 | बिग07E | बिग08E | | बिग06 | बिग07E | बिग08E | बिग06 | बिग07E | बिग06 | बिग07E | | |
| एवरग्रीन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एचडीएफसी बैंक | 1,152.9 | 3,670.3 | 5,225.8 | 7,183.9 | 871.2 | 1,141.9 | 1,502.9 | 27.8 | 35.8 | 41.6 | 22% | 41.4 | 32.2 | 27.7 | - | - | 17.7 | 19.3 | 7.0 | 0.6 |
| इन्फोसिस टेक | 1,940.1 | 9,521.0 | 13,893.0 | 17,659.8 | 2,458.0 | 3,726.0 | 4,706.9 | 44.6 | 66.9 | 81.8 | 35% | 43.5 | 29.0 | 23.7 | 39.7 | 43.8 | 35.3 | 40.0 | 21.0 | 1.1 |
| रिलायंस इंड | 1,750.4 | 81,211.0 | 105,701.0 | 91,354.0 | 9,069.0 | 10,386.0 | 10,499.9 | 65.0 | 74.4 | 75.2 | 8% | 26.9 | 23.5 | 23.3 | 20.1 | 25.1 | 20.1 | 19.4 | 10.0 | 0.6 |
| टीसीएस | 1,219.0 | 13,245.0 | 18,633.0 | 24,003.0 | 2,911.0 | 4,132.0 | 5,157.0 | 29.7 | 42.2 | 52.7 | 33% | 41.0 | 28.9 | 23.1 | 40.1 | 39.5 | 49.4 | 45.2 | 7.5 | 0.6 |
| एप्पल ग्रीन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| एसीसी | 852.0 | 3,160.2 | 5,803.5 | 6,654.7 | 310.5 | 1,060.8 | 1,206.9 | 16.8 | 56.2 | 64.1 | 95% | 50.7 | 15.2 | 13.3 | 12.0 | 35.0 | 14.5 | 33.8 | 15.0 | 1.8 |
| आदित्य बिड़ला नूवो | 1,366.5 | 4,830.3 | 8,258.0 | 10,782.4 | 204.9 | 281.2 | 501.0 | 21.9 | 32.0 | 53.7 | 57% | 62.4 | 42.7 | 25.4 | 7.8 | 7.5 | 12.8 | 15.5 | 5.0 | 0.4 |
| अपोलो टायर्स | 360.2 | 2,613.6 | 3,292.3 | 3,741.0 | 78.2 | 113.4 | 158.0 | 20.4 | 24.4 | 31.3 | 24% | 17.7 | 14.8 | 11.5 | 12.7 | 16.4 | 11.6 | 11.6 | 4.5 | 1.2 |
| बजाज ऑटो | 2,235.0 | 7,488.1 | 9,520.4 | 10,623.4 | 999.3 | 1,286.9 | 1,322.1 | 98.7 | 127.2 | 130.6 | 15% | 22.6 | 17.6 | 17.1 | 25.5 | 27.1 | 20.9 | 23.2 | 40.0 | 1.8 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 271.6 | 4,416.6 | 4,959.3 | 5,850.7 | 827.0 | 1,026.5 | 1,307.4 | 22.6 | 28.1 | 35.8 | 26% | 12.0 | 9.7 | 7.6 | - | - | 11.2 | 12.5 | 6.0 | 2.2 |
| बैंक ऑफ इण्डिया | 211.0 | 4,059.8 | 5,247.1 | 6,034.6 | 701.2 | 1,122.8 | 1,352.7 | 14.4 | 23.0 | 27.7 | 39% | 14.7 | 9.2 | 7.6 | - | - | 14.8 | 21.1 | 3.5 | 1.7 |
| भारत बिजली | 1,920.6 | 301.1 | 405.8 | 479.1 | 31.0 | 43.1 | 52.2 | 54.8 | 76.3 | 92.4 | 30% | 35.0 | 25.2 | 20.8 | 45.1 | 42.3 | 40.1 | 37.6 | 13.0 | 0.7 |
| बीईएल | 1,892.1 | 3,502.0 | 3,894.3 | 4,469.7 | 583.0 | 713.9 | 843.1 | 72.9 | 89.2 | 105.4 | 20% | 26.0 | 21.2 | 18.0 | 41.7 | 37.8 | 29.7 | 26.7 | 12.0 | 0.6 |
| भारत हैवी इले. | 1,414.4 | 13,442.6 | 18,405.2 | 22,699.6 | 1,679.3 | 2,414.7 | 3,076.3 | 34.3 | 49.4 | 62.9 | 35% | 41.2 | 28.7 | 22.5 | 36.4 | 42.9 | 23.0 | 26.2 | 14.5 | 1.0 |
| भारती एयरटेल | 838.0 | 11,662.5 | 18,519.7 | 26,824.0 | 2,257.6 | 4,257.0 | 6,072.7 | 11.9 | 22.5 | 32.0 | 64% | 70.4 | 37.2 | 26.2 | 24.6 | 31.7 | 20.7 | 29.1 | - | 0.0 |
| केनरा बैंक | 255.2 | 4,959.5 | 5,477.8 | 6,007.2 | 1,343.9 | 1,420.8 | 1,552.0 | 32.8 | 34.7 | 37.9 | 8% | 7.8 | 7.3 | 6.7 | - | - | 20.3 | 18.5 | 7.0 | 2.7 |
| कॉरपोरेशन बैंक | 330.2 | 1,798.3 | 2,017.7 | 2,267.6 | 444.5 | 536.1 | 631.1 | 31.0 | 37.4 | 44.0 | 19% | 10.7 | 8.8 | 7.5 | - | - | 13.8 | 15.0 | 9.0 | 2.7 |
| क्रॉम्टन ग्रीन्स | 250.1 | 4,131.4 | 5,639.0 | 7,297.7 | 227.9 | 281.7 | 383.5 | 6.2 | 7.7 | 10.5 | 30% | 40.2 | 32.5 | 23.8 | 32.2 | 36.8 | 29.4 | 27.3 | 1.0 | 0.4 |
| एल्डर फार्मा | 388.4 | 352.4 | 457.5 | 562.1 | 36.7 | 55.7 | 74.8 | 21.0 | 29.9 | 40.2 | 38% | 18.5 | 13.0 | 9.7 | 13.4 | 17.0 | 14.2 | 18.4 | 2.5 | 0.6 |
| ग्रसिम इंडस्ट्रीज | 2,520.0 | 9,715.8 | 14,412.0 | 13,587.6 | 1,039.0 | 1,967.5 | 2,228.0 | 101.3 | 214.6 | 244.3 | 55% | 24.9 | 11.7 | 10.3 | 17.8 | 33.3 | 16.6 | 27.5 | 16.0 | 0.6 |
| एचसीएल टेक ** | 345.7 | 4,388.3 | 6,077.9 | 7,662.0 | 773.9 | 1,166.5 | 1,409.8 | 12.0 | 17.7 | 20.8 | 32% | 28.8 | 19.5 | 16.6 | 21.4 | 25.5 | 19.5 | 21.7 | 8.0 | 2.3 |
| हिन्दुस्तान लीवर * | 201.3 | 11,060.5 | 12,103.4 | 13,713.0 | 1,310.7 | 1,539.7 | 1,883.4 | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 20% | 33.5 | 28.8 | 23.4 | 68.7 | 67.0 | 56.8 | 56.5 | 6.0 | 3.0 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 928.1 | 9,691.8 | 13,563.8 | 17,873.0 | 2,540.1 | 3,110.2 | 4,015.7 | 28.5 | 34.6 | 35.4 | 11% | 32.5 | 26.8 | 26.2 | - | - | 13.6 | 13.3 | 10.0 | 1.1 |
| इण्डियन होटल कंपनी | 148.7 | 1,084.3 | 1,385.0 | 1,546.0 | 181.2 | 267.1 | 297.4 | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 28% | 47.9 | 32.3 | 29.2 | 14.0 | 18.4 | 10.6 | 13.9 | 1.3 | 0.9 |
| आईटीसी | 161.5 | 9,790.5 | 12,369.0 | 14,330.4 | 2,239.9 | 2,699.9 | 3,002.5 | 6.1 | 7.2 | 8.0 | 15% | 26.5 | 22.4 | 20.2 | 33.8 | 36.5 | 26.4 | 27.8 | 3.1 | 1.9 |
| ल्यूमिन | 722.3 | 1,606.1 | 1,970.9 | 2,600.0 | 182.7 | 302.1 | 328.9 | 20.7 | 34.2 | 37.3 | 34% | 34.9 | 21.1 | 19.4 | 15.8 | 23.3 | 28.4 | 24.0 | 3.3 | 0.5 |
| महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | 762.5 | 8,222.7 | 10,050.3 | 12,317.6 | 659.2 | 852.4 | 1,070.9 | 28.2 | 35.8 | 45.0 | 26% | 27.0 | 21.3 | 16.9 | 26.8 | 29.7 | 22.2 | 27.2 | 11.5 | 1.5 |
| मैरिको इण्ड | 57.6 | 1,145.3 | 1,559.5 | 1,826.0 | 86.9 | 112.9 | 147.1 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 29% | 39.7 | 31.1 | 24.0 | 26.1 | 28.0 | 33.3 | 23.2 | 2.2 | 3.8 |
| मारुति उद्योग | 810.9 | 12,052.2 | 14,653.9 | 17,856.7 | 1,189.2 | 1,562.0 | 1,737.4 | 41.1 | 54.0 | 60.1 | 21% | 19.7 | 15.0 | 13.5 | 34.5 | 31.7 | 24.7 | 20.0 | 4.5 | 0.6 |
| निकोलस पिरामल | 260.2 | 1,582.5 | 2,420.2 | 2,946.4 | 127.5 | 232.6 | 297.0 | 6.0 | 11.0 | 14.1 | 53% | 43.4 | 23.7 | 18.5 | 12.0 | 16.6 | 12.6 | 21.4 | 3.5 | 1.3 |
| ओमैक्स ऑटो | 92.2 | 578.6 | 664.8 | 764.6 | 20.0 | 24.6 | 30.5 | 9.4 | 11.5 | 14.2 | 23% | 9.8 | 8.0 | 6.5 | 13.3 | 18.9 | 18.8 | 22.0 | 2.3 | 2.4 |
| रैनवैक्सी * | 388.2 | 5,281.6 | 6,021.6 | 6,932.9 | 261.7 | 515.1 | 831.9 | 7.0 | 13.8 | 20.8 | 72% | 55.5 | 28.1 | 18.7 | 17.5 | 19.2 | 21.2 | 22.2 | 8.5 | 2.2 |
| सत्यम कंप्यूटर्स | 478.5 | 4,793.0 | 6,485.0 | 8,223.0 | 982.0 | 1,405.0 | 1,698.0 | 15.2 | 21.4 | 25.3 | 29% | 31.5 | 22.4 | 18.9 | 26.9 | 27.8 | 25.7 | 25.9 | 8.0 | 1.7 |
| एसकेएफ इण्डिया * | 452.2 | 781.4 | 1,342.5 | 1,537.1 | 91.7 | 99.3 | 127.5 | 17.4 | 18.8 | 24.2 | 18% | 26.0 | 24.1 | 18.7 | 43.0 | 39.4 | 26.4 | 23.5 | 4.5 | 1.0 |
| एसबीआई | 1,378.1 | 23,024.3 | 23,501.0 | 26,201.2 | 4,406.7 | 4,541.3 | 5,377.9 | 83.7 | 86.3 | 94.1 | 6% | 16.5 | 16.0 | 14.6 | - | - | 17.0 | 15.4 | 14.0 | 1.0 |
| सुन्दरम क्लेटॉन | 935.4 | 629.3 | 816.3 | 1,001.7 | 68.6 | 92.8 | 112.2 | 36.2 | 48.9 | 59.1 | 28% | 25.8 | 19.1 | 15.8 | 27.8 | 31.2 | 23.7 | 26.5 | 15.0 | 1.6 |
| टाटा मोटर्स | 747.2 | 23,769.5 | 32,426.4 | 37,944.9 | 1,710.7 | 2,206.4 | 2,446.9 | 45.2 | 56.3 | 63.5 | 19% | 16.5 | 13.3 | 11.8 | 30.8 | 33.4 | 27.9 | 28.4 | 15.0 | 2.0 |
| टाटा टी | 952.3 | 3,106.5 | 4,044.6 | 4,199.0 | 293.9 | 341.9 | 388.7 | 52.5 | 57.9 | 62.9 | 9% | 18.1 | 16.4 | 15.1 | 13.9 | 13.0 | 19.0 | 18.2 | 15.0 | 1.6 |
| यूनिकेम लेव | 263.7 | 459.9 | 545.6 | 638.9 | 76.2 | 88.9 | 102.5 | 21.2 | 24.7 | 28.5 | 16% | 12.4 | 10.7 | 9.3 | 26.7 | 26.7 | 25.3 | 23.9 | 5.0 | 1.9 |
| विप्रो | 544.2 | 10,611.0 | 14,943.0 | 18,269.0 | 2,027.0 | 2,917.0 | 3,459.2 | 14.2 | 20.4 | 24.2 | 31% | 38.3 | 26.7 | 22.5 | 23.5 | 26.1 | 25.7 | 29.1 | 6.0 | 1.1 |
| एमजिंग स्टार | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| श्री आई इन्फोटेक | 310.3 | 417.8 | 655.3 | 1,089.5 | 50.2 | 96.5 | 155.1 | 9.5 | 14.3 | 21.3 | 50% | 32.7 | 21.7 | 14.6 | 15.1 | 15.0 | 13.7 | 14.5 | 2.0 | 0.6 |
| अर्बॉन ऑफशोर | 2,659.4 | 490.1 | 576.4 | 1,099.5 | 76.8 | 112.4 | 485.3 | 20.8 | 29.2 | 126.1 | 146% | 127.9 | 91.1 | 21.1 | 15.9 | 7.5 | 26.3 | 11.6 | - | - |
| अल्फाजिओ इंडिया | 346.9 | 23.9 | 55.0 | 80.0 | 4.2 | 7.5 | 13.5 | 8.5 | 13.6 | 24.5 | 70% | 40.8 | 25.5 | 14.2 | 27.0 | 30.7 | 20.4 | 27.9 | 0.5 | 0.1 |
| कैडिला हेल्थकेयर | 335.0 | 1,484.5 | 1,828.8 | 2,129.7 | 164.9 | 233.8 | 277.4 | 13.1 | 18.6 | 22.1 | 30% | 25.6 | 18.0 | 15.2 | 17.0 | 20.5 | 23.6 | 27.6 | 4.0 | 1.2 |
| एफ-एम गोयेट्ज * | 252.1 | 449.2 | 380.0 | 644.4 | 13.5 | 18.6 | 55.6 | 5.3 | 7.3 | 18.6 | 87% | 47.6 | 34.5 | 13.6 | 10.9 | 9.2 | 14.0 | 16.1 | 0.0 | - |
| केएसबी पंप्स | 493.8 | 358.6 | 406.4 | 476.9 | 37.9 | 51.1 | 60.5 | 21.8 | 29.4 | 34.8 | 26% | 22.7 | 16.8 | 14.2 | 44.2 | 45.0 | 23.3 | 25.3 | 4.0 | 0.8 |
| मार्कसन्स फार्मा | 52.1 | 297.4 | 391.3 | 535.5 | 22.9 | 37.9 | 73.5 | 6.4 | 10.5 | 20.4 | 79% | 8.2 | 5.0 | 2.6 | 10.5 | 13.8 | 23.3 | 27.2 | - | - |
| नवनीत पब्लिकेशन्स | 60.0 | 294.3 | 326.8 | 369.1 | 35.6 | 43.6 | 53.7 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 22% | 16.0 | 13.0 | 10.7 | 15.9 | 19.1 | 19.4 | 21.0 | 2.0 | 3.3 |
| एनडीटीवी | 389.6 | 221.0 | 278.4 | 356.3 | 24.1 | 20.9 | 43.2 | 4.0 | 3.4 | 6.9 | 32% | 98.3 | 114.6 | 56.5 | 14.1 | 5.4 | 12.7 | 7.4 | 0.8 | 0.2 |
| न्युक्लिअस सॉफ्टवेयर | 1,009.8 | 148.2 | 221.2 | 322.6 | 37.0 | 55.2 | 81.0 | 21.8 | 32.6 | 49.7 | 51% | 46.3 | 31.0 | 20.3 | 37.7 | 37.4 | 32.1 | 33.2 | 3.5 | 0.3 |

* विव के बजाय में कैलेंडर वर्ष

** जून में समाप्त वर्ष

9 माह

| कंपनी | कीमत (रु.) | बिक्री | | | शुद्ध लाभ | | | ईपीएस | | | ईपीएस वृद्धि (%) बिब08/बिब06 | पीई (%) | | | आरओसीई (%) | | आरओएनडब्ल्यू (%) | | डीपीएस (रु.) | डिवी. लाभ (%) |
|------------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|---------------------------------|---------|--------|--------|------------|--------|------------------|--------|--------------|---------------|
| | | बिब06 | बिब07E | बिब08E | बिब06 | बिब07E | बिब08E | बिब06 | बिब07E | बिब08E | | बिब06 | बिब07E | बिब08E | बिब06 | बिब07E | बिब06 | बिब07E | | |
| ऑकिंड केमिकल्स | 258.7 | 821.5 | 907.4 | 1,181.1 | 82.9 | 96.6 | 248.3 | 12.8 | 14.7 | 26.1 | 43% | 20.2 | 17.6 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 9.4 | 3.0 | 1.2 |
| ओआरजी इंफोर्मेटिक्स | 115.8 | 155.2 | 331.5 | 426.2 | 8.1 | 17.7 | 24.1 | 5.9 | 10.1 | 14.1 | 55% | 19.6 | 11.5 | 8.2 | 37.5 | 39.0 | 43.2 | 27.7 | - | - |
| टाटा एलेक्सी | 342.2 | 235.6 | 308.0 | 395.8 | 34.5 | 52.4 | 67.1 | 11.0 | 16.7 | 21.4 | 39% | 31.1 | 20.5 | 16.0 | 57.5 | 62.0 | 98.6 | 84.0 | 7.0 | 2.0 |
| टीवी 18 इण्डिया ^ | 834.2 | 152.0 | 239.8 | 322.4 | 37.2 | 60.8 | 90.6 | 17.7 | 10.8 | 16.0 | -5% | 47.1 | 77.2 | 52.1 | 19.4 | 18.0 | 21.7 | 21.6 | 2.0 | 0.2 |
| धरमैक्स | 497.8 | 1,624.3 | 2,326.7 | 3,264.0 | 100.9 | 199.2 | 279.3 | 8.5 | 16.7 | 23.4 | 66% | 58.8 | 29.8 | 21.3 | 37.2 | 56.0 | 22.3 | 31.4 | 3.4 | 0.7 |
| यूटीआई बैंक | 576.2 | 1,807.9 | 2,577.2 | 3,354.1 | 485.1 | 659.0 | 851.1 | 17.4 | 23.4 | 26.8 | 24% | 33.1 | 24.6 | 21.5 | - | - | 18.2 | 21.0 | 4.5 | 0.8 |
| अग्ली डिविज़न | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| अहमदनगर फॉर्जिंग्स | 253.0 | 357.9 | 635.0 | 934.2 | 40.5 | 67.5 | 121.3 | 12.2 | 20.3 | 36.5 | 73% | 20.7 | 12.5 | 6.9 | 24.5 | 27.9 | 15.7 | 21 | - | - |
| अशोक लेलेण्ड | 38.4 | 5,329.8 | 7,168.2 | 8,302.2 | 285.0 | 436.3 | 480.0 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 28% | 17.5 | 11.6 | 10.7 | 21.6 | 26.6 | 20.2 | 23.3 | 1.2 | 3.1 |
| अरबिंदो फार्मा | 697.7 | 1,593.6 | 2,057.5 | 2,622.4 | 45.5 | 202.7 | 277.9 | 13.2 | 33.4 | 45.8 | 86% | 52.9 | 20.9 | 15.2 | 7.4 | 11.2 | 8.6 | 13.5 | 1.5 | 0.2 |
| बीएसएफ | 268.5 | 683.0 | 836.7 | 1,165.5 | 45.4 | 56.2 | 80.1 | 16.1 | 20.0 | 28.4 | 33% | 16.7 | 13.4 | 9.5 | 24.8 | 27.5 | 17.1 | 19.2 | 7.0 | 2.6 |
| सीएट | 176.4 | 1,744.1 | 2,134.8 | 2,458.9 | 0.5 | 39.7 | 76.1 | 0.1 | 8.7 | 16.7 | 1192% | 1,764.0 | 20.3 | 10.6 | 8.4 | 14.0 | 0.2 | 10.2 | 1.8 | 1.0 |
| दीपक फर्टिलाइजर्स | 92.8 | 608.7 | 692.4 | 891.9 | 74.6 | 93.7 | 135.3 | 8.5 | 10.6 | 15.4 | 35% | 10.9 | 8.8 | 6.0 | 11.3 | 11.5 | 14.2 | 13.9 | 3.0 | 3.2 |
| फेम केयर फार्मा | 429.8 | 70.4 | 80.8 | 97.2 | 6.1 | 10.7 | 13.8 | 20.3 | 35.6 | 45.8 | 50% | 21 | 12 | 9 | 58.7 | 50.8 | 43.6 | 46.0 | 6.0 | 1.4 |
| जीनस पॉवर इंफ्रा | 262.9 | 212.8 | 365.2 | 494.0 | 14.8 | 28.2 | 38.6 | 14.7 | 23.2 | 31.7 | 47% | 17.9 | 11.3 | 8.3 | 23.3 | 24.9 | 36.4 | 27.9 | 1.5 | 0.6 |
| हेक्सावेअर टेक | 155.6 | 678.7 | 848.2 | 1,124.2 | 91.6 | 124.2 | 158.6 | 7.7 | 8.9 | 11.2 | 21% | 20.2 | 17.5 | 13.9 | 32.3 | 33.2 | 28.3 | 28.6 | - | 0.0 |
| आईसीआई इण्डिया | 524.7 | 892.0 | 900.0 | 945.1 | 53.7 | 107.0 | 119.0 | 13.1 | 26.2 | 29.1 | 49% | 40.1 | 20.0 | 18.0 | 11.5 | 9.8 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 5.1 |
| इण्डिया सीमेंट्स | 181.3 | 1,541.8 | 2,049.7 | 2,690.6 | 42.4 | 449.3 | 583.6 | 2.2 | 20.4 | 22.4 | 219% | 82.4 | 8.9 | 8.1 | 8.2 | 22.2 | 5.1 | 31.5 | - | - |
| इंडो टेक ट्रांसफार्मर | 348.3 | 92.7 | 155.5 | 226.6 | 11.1 | 25.2 | 30.8 | 10.5 | 23.7 | 29.0 | 66% | 33.2 | 14.7 | 12.0 | 23.0 | 38.7 | 23.3 | 30.6 | 2.0 | 0.6 |
| जेएम फायनेंसियल | 1,100.0 | 335.0 | 452.3 | 565.3 | 67.2 | 102.6 | 145.1 | 23.4 | 31.6 | 44.7 | 38% | 47.0 | 34.8 | 24.6 | - | - | 21.8 | 17.2 | 2.5 | 0.2 |
| जयप्रकाश एशो. | 697.8 | 3,791.4 | 4,384.2 | 5,235.2 | 379.4 | 443.6 | 638.2 | 19.5 | 20.5 | 29.5 | 23% | 35.8 | 34.0 | 23.7 | 12.4 | 14.3 | 24.4 | 22.8 | 2.5 | 0.4 |
| केईआई इण्डस्ट्रीज | 91.2 | 299.4 | 576.0 | 837.2 | 26.0 | 45.2 | 69.5 | 5.2 | 7.7 | 11.8 | 51% | 17.5 | 11.8 | 7.7 | 32.6 | 36.9 | 42.3 | 38.5 | 0.4 | 0.4 |
| एनआईआईटी | 590.3 | 607.5 | 885.9 | 1,145.7 | 66.3 | 129.2 | 166.1 | 17.2 | 33.0 | 42.5 | 57% | 34.3 | 17.9 | 13.9 | 25.9 | 38.7 | 30.3 | 39.0 | 6.0 | 1.0 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 535.3 | 6,147.7 | 6,556.9 | 7,440.0 | 1,439.0 | 1,540.0 | 1,971.1 | 45.6 | 48.8 | 62.5 | 17% | 11.7 | 11.0 | 8.6 | - | - | 16.4 | 15.3 | 9.0 | 1.7 |
| रत्नमणि मेटल | 882.6 | 319.1 | 557.9 | 695.7 | 33.5 | 59.6 | 70.4 | 37.3 | 63.1 | 74.5 | 41% | 23.7 | 14.0 | 11.8 | 38.7 | 47.8 | 50.5 | 54.1 | 2.5 | 0.3 |
| संघवी मूवर्स | 839.9 | 149.0 | 178.6 | 236.9 | 31.9 | 47.2 | 62.4 | 44.5 | 54.5 | 72.0 | 27% | 18.9 | 15.4 | 11.7 | 26.4 | 23.3 | 39.6 | 18.8 | 10.0 | 1.2 |
| सारेगामा इण्डिया | 289.4 | 126.7 | 143.3 | 176.8 | 7.2 | 16.8 | 23.5 | 4.9 | 11.4 | 16.0 | 81% | 59.1 | 25.4 | 18.1 | 8.9 | 18.0 | 11.9 | 20.1 | - | - |
| सेलन एक्सप्लोरेशन | 84.0 | 18.7 | 26.2 | 38.4 | 6.6 | 10.6 | 16.3 | 4.6 | 7.3 | 11.3 | 57% | 18.3 | 11.5 | 7.4 | 26.0 | 28.5 | 19.5 | 23.8 | - | - |
| सीमेक | 192.4 | 82.3 | 159.1 | 224.6 | 19.4 | 58.6 | 79.1 | 5.7 | 17.3 | 23.3 | 102% | 33.7 | 11.1 | 8.3 | 13.0 | 29.0 | 11.0 | 25.0 | - | - |
| सुब्रोज | 229.3 | 565.1 | 647.4 | 767.0 | 24.3 | 31.9 | 39.3 | 20.3 | 26.6 | 32.8 | 27% | 11.3 | 8.6 | 7.0 | 20.6 | 21.7 | 18.9 | 19.5 | 3.0 | 1.3 |
| सन फार्मा | 1,092.0 | 1,637.2 | 2,132.1 | 2,791.2 | 573.6 | 774.1 | 936.5 | 30.9 | 40.0 | 47.9 | 25% | 35.4 | 27.3 | 22.8 | 16.4 | 19.0 | 36.1 | 19.5 | 5.5 | 0.5 |
| सूर्या फार्मा | 72.1 | 257.7 | 287.5 | 462.1 | 22.0 | 27.3 | 42.4 | 19.8 | 18.8 | 38.3 | 39% | 3.6 | 3.8 | 1.9 | 13.0 | 15.6 | 20.1 | 23.9 | - | - |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | 837.7 | 3,302.8 | 4,910.8 | 5,433.8 | 229.8 | 782.2 | 898.5 | 18.5 | 62.8 | 72.2 | 98% | 45.4 | 13.3 | 11.6 | 14.7 | 43.3 | 22.1 | 44.7 | 4.0 | 0.5 |
| यूबीआई | 121.1 | 2,999.4 | 3,632.2 | 4,104.9 | 675.2 | 845.3 | 1,079.7 | 13.4 | 16.7 | 21.4 | 27% | 9.1 | 7.3 | 5.7 | - | - | 15.8 | 17.5 | 3.5 | 2.9 |
| यूनिवर्सल केबल्स | 114.4 | 297.5 | 377.2 | 478.8 | 16.6 | 21.9 | 30.1 | 8.3 | 9.5 | 13.0 | 25% | 13.8 | 12.0 | 8.8 | 18.1 | 18.2 | 11.9 | 13.7 | 1.0 | 0.9 |
| वॉकहार्ट * | 425.7 | 1,413.1 | 1,729.0 | 2,272.8 | 257.1 | 241.2 | 360.9 | 23.5 | 22.0 | 30.2 | 13% | 18.1 | 19.3 | 14.1 | 17.0 | 11.4 | 31.5 | 22.6 | 5.0 | 1.2 |
| वल्थर्स पिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इसैब इण्डिया | 419.7 | 238.2 | 287.2 | 325.6 | 35.2 | 42.6 | 52.1 | 22.8 | 27.7 | 33.9 | 22% | 18.4 | 15.1 | 12.4 | 113.9 | 108.1 | 103.1 | 55.5 | 0.0 | 0.0 |
| ओरिएण्ट पेपर एण्ड | 447.3 | 867.1 | 1,102.2 | 1,287.9 | 39.1 | 130.7 | 182.4 | 26.3 | 88.2 | 94.9 | 90% | 17.0 | 5.1 | 4.7 | 18.0 | 32.6 | 92.9 | 36.4 | 10.0 | 2.2 |
| डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज | 49.2 | 147.1 | 165.4 | 200.5 | 4.3 | 7.9 | 12.2 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 55% | 20.5 | 13.3 | 8.5 | 13.0 | 15.4 | 10.6 | 11.2 | - | - |
| कैननबाल | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| इलाहाबाद बैंक | 86.1 | 2,184.4 | 2,218.1 | 2,597.0 | 706.4 | 750.1 | 839.6 | 15.8 | 16.8 | 18.8 | 9% | 5.4 | 5.1 | 4.6 | - | - | 26.8 | 22.7 | 4.0 | 4.6 |
| आन्ध्रा बैंक | 87.2 | 1,627.1 | 1,864.4 | 2,232.2 | 485.5 | 537.9 | 611.3 | 10.0 | 11.1 | 12.6 | 12% | 8.7 | 7.9 | 6.9 | - | - | 19.0 | 17.5 | 3.8 | 4.4 |
| सिप्ला | 224.2 | 2,891.4 | 3,438.1 | 4,100.5 | 692.4 | 660.8 | 847.2 | 8.9 | 8.5 | 10.9 | 11% | 25.2 | 26.4 | 20.6 | 29.4 | 21.5 | 34.9 | 18.9 | 1.2 | 0.5 |
| गेटवे डिस्ट्रिब्यूटर्स | 182.3 | 138.6 | 165.0 | 227.2 | 73.0 | 79.8 | 111.5 | 7.9 | 8.7 | 12.1 | 24% | 23.1 | 21.0 | 15.1 | 20.0 | 14.8 | 12.7 | 12.2 | 2.0 | 1.1 |
| आईसीआईएल | 320.9 | 66.8 | 79.8 | 98.9 | 5.7 | 8.3 | 11.3 | 23.8 | 34.6 | 47.1 | 41% | 13.5 | 9.3 | 6.8 | 28.8 | 32.2 | 17.4 | 20.5 | 2.5 | 0.8 |
| जेके सीमेंट्स | 149.1 | 872.3 | 1,233.0 | 1,479.0 | 32.5 | 178.6 | 210.9 | 4.7 | 25.5 | 30.2 | 153% | 31.7 | 5.8 | 4.9 | 9.6 | 23.2 | 4.8 | 21.6 | 1.5 | 1.0 |
| मद्रास सीमेंट्स | 2,792.7 | 1,008.4 | 1,574.1 | 1,904.0 | 79.9 | 308.5 | 378.1 | 66.2 | 255.3 | 313.0 | 118% | 42.2 | 10.9 | 8.9 | 14.9 | 45.3 | 20.3 | 46.0 | 15.0 | 0.5 |
| श्री सीमेंट | 1,183.0 | 694.8 | 1,368.0 | 1,723.0 | 152.6 | 356.7 | 433.6 | 43.8 | 102.4 | 124.5 | 69% | 27.0 | 11.6 | 9.5 | 26.5 | 43.3 | 51.5 | 54.3 | 3.0 | 0.3 |
| ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन | 87.5 | 904.8 | 1,088.5 | 1,265.7 | 20.7 | 30.8 | 39.0 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 13% | 21.9 | 19.0 | 17.1 | 17.8 | 17.6 | 19.4 | 22.4 | 1.5 | 1.7 |

* विव के बजाय में कैलेंडर वर्ष

** जून में समाप्त वर्ष

9 माह

^ पुनर्संरचनात्मक गतिविधि के कारण विव2006 के ईपीएस से अतुलनीय

टिप्पणियां

एवरग्रीन

- एचडीएफसी बैंक** ♦ तिमाही दर तिमाही 31% की निरंतर वृद्धि ने **एचडीएफसी** को सुरक्षित सौदे के साथ भारत में निजी क्षेत्र का अग्रणी बैंक बनाया है. ब्याज दर में अस्थिरता की जोखिम कम है क्योंकि 30% पर मौजूद इसकी अन्य आय/शुद्ध आय अनुपात इंडस्ट्री में सबसे अधिक है. बैंक ने नई शाखाएं खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिससे वृद्धि संवेग लंबे समय तक बरकरार रहेगा.
- इन्फोसिस टेक** ♦ **इन्फोसिस** भारत की प्रमुख आईटी एवं आईटी-संबंधित सेवा कंपनी है. यह ऑफशोर आउटसोर्सिंग की मजबूत ट्रेंड का अत्यधिक लाभ उठाने वाली मुख्य कंपनियों में से एक है. इसके अतिरिक्त, लागत-दबाव के बावजूद मुनाफे को बरकरार रख कंपनी ने अपनी योग्यता को सिद्ध कर दिया है.
- रिलायंस इण्डस्ट्रीज** ♦ **आरआइएल** का रिफाइनरी व्यवसाय जबरदस्त मार्जिन मजबूत बना हुआ है. अगले 18-24 महीनों में पेट्रोकेमिकल चक्र में चढ़ाव बना रहेगा. उर्ध्वप्रवाह (अपस्ट्रीम) संपत्तियां रु.580 प्रतिशेयर पर मूल्यांकित हैं. इसकी सहायक कंपनी, आरपीएल द्वारा स्टॉक-मूल्य में रु.167 की अतिरिक्त बढ़त है.
- टीसीएस** ♦ **टीसीएस** ने आईटी सर्विस आउटसोर्सिंग बिजनेस भारत से प्रारंभ किया था तथा बाद में देश की सबसे विशाल आईटी कंपनी के रूप में विकसित हुआ. यह कई सेवाओं की पेशकश में अग्रणी स्थान रखता है तथा इनऑर्गेनिक माध्यम से अपनी अग्रणी स्थिति को संवित कर रहा है.

एप्पल ग्रीन

- एसीसी** ♦ **एसीसी** भारत की अग्रणी सीमेंट उत्पादक कंपनी है तथा मांग-पूर्ति संतुलन में सुधार होने से यह मुख्य रूप से लाभ उठायेगा. विस्तृत क्षमता एवं कैपिटल पॉवर प्लाण्ट द्वारा लागत में कमी से वॉल्यूम में सुधार होगा जो लाभप्रदता को बढ़ायेगा. इसमें होल्सिम के स्टेक से मूल्य बढ़ेगा.
- आदित्य विड़ला नुवो** ♦ **आदित्य विड़ला नुवो** भारत के चार उत्तेजक क्षेत्रों: गारमेट्स, बीमा, टेलीकॉम एवं आईटी/आईईएस, की अद्वितीय कंपनी है. कंपनी के पास निपुण व्यापारिक नीति है कि वह अपने पारंपरिक व्यवसायों जैसे कार्बन ब्लेक, रेयान एवं उर्वरक से नगद जमा करके उच्च वृद्धि वाले व्यवसाय, जैसे गारमेट्स, बीमा, टेलीकॉम एवं आईटी/आईटी आधारित सेवाओं में निवेश करेगी.
- अपोलो टायर्स** ♦ **अपोलो टायर्स** ट्रकों एवं बसों के टायर बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है, जिसकी बाजार में 28% की हिस्सेदारी है. पिछले एक वर्ष में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी को देखते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापित (पुराने टायरों के बदले नए टायर) चक्र क्रियान्वित होगा. कंपनी के परिचालन लाभ मार्जिन पर कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से होने वाले लाभ का प्रभाव, विव2007 की तीसरी तिमाही से दिखेगा. वृद्धि के बेहतर अवसर तथा बाजार में कंपनी की प्रभावशाली स्थिति के मद्देनजर, हमें विश्वास है कि स्टॉक का मूल्य अभी कम है.
- बजाज ऑटो** ♦ **बजाज ऑटो** दो पहिया वाहनों की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी है. यह तीन अलग-अलग कंपनियों में विभक्त हो रही है-एक होल्डिंग कंपनी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी तथा एक वित्तीय सेवा एवं बीमा कंपनी. ब्याज दरों में बढ़त के कारण कंपनी दो-पहिया वाहन खंड प्रभावित हो रहा है. तिपहिया वाहन खण्ड कंपनी की संपूर्ण वॉल्यूम वृद्धि को कायम रखने में सहायता प्रदान करेगी. यह बीमा कारोबार में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है.
- बैंक ऑफ बड़ौदा** ♦ **बैंक ऑफ बड़ौदा** के पास देश भर में 2,700 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है. भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों में इसकी जबरदस्त पकड़ है. बैंक के पास केवल 35% निवेश पोर्टफोलियो बिक्री वर्ग के लिए उपलब्ध है तथा इसकी अवधि 2.7 वर्ष है. इसके साथ ही बैंक ने बढ़ रही ब्याज दरों के जोखिम से अपने निवेश पोर्टफोलियो को बहुत-अच्छी तरह जोखिम-मुक्त किया है. हम अपेक्षा करते हैं कि विव2006-08 के दौरान इसके मुख्य राजस्व में 15.1% तथा अर्जन में 25.7% की जबरदस्त वृद्धि होगी.
- बैंक ऑफ इण्डिया** ♦ **बैंक ऑफ इण्डिया** के पास देश भर में 2,644 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है तथा विदेश में 24 शाखाएं मौजूद हैं. बैंक के पास केवल 25% निवेश पोर्टफोलियो बिक्री वर्ग के लिए उपलब्ध है तथा इसकी अवधि 2.0 वर्ष है. इसके साथ ही बैंक ने बढ़ रही ब्याज दरों के जोखिम से अपने निवेश पोर्टफोलियो को बहुत-अच्छी तरह जोखिम-मुक्त किया है. विकसित मार्जिन एवं परिसंपत्तियों में लगातार वृद्धि के साथ, हम अपेक्षा करते हैं कि विव2006-08 के दौरान इसके मुख्य राजस्व में 21.9% तथा अर्जन में 38.9% की जबरदस्त वृद्धि होगी.
- भारत बिजली** ♦ **भारत बिजली**, एक अग्रणी ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी है, जो टी एण्ड डी सेक्टर में विशाल निवेश का लाभ उठायेगी. निम्न मार्जिन वाले एलिवेटर व्यवसाय के स्थानांतरण से ओपीएम तथा आरओसीई में विशेष सुधार होगा.
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स** ♦ **बीईएल**, सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई है, जो इलेक्ट्रॉनिक, संचार एवं रक्षा क्षेत्र के उपकरणों का निर्माण करती है. रक्षा तंत्रों को अधिक मजबूत एवं आधुनिक करने के लिए बजट में शामिल विस्तारित पूंजी खर्च योजना से यह काफी लाभ उठा रही है. इसके अतिरिक्त, गैर-सैनिक एवं निर्यात आदेश भी इसके राजस्वों में वृद्धि कर रहे हैं.
- बीएचईएल** ♦ **बीएचईएल**, भारत की सबसे बड़ी बिजली उपकरण निर्माता है. यह विद्युत क्षेत्र में किए गए निवेश में चार गुना बढ़त से काफी मुनाफा कमायेगी. रु.55,000 मूल्य के बराबर इसका आदेश बुक है, जो विव2006 राजस्व का 3x है तथा हम अपेक्षा करते हैं कि कंपनी अपने वृद्धि संवेग को बरकरार रखेगी.
- भारती एयरटेल** ♦ **भारती एयरटेल** वायरलेस दूरसंचार क्षेत्र में आई क्रान्ति में सबसे आगे रहा है तथा देश में सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर के रूप में उभरा है. राजस्व में जबरदस्त वृद्धि के साथ, लागत कम करने तथा उच्च मार्जिन वाले आवाज-रहित कारोबार पर फोकस से दर-सूची में आई गिरावट का प्रभाव कम होगा.
- केनरा बैंक** ♦ **केनरा बैंक** के पास देश भर में 2,513 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है. भारत के पश्चिमी क्षेत्र, खासकर आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में इसकी जबरदस्त पकड़ है. मैच्यूरिटी वर्ग में मौजूद लगभग 60% निवेश पोर्टफोलियो के साथ बढ़ रही ब्याज दरों से बैंक कुछ जोखिम झेल रहा है. हम अपेक्षा करते हैं कि विव2006-08 के दौरान इसके मुख्य राजस्व में 10% तथा आय में 8% की जबरदस्त वृद्धि होगी.
- कॉरपोरेशन बैंक** ♦ **कॉरपोरेशन बैंक** के पास निम्न लागत/आय अनुपात तथा उच्चतर टायर-1 सीएआर है. इससे राज्यकृत बैंकों के विपरीत इक्विटी को बिना तनूकृत किए हुए बैलेंस-शीट के लिए पर्याप्त लीवरेज के अवसर प्राप्त हो जाते हैं. यह अन्य राजकीय बैंकों से बिल्कुल भिन्न है. यह अपने पूरे व्यवसाय को तकनीकी सक्षमता प्रदान करने की पूरी कोशिश में है तथा विव2006 तक इसकी सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग संल्यूशन से लैस हो जायेगी. इसके पास 0.47% पर एनपीएज के साथ अच्छी कोटि की परिसंपत्तियां हैं.
- क्रॉम्टन ग्रीन्स** ♦ **क्रॉम्टन ग्रीन्स** के औद्योगिक एवं विद्युत-तंत्र जैसे मुख्य व्यवसायों के लिए वृष्टिकोण उत्फुल्ल है. रु.4,500 करोड़ का जबरदस्त ऑर्डर बुक इसके विव07 संघटित राजस्व के 0.7x के बराबर है तथा यह अर्जन दृश्यता उत्पन्न करता है. पॉवेल एवं जीटीवी के अधिग्रहण की सहक्रिया से कंपनी की संघटित अर्जन चालित होगी.
- ईल्डर** ♦ **स्नेहल एवं टाइगर बाम** जैसे शीर्ष ब्राण्डों के साथ **एल्डर फार्मा** घरेलू मांगों वाले नए मॉलिक्यूलस का निर्माण कर रही है. नये इन-लाइसेंस करारों से कंपनी की बेहतर विकास की उम्मीद की जाती है. फेयरनेस क्रोम, फेयरवन, से इसकी आय में बढ़ोतरी होगी.

| | |
|--------------------|--|
| ग्रासिम | <ul style="list-style-type: none"> वीएसएफ कारोबार के विकसित कार्य-निष्पादन, अपने सीमेंट कारोबार में जारी जबरदस्त कामकाज तथा अपने 51% सहायक कंपनी, अल्ट्राटेक, के अर्जनों में बढ़त के बल ग्रासिम के संघटित अर्जन आगे बढ़ेंगे। |
| एचसीएल टेक | <ul style="list-style-type: none"> एचसीएल टेक अग्रणी भारतीय आईटी सेवा विक्रेताओं में से एक है। पिछले कुछ तिमाहियों के दौरान इसने बड़े सौदों से अपने कारोबार को सफलतापूर्वक काफी बढ़ाया है तथा इसकी राजस्व-वृद्धि दृश्यता में भी काफी सुधार हुई है। |
| एचएलएल | <ul style="list-style-type: none"> एचएलएल भारत की एक अग्रणी फास्ट मूविंग कंप्यूटर गुड (एफएमसीजी) कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर में वॉल्यूम वृद्धि बढ़ रही है जिससे कंपनी काफी फायदे में रहेगी। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग उस पर सोने पे सोहागा जैसा काम करेगी। कंपनी ने अपने सभी उत्पादों की मूल्य शक्ति पुनःप्राप्त कर ली है। इसके साथ कच्चे माल की स्थिर कीमतें, हानिप्रद व्यवसाय का संभलना तथा कर बचत इसके मुनाफे को और बढ़ावेंगे। |
| आइसीआइसीआइ बैंक | <ul style="list-style-type: none"> आइसीआइसीआइ बैंक भारत की दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। फुटकर अग्रिम खण्ड में कंपनी की मजबूत स्थिति से कर्ज तथा शुल्क आय में विशाल वृद्धि का इसे दोहरा लाभ मिलता है। इसकी विभिन्न सहायक कंपनियों बैंक के कुल मूल्यांकन में रु.380 का योगदान कर रही हैं। बीमा (74%) तथा संपत्ति-प्रबंधन (51%) व्यवसायों में मौजूद होल्डिंग्स को बैंक ने अपनी 100% सहायक कंपनी, आइसीआइसीआइ होल्डिंग्स में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस कंपनी के सूचीकरण से बैंक का संपूर्ण मूल्यांकन विकसित होगा। बैंक ने रु.20,000 करोड़ की पूंजी विस्तार योजना बनाया है जो अगले तीन वर्षों में इक्विटी को बिना बढ़ाये बैंक के विकास में इस्तेमाल होगा। |
| इण्डियन होटल कंपनी | <ul style="list-style-type: none"> होटल इंडस्ट्री में मजबूत मांग-आपूर्ति परिदृश्य अत्यावधि में एआरआर के पक्ष में होगा तथा हम अपेक्षा करते हैं कि इण्डियन होटल कंपनी, पूरे देश में फैले होटलों के साथ इण्डस्ट्री में आई वर्तमान तेजी का सर्वाधिक लाभ उठायेगा। हम अपेक्षा करते हैं कि विव2006-08 के दौरान कंपनी का आय 27.3% की मजबूत सीएजीआर से बढ़ेगी। |
| आइटीसी | <ul style="list-style-type: none"> आइटीसी की योजना अपने मुख्य सिगरेट व्यवसाय को गैर-सिगरेट व्यवसाय, होटल, पेपर एवं कृषि-उत्पादों के साथ विविधिकरण करने की है, जो राजस्व में जबरदस्त वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। सिगरेट बिजनेस से उन सभी बिजनेस का पालन-पोषण करेगा, जो शैशवावस्था में है। ई-चौपाल नेटवर्क, राजस्व को आगे बढ़ाने का मुख्य चालक होगा। |
| ल्यूपिन | <ul style="list-style-type: none"> ल्यूपिन एक अग्रणी फार्मा कंपनी है। यह विश्वभर में एंटी-टीबी क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाये रखने के साथ अमरीकी बाजार (मुख्य रूप से संरूपण क्षेत्र) पर अपना लक्ष्य साधकर निर्यात बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने को तैयार है। इसके अतिरिक्त, विस्तारित फील्ड-फोर्स एवं मार्केटिंग डिवीजनों के साथ, घरेलू बाजार में ल्यूपिन का ब्रांडेड संरूपण कारोबार पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। साथ में, ल्यूपिन की आरएंडडी गतिविधि से आने वाले समय बेहतर मुनाफे की उम्मीद की जाती है। |
| एम एण्ड एम | <ul style="list-style-type: none"> एम एण्ड एम भारत में ट्रैक्टर एवं वाहन संबंधी सामानों को बनाने वाली अग्रणी कंपनी है। इस साल यूटिलिटी वाहन एवं ट्रैक्टर खण्ड में 10% की दर से वृद्धि का अनुमान है। दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अन्य व्यवसायों जैसे, यात्री कार एवं वाणिज्य वाहनों में निवेश की मदद से कंपनी विभिन्न ऑटो खण्डों में विस्तार करेगी। सिस्टेक द्वारा किये गये अधिग्रहणों का लाभ आगामी तीन वर्षों में प्राप्त होगा। इसकी सहायक कंपनियों के मूल्य सम-ऑफ-पार्ट्स मूल्यांकन में जुड़ेंगे। |
| मैरिको | <ul style="list-style-type: none"> मैरिको भारत की एक अग्रणी एफएमसीजी कंपनी है। इसके मुख्य ब्राण्ड्स, पाराशूट एवं सफोला की बाजार में जबरदस्त पकड़ है। यह ब्यूटी एवं हेल्थकेयर: साबुन एवं क्रियागत भोजन, के विशाल क्षेत्र पर पकड़ बनाना चाहती है। इसकी जोखिम प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो अठारह माह में हुए पांच अधिग्रहणों से सिद्ध होता है। उच्च मार्जिन वाले व्यापार, जैसे हेयर ऑयल, काया एवं सुंदरी में कंपनी ज्यादा ध्यान दे रही है। |
| मारुति उद्योग | <ul style="list-style-type: none"> मारुति उद्योग भारत की छोटी कार बनाने वाली अग्रणी कंपनी है। खालिस यात्री कार बनाने वाली केवल यही कंपनी है। नये उत्पादों के लांच के जरीए कंपनी घरेलू बाजार में अपनी विकास दर को बनाए रख रही है। सुजुकी ने अपने विश्वस्तरीय बाजारों के लिए छोटे कारों के निर्माण हेतु भारत को केन्द्र-बिन्दु माना है। बढ़ते हुए स्वदेशीकरण एवं लागत नियंत्रण मानकों से मार्जिस में सुधार आयेगी। |
| निकोलस पिरामल | <ul style="list-style-type: none"> बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ हुए अनुबंध-उत्पादन के सौदे से अग्रणी फार्मा कंपनी, निकोलस लाभ उठाने को पूरी तरह से तैयार है। इसके अतिरिक्त, यूके-स्थित फाइजर के मोरपेट प्लांट की खरीदारी से कंपनी की वैश्विक अनुबंध-उत्पादन में चारचांद लगेगा। कंपनी के पुनर्गठित फील्ड फोर्स से उत्पादों के उच्चतर अनुमोदन तथा घरेलू बाजार में अधिक हिस्सेदारी के संदर्भ में मूल्य संवर्द्धित होगा। |
| ओमैक्स ऑटो | <ul style="list-style-type: none"> ऑटो कंपोनेंट एवं ऑटो एन्सिलॉरीज के अग्रणी निर्माता के रूप में ओमैक्स ने अपने घरेलू ग्राहक आधार की विविधीकरण, निर्यातों में हिस्सेदारी में वृद्धि तथा अपने उत्पाद समूह में बढ़ोतरी द्वारा अपने राजस्व-मॉडल की पुनर्संरचना की है। यह वृद्धि के अवसर प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। |
| रैनबैक्सी | <ul style="list-style-type: none"> रैनबैक्सी एक अग्रणी फार्मा कंपनी है जो अपनी इर्णोमिक विकास नीति अपनाने के इलावा, घरेलू, नियोजित एवं अन्य फार्मा बाजारों में नये-नये उत्पाद लांच करने की जबरदस्त नीति को भी बरकरार रखी हुई है। इन सारे प्रयासों के साथ, रैनबैक्सी घरेलू बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये हुए है। अर्द्ध-नियोजित बाजारों में जबरदस्त विस्तार के साथ, अमरीका में मिलने वाले विशिष्ट अवसरों से कंपनी का विकास होगा। |
| सत्यम कंप्यूटर | <ul style="list-style-type: none"> सत्यम भारत की पांच बड़ी आईटी सर्विस कंपनियों में से एक है। इसकी सहायक कंपनियों में हुई लगातार हानियों के बावजूद इसने अपने कार्य निष्पादन में जबरदस्त सुधार प्रदर्शित किया है। |
| एसकेएफ इण्डिया* | <ul style="list-style-type: none"> एसकेएफ अग्रणी बियरिंग एवं इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। यह उच्च मार्जिन वाले प्रतिस्थापन बाजार में उत्तम दृश्यता से खुश है। यह इण्डियन ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री के वॉल्यूम में वृद्धि तथा इण्डिया इंक द्वारा विशाल औद्योगिक निवेश से मुख्य लाभ उठायेगा। यह अपने सर्विस डिवीजन पर फोकस की योजनाएं बना रही है। |
| एसबीआई | <ul style="list-style-type: none"> एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है तथा यह उच्च वृद्धि से आगे बढ़ रहा है। टिकाऊ शुद्ध ब्याज मार्जिनों एवं विकसित मुख्य परिचालित कार्य-निष्पादन के साथ बैंक का कर्ज व्यवसाय 22-25% की जबरदस्त दर पर आगे बढ़ रहा है। आरबीआई द्वारा सरकार को स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सहायक कंपनियों में निवेश से बैंक का मूल्य खुलेगा और इससे मूल बैंक में विकास की संभावना और भी बढ़ जाती है। शुद्ध अग्रिमों का 1.7% नीचे गिरते हुए एनपीएज के साथ परिसंपत्ति गुण में सुधार हो रहा है। |
| सुन्दरम क्लेटॉन | <ul style="list-style-type: none"> सुन्दरम क्लेटॉन एयर ब्रेक एवं कार्टिंग व्यवसाय की एक मजबूत कंपनी है, जो खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग को अपने उत्पाद सप्लाई करती है। यह दो अलग-अलग कंपनियों में विभाजित हो रही है: एयर ब्रेक कारोबार वैबको द्वारा तथा कार्टिंग कंपनी सुन्दरम समूह द्वारा संचालित होगी। मूल्य-वितालकन (वैल्यू-अनलॉकिंग) भारत से वैबको की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के सोर्सिंग को बढ़ायेगा तथा कार्टिंग कारोबार के लिए भी निर्यात की बेहतर प्रत्याशाएँ मौजूद हैं। |
| टाटा मोटर्स | <ul style="list-style-type: none"> टाटा मोटर्स भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। इसके पास वाणिज्यिक वाहनों एवं कारों का व्यापक उत्पाद समूह है। बढ़ती ब्याज दरों के चलते इसके वाणिज्यिक वाहन खंड की रफ्तार में कमी आई है। बहरहाल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के साथ कंपनी की दीर्घकालीन प्रत्याशाएँ सकारात्मक बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन एवं सहायक कंपनियों भी कंपनी के मूल्य को बढ़ाते हैं। |

- टाटा टी** ♦ विगत दो वर्षों से **टाटा टी** ने कर्माडिटी (चाय) विक्रेता से परिवर्तित होकर ब्राण्डेड टी निर्माता बन गया है. हाल ही में कंपनी ने हिमालियन ब्रैंड के स्वामी कंपनी, माउंट एवरेस्ट मिनरल वाटर का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है. इससे कंपनी एक पूर्ण पेय कंपनी बन गई है क्योंकि इसकी उपस्थिति सभी पेय पदार्थों में हो चुकी है: चाय, कॉफी तथा जल. बहरहाल, अपने प्रतियोगियों की तुलना में कंपनी का मूल्यांकन अभी भी कम है.
- यूनिक्वैम लैब** ♦ घरेलू फार्मा बाजार में बड़े ब्राण्ड्स एवं जबरदस्त मार्केटिंग नेटवर्क का होना, **यूनिक्वैम** की विशेषताएँ हैं. एक तरफ इसका घरेलू बाजार तेजी से बढ़ रहा है जबकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों (खासकर यूरोप) में कंपनी उत्साह के साथ उत्पादन को पंजीकरण कर रही है. यूके-स्थित अपनी सहायक कंपनी निशे जेनरिक की बकाया 40% हिस्सेदारी की खरीदारी कंपनी के उत्पाद-पंजीकरण, संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्रों में नये लांच तथा निर्यात को बढ़ायेगा.
- विप्रो** ♦ **विप्रो** भारत की अग्रणी आइटी सेवा कंपनियों में से एक है. बीपीओ व्यवसाय के पुनरुत्थान, इसके विद्यमान आइटी सर्विस व्यवसाय में मजबूत फैलाव तथा नवीनतम इनऑर्गेनिक पहल से बढ़ती वृद्धि, इन सारे कारकों ने अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा व्यवसाय में कंपनी की वृद्धि दृश्यता में काफी सुधार लाया है.

एमर्जिंग स्टार

- श्री आइ इन्फोटेक** ♦ **श्री आइ इन्फोटेक** बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा (बीएसएफआइ) क्षेत्र के लिए सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं सॉल्यूशन्स की पेशकश करता है. जबरदस्त आदेश बुक एवं विश्वव्यापी बाजार में इसके उत्पादों की बढ़ती दृश्यता से वृद्धि संवेग जारी रहने की अपेक्षा की जाती है. हाल ही के अधिग्रहणों से होने वाले लाभों का प्रभाव आगामी तिमाहियों से इसके कार्य निष्पादन पर पूरी तरह दिखेगा.
- एबान ऑफशोर** ♦ **एबान ऑफशोर** एशिया की अग्रणी तेल-शोधक कंपनियों में से एक है. यह विश्वभर में बढ़ रही तेल खोज एवं उत्पादन (ई एण्ड पी) गतिविधियों से जबरदस्त फायदा उठा रही है. उच्च प्रतिदिन दरों पर अपने विद्यमान संपत्तियों के मूल्य के पुर्ननिर्धारण तथा ऑर्गेनिक एवं गैर-ऑर्गेनिक मार्ग से अपनी परिसंपत्ति-आधार में बढ़त के द्वारा कंपनी अगले कुछ वर्षों में अपने वित्तीय कार्य-निष्पादन को विकसित करेगी.
- अल्फाजिओ** ♦ **अल्फाजिओ** भारत के तेल खोज एवं उत्पादन करने वाली कंपनियों को भूकंप सर्वे एवं इससे संबंधित अन्य सेवाएँ प्रदान करता है. हाल ही मिल आदेशों एवं पाइपलाइन में मौजूद आदेशों से विव2008 के लिए कंपनी की राजस्व-वृद्धि दृश्यता में काफी सुधार आया है.
- कैडिला फार्मा** ♦ घरेलू संरूपण क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी, **कैडिला फार्मा** अब यूएस जेनरिकस के उच्च मार्जिन वाले बाजारों की ओर बढ़ रही है. सीआरएएस क्षेत्र में तेज विकास कंपनी की आय दृश्यता में इजाफा कर रहा है. आने वाले समय में अपने मुख्य सहायक कंपनियों में तीव्र वृद्धि की अपेक्षा के साथ, कैडिला अपने दीर्घकालिक निवेशों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है.
- एफ-एम गोयट्ज** ♦ **फेडरल-मोगल गोयट्ज इंडिया** (एफएमजीआइ) वाहन क्षेत्रों में ओईएस को पिस्टन एवं पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने वाली एक अग्रणी कंपनी है. ओईएम बाजार के 65% हिस्से पर अपना कब्जा जमाने के साथ-साथ कंपनी वाणिज्यिक वाहन एवं ट्रैक्टर खण्डों में 70-80% भाग पर मजबूत पकड़ बनाये हुए है. कार खंड में आई डीजलीकरण की लहर पर एफएमजीआइ पूरी तरह सवार है. इसके पास अपने मूल कंपनियों को आउटसोर्सिंग के लिए विशाल सामर्थ्य मौजूद है, जो निम्न-लागत वाले देशों में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है.
- केएसबी पंप्स** ♦ **केएसबी पंप्स** पंप्स एवं वॉल्व्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है, जो भारत के विद्युत एवं औद्योगिक खण्ड में हो रहे निवेश का पूरा लाभ उठाती है. पंप्स व्यवसाय में जबरदस्त आदेश अंतर्प्रवाह एवं वॉल्व व्यवसाय में क्षमता विस्तार से वृद्धि चालित होगी.
- मार्कसन्स फार्मा** ♦ अनुबंध-उत्पादन हेतु आदेशों तथा जीवनशैली से जुड़े थोक दवाओं के कारोबार से **मार्कसन्स** की वृद्धि चालित होगी. नियोजित बाजारों, खासकर यूरोपीय बाजार एवं अन्य नये आरओडब्ल्यू बाजारों में अपने उत्पादों को उतारने के लिए कंपनी के प्रयास से इसका विकास होगा. इन्ॉर्गेनिक विकास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
- नवनीत पब्लिकेशन्स** ♦ गुजरात एवं महाराष्ट्र के पाठ्यक्रमों में हो रहे परिवर्तन के बल पर विव2008 के दौरान पब्लिकेशन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, **नवनीत** की आय में वृद्धि जारी रहेगी. गैर-कागजी स्टेशनरी उत्पादों के लांच के जरिए इसके स्टेशनरी कारोबार में काफी मदद मिलेगी.
- एनडीटीवी** ♦ **एनडीटीवी** भारत की विशाल टेलीविजन उत्पादन हाउसेज में से एक है. राजस्व की विशाल लहर, जैसे विश्वव्यापी अनुबंध, विश्वव्यापी सब्सक्रिप्शन संबंध तथा इंटरनेट उद्यम से इसने पहले ही दीर्घावधि वृद्धि हेतु अपना स्थान बना चुका है.
- न्युक्लिअस सॉफ्टवेयर** ♦ **न्युक्लिअस सॉफ्टवेयर** विश्वभर में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को सॉफ्टवेयर उत्पादों की व्यापक श्रृंखला पेश करती है. वार्षिक रैंकिंग पुनरावलोकन 2005 में इसके ध्वजपोत उत्पाद "फिन्वन" का दरजा अत्यधिक बिक्री वाले बैंकिंग उत्पादों में प्रथम था. उपयुक्त स्थिति तथा जबरदस्त ऑर्डर बुक इसके मजबूत वृद्धि-दृष्टिकोण को सुनिश्चित करता है.
- ऑर्किड केमिकल्स** ♦ **ऑर्किड** यूएस में सेफालोस्पोरिन के थोक एवं संरूपण बाजार से लाभ उठायेगी. यूरोपीय एवं केनेडियन बाजारों में इसके प्रवेश से आगामी वर्षों में इसकी बिक्री में काफी बढ़ावा मिलेगा. प्लांट को बैटाने तथा मार्केटिंग गठबंधन हेतु यूके एमएचआरए से अनुमति प्राप्त करने के साथ, ऑर्किड यूरोपीय बाजारों में प्रवेश के लिए बिल्कुल तैयार है, जो एक अलग रास्ते से कंपनी को आगे बढ़ायेगा.
- ओआरजी इंफोमेंटिक्स** ♦ **ओआरजी** कंवर्जेंट आइटी एवं दूरसंचार क्षेत्र में एकीकृत सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली कंपनी है. पुर्नसंरचित व्यापार मॉडल द्वारा चालित, कंपनी ने विगत दो वर्षों में घातीय वृद्धि दर्ज किया है. आदेश बुक की उत्तम स्थिति एवं परिचालनों के उचित आकार के बल पर वृद्धि संवेग कायम रहेगा.
- टाटा एलेक्सी** ♦ **टाटा एलेक्सी**, टाटा समूह की कंपनी है. इसने हार्डवेयर सेंट्रिक सिस्टम इंटेग्रेशन कंपनी से स्वयं को प्रॉडक्ट डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग सर्विस के उपयुक्त एवं यथेष्ट खण्ड में स्थापित कर लिया है. इसने विश्व की अग्रणी कंपनियों के साथ मजबूत ग्राहकीय संबंध स्थापित किया है, जिससे यह प्रॉडक्ट डिजाइन एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र के उपयुक्त खण्ड में उभरे बड़े अवसरों का लाभ प्रभावशाली ढंग से उठायेगी.
- टीवी एटीन इण्डिया** ♦ **टीवी एटीन** भारत की अग्रणी मीडिया कंपनी है. इसके पास देश के दो बड़े बिजनेस न्यूज चैनल *सीएनबीसी टीवी-18* एवं *आवाज* हैं. इसके पास जैसे, moneycontrol.com, poweryourtrade.com एवं commoditiescontrol.com जैसे उम्दा वेब भंडार मौजूद हैं. बेहतर प्रबंधन के साथ कंपनी देश की उत्तम मीडिया कंपनियों में अपना मुकाम बरकरार रखा है.
- थर्मक्स** ♦ इण्डिया इंक के निरंतर केपेक्स-विस्तार से **थर्मक्स** की एनर्जी एवं इंवायर्नमेंट व्यवसायों को लाभ मिलेगा. इसके पास रु.3,100 करोड़ का जबरदस्त ऑर्डर-बुक है, जो विव2007 के राजस्व के 1.3x के बराबर है तथा अर्जनों की दृश्यता को सुनिश्चित करता है. लागत प्रबंधन के साथ बेहतर परिचालित कुशलताओं के बल पर विव2006-08 के दौरान मार्जिन में 260-बेसिस प्वाइंट्स का विस्तार की उम्मीद की जाती है.
- यूटीआइ बैंक** ♦ विगत कुछ वर्षों से **यूटीआइ** ने अपने बैलेंस-शीट को तेजी से बेहतर बना लिया है. शुल्क आय के अनुपात बढ़ने से बैंक की आय-गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जाती है. बैंक ने पूंजी विस्तार की घोषणा की है, जो अगले तीन वर्षों में इसके वृद्धि-संवेग को बनाये रखेगा. परिसंपत्ति में मजबूत वृद्धि के बावजूद, 0.68% पर शुद्ध एनपीएज के साथ इसका संपत्ति-गुण मजबूत बना हुआ है.

| | |
|---------------------------|--|
| अहमदनगर फोर्जिंग्स | ♦ एएफएल अपनी फोर्जिंग क्षमता को विव2006 के 46,000 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) से तीगुना से अधिक बढ़ाकर विव2008 तक 165,000 टीपीए कर रही है। मशीनी क्षमता भी 10,000 टीपीए से बढ़ाकर 25,000 टीपीए की जा रही है। कंपनी के पास रु.850 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो आगले बारह माह में कार्यान्वित होगा। इन आदेशों में घरेलू बाजार से रु.650 करोड़ के आदेश शामिल हैं तथा शेष निर्यात आदेश हैं। कंपनी के भावी वृद्धि सामर्थ्य तथा इसके कारोबार में अत्यधिक बढ़ोतरी के मद्देनजर, हमें विश्वास है कि यह छूट इसके प्रतियोगियों के मुकाबले औचित्यपूर्ण नहीं है। |
| अशोक लेलेण्ड | ♦ अशोक लेलेण्ड वाणिज्यिक वाहन (सीवी) उद्योग की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बढ़ती व्याज दरों से इस खंड में आई मंदी के चलते कंपनी का अल्पकालीन कामकाज प्रभावित हो सकता है। दीर्घकालिक प्रत्याशाओं अपनी जगह पर उज्ज्वल बनी हुई हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग तथा ई-सोर्सिंग के बल पर कंपनी आने वाले दिनों में अपने मार्जिनों को बरकरार रखेगी। |
| अरविंदो फार्मा | ♦ 82 एनडीएज, 110 डीएमएफएस एवं अपने हाथों में 11 यूएसएफडीए द्वारा स्वीकृत सुविधा के साथ अरविंदो अमरीकी जेनरिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके इलावा, यूरोप एवं अन्य उभरते बाजारों में विस्तार तथा स्वीकृत एआरवी उत्पादों के समूह से वृद्धिशील राजस्व से कंपनी की राजस्व-वृद्धि चालित होगी तथा भविष्य में इसके मार्जिनों में भी विस्तार होगा। |
| बीएसएफ | ♦ बीएसएफ इण्डिया (बीएसएफ) जनसांख्यिकीय बदलाव एवं भारत में आई खपत की धूम से लाभ के लिए पूरी से तैयार है। बीएसएफ के उत्पादों का इस्तेमाल व्हाइट गुड्स, टेक्सटाइल्स, घर की सजावट के सामान, पेपर, कंस्ट्रक्श एवं ऑटोमोबाइल्स जैसे उद्योगों में किया जाता है। ये सारे उद्योग समकालीन समय में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, कैपेक्स योजना के जरिए अपने उत्पादों की क्षमता-विस्तार कर रही है। 3% लाभांश वृद्धि निवेश के लिए मार्जिन ऑफ सेप्टी प्रदान करता है। |
| सीएट | ♦ सभी वर्गों को मिलाकर सीएट की बाजार हिस्सेदारी 12% है तथा इंडस्ट्री में इसका स्थान चौथा है। इसकी कुल बिक्री में निर्यात की सहभागिता 20% है। निर्यात क्षेत्र तथा ज्यादा मुनाफे वाले विशिष्ट टायरों से अधिकतम सहयोग की अपेक्षा के साथ कंपनी अपने उत्पाद-समूह में सुधार ला रही है। अपनी उत्पादकता में सुधार को लेकर कंपनी ने कई कदम उठाये हैं। स्टॉक का मूल्यांकन काफी आकर्षक है। |
| दीपक फर्टिलाइजर | ♦ दीपक फर्टिलाइजर औद्योगिक रसायनों का उत्पादन एवं आपूर्ति करता है। औद्योगिक वृद्धि से थोक रसायनों की मांग बढ़ेगी। 70,000 एमटीपीए की नई क्षमता से आइपीए इसकी बिक्री तथा शुद्ध लाभ के लिए इन्फ्लेक्शन प्वाइण्ट का काम करेगा। इसने रु.400 करोड़ वाली अमोनियम नाइट्रेट प्लाण्ट की विस्तार की योजना भी बनाया है। रु.700 करोड़ की पूंजी-खर्च के बावजूद, इक्विटी तनुकृत नहीं है तथा कर्ज/इक्विटी अनुपात भी संतोषजनक है। |
| फेम केयर फार्मा | ♦ विरंजन (ब्लीच) क्रीम के उपयुक्त एवं यथेष्ट खण्ड में फेम केयर फार्मा अग्रणी स्थान रखता है। यह द्रव (लिक्विड) साबुन एवं हेयर-रिमूविंग वर्गों में भी अग्रणी है। हाइ-इंड उत्पादों के सफल लांच एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के अधिग्रहण से आगामी तिमाहियों में इसके संपूर्ण विकास में तेजी आयेगी |
| जीनस पॉवर इंफ्रा | ♦ जीनस भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक मीटर निर्माता कंपनी है। एपीडीआरपी के 100% मीटरिंग कार्यक्रम तथा मेकेनिकल मीटर्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लगाए जाने की पहल से जीनस के उत्पादों की मांग बढ़ेगी। रु.403 करोड़ के उत्तम आदेश बुक से राजस्व तथा मुनाफे में वृद्धि कायम रहेगी। |
| हेक्सावेअर टेक्नो | ♦ हेक्सावेअर टेक्नोलॉजीज हेक्सावेअर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एचटीएल) तेजी से बढ़ते हुए इंटरप्राइज पैकेज कार्यान्वयन एवं एचआर आइटी सर्विस क्षेत्रों पर संकेन्द्रित एक मिड-कैप कंपनी है। पीपुलसॉफ्ट उत्पादों के कार्यान्वयन बाजार में इसका अग्रणी स्थान है तथा यह ओरेकल एवं एसएपी क्षेत्र में अपनी पकड़ बना रही है। राजस्व-वृद्धि की मजबूत दृश्यता एवं मार्जिन को बरकरार रखने की योग्यता के बल पर कैलेंडर वर्ष 2006-08 के दौरान, कंपनी की आय में 28.5% सीएजीआर से वृद्धि की अपेक्षा की जाती है। |
| आइसीआइ इण्डिया | ♦ हम अपेक्षा करते हैं कि आइसीआइ का पेण्ट एवं स्टार्च व्यवसाय आगामी दो वर्षों 20% सीएजीआर से बढ़ेगा है। कुछ व्यवसायों के रुकने के कारण, कंपनी की शुद्ध बिक्री में वृद्धि मंद रही। कंपनी के पास रु.765 करोड़ का निवेश है जो रु.202 प्रतिशेयर के नकद या नकद-समकक्ष के बराबर है। |
| इण्डिया सीमेंट्स | ♦ इण्डिया सीमेंट्स दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी है, जो सीमेंट के मूल्यों में अपने उच्च उत्तोलन के सहारे घातांकी वृद्धि देखने को तैयार है। इसने अगले दो वर्षों में अपनी कुल क्षमता को बढ़ाकर 12 मिलियन टन करने की योजना बनाई है। |
| इंडो टेक | ♦ ट्रांसफार्मर्स की मांग में काफी तेजी है, इसका श्रेय सरकार के बिजली की अधिकाधिक उत्पादन लक्ष्य को जाता है। ट्रांसफार्मर की प्रतिवर्ष अपेक्षित मांग 95,000 एमवीए है, जबकि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की वर्तमान क्षमता 75,000 एमवीए है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी, इंडो टेक , अपनी क्षमता में विस्तार कर रही, जिससे इसकी आय में जबरदस्त वृद्धि की अपेक्षा है। |
| जेएम फायनेंसियल | ♦ जेएम फायनेंसियल गैर-बैंकीय वित्तीय कंपनी है। हाल ही में मार्गन स्टेनली (एमएस) से अलग होने के पश्चात् कंपनी अपनी संस्थागत इक्विटी डेस्क स्थापित करने, तथा अपने खुदरा ब्रोकिंग एवं मार्जिन फंडिंग व्यवसायों के विस्तार की योजना बना रही है। विदेशी संस्थागत इक्विटीज बिजनेस में मौजूद 49% हिस्सेदारी एमएस को बेचकर कंपनी ने रु.1,900 करोड़ इकट्ठा किया है। एमएस से निकलने के बावजूद, हम समझते हैं कि मध्यावधि से दीर्घावधि में स्टॉक का मूल्य खुलेगा। |
| जयप्रकाश एसोशिएट्स | ♦ जयप्रकाश भारत की अग्रणी सीमेंट एवं निर्माण उद्योग कंपनी है। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हुए विशाल निवेश का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार है। कंपनी के पास रु.7,200 करोड़ का उत्तम आदेश बुक है। ताज एक्सप्रेसवे परियोजना तथा रियल इस्टेट व्यवसाय स्टॉक के मूल्य को बढ़ावेंगे। |
| केईआइ इण्डस्ट्रीज | ♦ केईआइ स्टेनलेस स्टील वायर्स, केबल्स एवं वाइडिंग वायर्स का निर्माण करती है। विद्युत उत्पादन के साथ-साथ प्रेषण तथा वितरण क्षेत्र में निवेश से केआइएल को लाभ प्राप्त होगा। इन सबके बल पर हम अपेक्षा करते हैं कि केआइएल के राजस्व तथा लाभ में विव06-08ई में क्रमशः 66% तथा 63% सीएजीआर से वृद्धि होगी। |
| एनआइआइटी टेक. | ♦ एनआइआइटी ने अपने सॉफ्टवेयर व्यवसाय को जून 2004 से एक अलग कंपनी के रूप में व्यवस्थित किया है। इसने तीन मुख्य इण्डस्ट्री डोमेन्स पर ध्यान केन्द्रित किया है तथा पुनर्संरचना द्वारा ग्राहक आधार को संघटित करने से लाभ प्राप्त होगा। |
| पीएनबी | ♦ बैंकिंग क्षेत्र में पीएनबी के पास निम्न लागत वाली एक बेहतर जमा-प्रणाली (कुल जमा-आधार का 49%) है। 0.5% शुद्ध एनपीएज के साथ इसकी संपत्ति आधार काफी बेहतर है। मजबूत रिटेल पार्टनर्स तथा टेक्नोलॉजी पर फोकस, इसके ऋण तथा शुल्क व्यवसायों को आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। बहरहाल बढ़ती हुई दर के माहौल में एएफएस बॉण्ड पोर्टफोलियो का उच्च स्तर बैंक के खतरा उत्पन्न कर सकता है। |
| रत्नामणि मेटल | ♦ रत्नामणि देश में स्टेनलेस स्टील (एसएस) ट्यूब्स एवं पाइप्स का सबसे बड़ा निर्माता है। इसके ग्राहकों (बीएचईएल एवं एल एण्ड टी को सम्मिलित करते हुए) की जबरदस्त मांग तथा रु.376 करोड़ के जबरदस्त आदेश से हम अपेक्षा करते हैं कि विव2006-08 में कंपनी के राजस्व एवं अर्जन क्रमशः 47% एवं 45% सीएजीआर से बढ़ेगा। |

| | |
|-------------------------------|--|
| संघवी मूवर्स | <ul style="list-style-type: none"> ♦ संघवी मूवर्स एशिया में भाड़े पर क्रेन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यह कैपेक्स चक्र में श्रेष्ठ परिसंपत्ति की कंपनी है। क्रेन्स का उपयोग, निवेश खर्च एवं भारतीय कंपनियों की परियोजनाओं का महत्वपूर्ण भाग हैं, जो कंपनी के लिए उपयुक्त है। इसका जबरदस्त नगद प्रवाह इसे आकर्षक निवेश बनाता है। |
| सारेगामा इण्डिया | <ul style="list-style-type: none"> ♦ सारेगामा संगीत एवं गृह मनोरंजन के कारोबार में है। इसके पास विभिन्न भाषाओं में 3 लाख गानों का भण्डार है। हम अपेक्षा करते हैं कि दूरसंचार सेक्टर में मूल्य बढ़ाने वाली सेवाओं में जबरदस्त विकास तथा रेडिया ब्रांडकास्ट सेक्टर के विस्तार के साथ अभौतिक रूप में म्यूजिक की बिक्री से सारेगामा की आय में मजबूत बढ़त होगी। |
| सेलन एक्सप्लोरेशन | <ul style="list-style-type: none"> ♦ सेलन तेल अन्वेषण तथा उत्पादक कंपनी है जिसके पास तेल से भरपूर गुजरात स्थित <i>कैम्बे बेसिन</i> में पांच ऑयल फील्ड्स हैं। कंपनी के <i>बकरोल</i> एवं <i>लोहर</i> तेल क्षेत्र में तेल भंडार विकसित करने के संदर्भ में उठाये गये कदम से उत्पादन क्षमता में विशेष बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे स्टॉक की दर पुनः निर्धारित होगी। |
| साउथ ईस्ट एशिया | <ul style="list-style-type: none"> ♦ सीमेक अपने तीन एमएसवीज के बेड़ों के साथ, जो अन्तर्जालीय पाइपलाइन की संरचना एवं अनुसंधान सेवाओं के लिए तेल कंपनियों के द्वारा परिनियोजित हैं, ईएंडपी खर्चों में उछाल एवं एमएसवीज के लिए उच्च किराया दरों से सीधे तौर पर लाभ कमाती है। सीमेक ने हाल ही में एक वेसल खरीदा है, जिसे डाइविंग सपोर्ट वेसल्स में परिवर्तित किया जा रहा है तथा कैलेण्डर वर्ष 07 की तीसरी तिमाही से इसका परिचालन आरंभ हो जायेगा। यह कंपनी के समस्त कार्य-निष्पादन को आगे बढ़ायेगा। |
| सुब्रोज | <ul style="list-style-type: none"> ♦ सुब्रोज भारत में ऑटोमोबाइल एयर कंडिशनिंग सिस्टम्स का सबसे बड़ा एकीकृत निर्माता है। यह अपेक्षा की जाती है कि यह यात्री वाहन खण्ड में उत्पादकता का सबसे अधिक लाभ उठायेगा। मारुति उद्योग एवं टाटा मोटर्स, जो अपने क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, उनकी वृद्धि-योजनाओं पर यह पूरी तरह से क्रियान्वित है। यह आगामी दो वर्षों में अपनी क्षमताओं को दोगुना करने की योजना बना रही है, जो इसके वृद्धि-संवेग को कायम रखेगा। |
| सन फार्मा | <ul style="list-style-type: none"> ♦ सन फार्मा क्रोनिक चिकित्साओं (कंपनी की घरेलू संरूपण बिक्री में 70% का योगदान) में अपनी अग्रणी स्थिति की मदद से घरेलू फार्मा बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसके इलावा, अमरीकी कंपनी, कैराको तथा घरेलू एवं आरओडब्ल्यू बाजारों में जबरदस्त वृद्धि के बल कंपनी का वृद्धि-संवेग कायम रहने की उम्मीद की जाती है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में आरएंडडी पाइपलाइन के प्रकटीकरण से निवेशकों के मूल्य खुलने की संभावना बन गई। |
| सूर्या फार्मा | <ul style="list-style-type: none"> ♦ सूर्या फार्मा उच्च मार्जिन वाले उत्पाद समूह की ओर स्थानांतरित हुआ है। सेफालोस्पोरिन का अवसर इस फार्मा कंपनी के लिए बेहतर साबित होगा। |
| अल्ट्राटेक सीमेंट | <ul style="list-style-type: none"> ♦ देश भर में सीमेंट की दृढ़ कीमतों तथा उच्चतर वॉल्यूम्स से अल्ट्राटेक जबरदस्त लाभ उठायेगा। क्षमता उपयोगिता तथा लागत कम करने वाले मापदंडों में सुधार (जैसाकि इसने कैपिटव पॉवर प्लांट्स को बैठाया है) से इसके वॉल्यूम्स में बढ़त हुई है। ग्रासिम के साथ इसकी सहक्रिया से किराया लागत में कमी एवं मार्जिन में सुधार होगा। ये सभी इसके परिचालन मार्जिस में सुधार लायेंगे। |
| यूबीआई | <ul style="list-style-type: none"> ♦ यूनियन बैंक के पास पूरे भारत में शाखाओं का मजबूत जाल बिछा हुआ है। विव2007 तक शुद्ध एनपीएज घटक 1.2% तक जाने की अपेक्षा है। मैच्युरिटी खण्ड में जबरदस्त निवेश पोर्टफोलियो के साथ, यूबीआई ब्याज दर में हो रही बढ़ोतरी से पूरी तरह सुरक्षित है। विव2006-08ई के बीच 17.8% औसत आरओई के साथ, बैंक आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध है। |
| यूनिवर्सल केबल्स | <ul style="list-style-type: none"> ♦ इण्डियन पॉवर केबल खण्ड में यूनिवर्सल केबल्स भारत की एक अग्रणी कंपनी है तथा आगामी दो वर्षों से पॉवर केबल की बढ़ रही विशाल मांग का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रही है। इसके पास रु.34 प्रतिशेयर मूल्य का समूह कंपनियों में निवेश है। |
| वॉकहार्ट | <ul style="list-style-type: none"> ♦ अमरीका में नये उत्पादों के लांच तथा घरेलू कारोबार में मौजूद दीर्घकालिक संवेग के बल पर वॉकहार्ट के लिये बेहतर विकास की उम्मीद की जाती है। हाल ही में हुए <i>नेगमा लैबोरेट्रीज</i> के अधिग्रहण से कंपनी को विकास की एक नई दिशा मिलेगी, जैसाकि मुनाफे की शुरुआत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, यूएस, ईयू एवं अन्य क्षेत्रों में बायो-सिमिलर की अनुमति मिलने की संभावना है, जो वॉकहार्ट को मध्यावधि से दीर्घावधि तक विकास के पथ पर कायम रखेगा। |
| वल्वर्स पिक | |
| इसैब इण्डिया | <ul style="list-style-type: none"> ♦ इसैब इण्डिया का निम्न मार्जिन, उच्च वॉल्यूम वाले उत्पादों से परिवर्तित होकर उच्च मार्जिन एवं अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादों में अपनी स्थिति बना रहा है। इसके उत्पादन खण्ड में दो अंकीय वृद्धि इलेक्ट्रोड्स तथा वेल्डिंग उपकरणों के व्यवसाय में मदद करेगी। |
| ओरिएण्ट पेपर एण्ड इण्ड | <ul style="list-style-type: none"> ♦ पेपर तथा सीमेंट दोनों व्यवसाय में विस्तार से ओरिएण्ट पेपर बेहतर लाभ कमायेगा। विकसित ब्लेंडिंग एवं कैपिटव पॉवर प्लांट से सीमेंट कारोबार के वॉल्यूम में वृद्धि होगी, जो सीमेंट खण्ड के मुनाफे को बढ़ायेगा। पेपर के मूल्य में उछाल तथा क्षमता-विस्तार कंपनी के पेपर खण्ड के लिए काफी बेहतर संकेत हैं। कंपनी ने रु.100 करोड़ का निवेश भी किया है। |
| डब्ल्यूएस इण्डस्ट्रीज | <ul style="list-style-type: none"> ♦ डब्ल्यूएस आइ इन्स्युलेटर्स बनाने वाली अग्रणी कंपनी है, जो भारत के टी एण्ड डी सेक्टर में हुए निवेश से मुनाफा कमाने के लिए तैयार है। रु.110 करोड़ का जबरदस्त आदेश बुक तथा उच्चतर मार्जिन वाले उत्पाद, हॉलो इन्स्युलेटर्स की तरफ झुकाव इसके अर्जनों को चालित करेगी। यह चेन्नई में 10 लाख वर्ग फीट आइटी पार्क के विकास की योजना बना रही है। रियल्टी उद्यम में इसकी वर्तमान 59% हिस्सेदारी रु.29.1 प्रतिशेयर के मूल्य के बराबर निकलता है। |
| कैननबॉल | |
| इलाहाबाद बैंक | <ul style="list-style-type: none"> ♦ इलाहाबाद बैंक के पास देश भर में 1,933 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है। भारत के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में इसकी जबरदस्त पकड़ है। बैंक के पास केवल 35% निवेश पोर्टफोलियो बिक्री वर्ग के लिए उपलब्ध है तथा इसकी अवधि 3.7 वर्ष है। इसके साथ ही बैंक ने बढ़ रही ब्याज दरों के जोखिम से अपने निवेश पोर्टफोलियो को बहुत-अच्छी तरह जोखिम-मुक्त किया है। विव2006-08ई के दौरान 24% औसत आरओई के साथ बैंक आकर्षक मूल्यांकन पर उपलब्ध है। |
| आन्धा बैंक | <ul style="list-style-type: none"> ♦ आन्धा बैंक के पास देश भर में 1,200 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है। भारत के दक्षिणी क्षेत्रों (खासकर आन्ध्र प्रदेश) में इसकी जबरदस्त पकड़ है। बैंक के पास केवल 32% निवेश पोर्टफोलियो बिक्री वर्ग के लिए उपलब्ध है तथा इसकी अवधि 2.3 वर्ष है। इसके साथ ही बैंक ने बढ़ रही ब्याज दरों के जोखिम से अपने निवेश पोर्टफोलियो को बहुत-अच्छी तरह जोखिम-मुक्त किया है। हम अपेक्षा करते हैं कि विव2006-08 के दौरान इसके मुख्य राजस्व में 17.1% तथा आय में 12.2% की जबरदस्त वृद्धि होगी। |
| सिप्ला | <ul style="list-style-type: none"> ♦ विश्वस्तरीय कंपनियों के साथ अनुबंध एवं निम्न आर एण्ड डी लागत इस फार्मा कंपनी को चालित करेगी। सिप्ला के पास एसा बिजनेस मॉडल है, जो फार्मा क्षेत्र की कुछेक कंपनियों के पास उपलब्ध है। इसके साथ, सिप्ला एआरवी बनाने वाली सबसे सस्ती कंपनी है, जिससे कंपनी विश्वभर में एंटी-एड्स फोकस का लाभ उठा सकती है। |

- गेटवे डिस्ट्रिब्यूटर्स** ♦ गेटवे एक अग्रणी पोर्ट-आधारित लॉजिस्टिक प्रदाता कंपनी है, जिसके पास 25% की बाजार हिस्सेदारी के साथ, देश के सबसे बंदरगाह - जेएनपीटी पर जबरदस्त उपस्थिति है। जेएनपीटी के निकट एक सीएफएस के परिचालन हेतु कंपनी ने पंजाब सरकार से एक 15 वर्षीय ठेका प्राप्त किया है जिससे आने वाले दिनों में कंपनी की वॉल्यूम-वृद्धि बढ़ने की उम्मीद की जाती है। रेल परिचालन व्यवसाय में कंपनी का प्रवेश लंबे समय में इसकी आय में इजाफा कर सकता है।
-
- इंटरनेशनल कॅम्बश्चन** ♦ इंटरनेशनल कॅम्बश्चन गीयर मोटर्स एवं बॉक्सेज, पॉलिमर्स, हेवी इंजीनियरिंग उपकरणों आदि का निर्माण करने वाली एक उत्तम कंपनी है। इण्डिया इंक के वर्तमान कैपेक्स योजना, जो खासकर शक्कर एवं स्टील इण्डस्ट्रीज के लिए है, उसपर क्रियान्वित है। गीयर मोटर्स में उभर रही आउटसोर्सिंग प्रणाली से इसके अर्जनों में जबरदस्त बढ़त होगी। इसके पास रु.64 करोड़ का बेहतर ऑर्डर बुक है, जो विव2006 के राजस्व के 1.0x के बराबर है तथा यह अर्जनों की दृश्यता को स्पष्ट करता है।
-
- जेके सीमेंट्स** ♦ सीमेंट की दृढ़ कीमतें तथा नवीनतम क्षमता-विस्तार से वॉल्यूम में हुई वृद्धि **जेके सीमेंट्स** की शुद्ध बिक्री में इजाफा करेंगे। सीपीपी एवं वेस्ट हीट रिकवरी इकाई की स्थापना से विद्युत लागत में कमी आई है, इससे कंपनी के मार्जिन में विशेष सुधार होगा।
-
- मद्रास सीमेंट** ♦ **मद्रास सीमेंट** सीमेंट की सर्वाधिक कुशल उत्पादकों में से एक है। दक्षिण क्षेत्र में सीमेंट की मजबूत खपत से कंपनी के अर्जन में बढ़त कायम रहेगी। कंपनी की वर्तमान क्षमता में 4 मिलियन टन का विस्तार भविष्य में कंपनी के वॉल्यूम को काफी बढ़ायेगा।
-
- श्री सीमेंट** ♦ **श्री सीमेंट** उत्तर क्षेत्र की अग्रणी सीमेंट उत्पादक कंपनी है। 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का नवीनतम विस्तार तथ अगले 18 माह के दौरान 4 एमएमटी के अतिरिक्त विस्तार के बल पर अगले दो वर्षों में कंपनी का वॉल्यूम 22.1% सीएजीआर से बढ़ेगा। कंपनी का मजबूत नकद अंतर्वाह, सीमेंट चक्र में आई गिरावट को संभाल लेगा।
-
- टीसीआइएल** ♦ **टीसीआइएल** एक अग्रणी लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता है। यह अपने उच्च-वृद्धि वाले लॉजिस्टिक व्यवसाय एवं उच्च-मार्जिन वाले एक्सप्रेस कारगो व्यवसाय पर सही ढंग से ध्यान केन्द्रित कर रहा है। लॉजिस्टिक व्यवसाय में घातीय वृद्धि तथा एक्सप्रेस कारगो व्यवसाय से वृद्धिपरक राजस्व के बल पर इसके अर्जनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की अपेक्षा की गई है। 4 अभिज्ञात स्थानों पर संपत्ति के विकास की योजना, कंपनी के स्टॉक मूल्य को सुरक्षित रखेगी।

शेअरखान पार्टनर्स

| |
|--|
| अगरतला श्री दिपेन सरकार फोन: [0381] 2314095 |
| अकोला श्री राजू भाटिया फोन: [06724] 2432595 |
| अलाहाबाद श्री रमेश सोनी / संजय कुमार सोनी फोन: [0532] 2461512 / 2461961 |
| अल्वर श्री कुशल सचेटी / संजय सचेटी फोन: [0144] 2360880 / 3090307 / 2360670 |
| अमलनेर श्री सतीश खंडेरिया फोन: [02587] 224089 / 227559 |
| आरा श्री कमल दास / सुश्री गुंजिता दास फोन: [06182] 238885 / 237745 / 559966 |
| असिकेर श्री जगन एम दास / श्री बी आर श्रीनिवास प्रसाद फोन: [08174] 430345 / 430990 |
| औरंगाबाद श्री किशोर सोनी फोन: [0240] 336780/339627/361240 |
| श्री महेश रेंगुटवार / श्री राहुल जंबाद फोन: [0240] 2336311 / 2344320 |
| व्हराडच श्री एच. पी श्रीवास्तव फोन: [05252] 228284 / 228285 |
| बलरामपुर श्री कामेश्वर गुप्ता फोन: [05263] 234740 / 234520 |
| बंगलोर श्री बी. जी. अनिरुद्ध फोन: [080] 26560931/26560938/26564591 |
| श्री मलार आनंद फोन: [080] 23548398 / 41544577 / 41532382 |
| श्री पंकज बफना / श्री भावेश मेहता फोन: [080] 23445136 / 41136914 |
| श्री नागेन्द्र गुप्ता प्रशांत फोन: [080] 26522725 / 26522736 |
| सुश्री लक्ष्मी जयाराम फोन: [080] 41247101 / 22216158 |
| श्री विनोद महाजन फोन: [080] 32002235 / 57689123 / 26719287 |
| बेवर सुश्री ममता चौहान / श्री राजेंद्र चौहान फोन: [01462] 325855 / 512915 / 510315 |
| बेलगाम श्री समीर / श्री चंद्रकांत अंबेकर फोन: [0831] 2427077 / 2427978 / 4206399 |
| बेतिया श्री नीरज चौधरी फोन: [06254] 241512 / 522 / 234246 / 238733 |
| बैतूल श्री विवेक अग्रवाल फोन: [07141] 233233 / 234533 / 329415 |
| भरुच श्री अमित लुहारूका / श्री जुबिन जंबुसरवाला फोन: [02642] 226243 / 226244 / 327642 |
| भिलवाड़ा श्री अतुल गोयल फोन: [01482] 247868 / 321868 |
| भीमावरम श्री पी श्रीनिवास राव फोन: [08816] 221011 / 221033 / 221044 |

| |
|--|
| भिनमाल श्री संजय जैन / सुश्री बबीता जैन फोन: [02969] 220050/221850 |
| भुवनेश्वर श्री अशोक के त्रिपाठी फोन: [0674] 2536821 / 2533618 / 2533598 |
| श्री अशोक त्रिपाठी फोन: [0674] 2302607 / 3098968 |
| बोकारो स्टील सिटी श्री मिहीर कुमार झा फोन: [06542] 231087/ 92 / 233716-21 |
| कालिकट श्री मोहन दास फोन: [0495] 2741962 / 3043331 |
| चकुलिया श्री प्रभात कुमार लोधा फोन: [06594] 233393 / 233200 |
| चेन्नई श्री केसरीचंद सेठिया फोन: [044] 5386019 / 5387188 |
| श्री शम्भुपराज ज्ञानसेल्वी फोन: [044] 42029037 / 38 / 39 |
| श्री प्रसाद फोन: [044] 23451091/92 / 43554458 / 61 |
| श्रीमती हेमामालिनी चंद्रशेखर / श्री एस आर चंद्रशेखर फोन: [044] 24328413 / 42111352/ 42111353 |
| श्री अरविधन एम फोन: [044] 42023724 |
| छपरा श्री रवि गुप्ता फोन: [06152] 232994 / 221936 |
| कोयंबटूर श्री मदनलाल आर टकरेल फोन: [0422] 4370411 / 511 / 611 / 811 |
| श्री पलानीस्वामी / श्री पी एस सैंथिल कुमार फोन: [044] 4216406 / 07 |
| कटक श्री अशोक त्रिपाठी / बिचित्र प्रमाणिक फोन: [0671] 2431451 / 2431452 / 2431453 |
| धनबाद श्री धीरज फोन: [0326] 2301714 / 15 |
| धुले श्री जगदीश अग्रवाल फोन: [02562] 237676 / 237576 |
| गांधीनगर श्री उर्विश शाह फोन: [02712] 30583058 |
| गोधरा श्री भाविन पटेल फोन: [02672] 249791 / 92 / 93 / 326555 |
| गोंडा (उ.प्र.) श्री कामेश्वर गुप्ता फोन: [05262] 223150 / 224560 / 221504 |
| हावड़ा श्री स्नेहाशिष राय / श्री सोमेन फोन: [033] 26786351 |
| हुबली सुश्री नंदा उमरानी फोन: [0836] 4256666 / 4256338 / 37 / 39 |
| हैदराबाद श्री लक्ष्मी अनंत फोन: [040] 32950585 / 985 |
| श्री यासूब अब्बर हुसैन / श्री गुलाम मुहम्मद हाशिम फोन: [040] 24574114 / 24514610 / 55710065 |

| |
|---|
| जबलपुर श्री सोरभ बेर्डिया फोन: [0761] 4007775 / 4017877 |
| इंदौर श्री दिलीप बगोरा फोन: [0731] 4067967 |
| जबलपुर श्री सोरभ बेर्डिया फोन: [0761] 4007775 / 4017877 |
| जयपुर श्री सचिन सिंघल फोन: [0141] 5114137 / 3230943 |
| जालंधर श्री गौरव मित्तल / श्री गुरप्रीत चुग फोन: [0181] 5055201-4 |
| जम्मू श्री अजय कपूर फोन: [0191] 2574145/2548971 |
| जमशेदपुर श्री दिलीप अग्रवाल फोन: [0657] 2426182 / 2428034 / 2235903 |
| झांसी श्री तरुण गांधी फोन: [0510] 2446751 / 53 / 54 |
| जुनागढ़ श्री हिरेन मेहता फोन: [0285] 3295429 / 3295506 |
| काकिनाड़ा श्री पी श्रीनिवास राव फोन: [0884] 385191 / 92 |
| कांचिपूरम श्री के. एस. सरावानन फोन: [044] 27231809 - 27231754 |
| कंकड़ोली श्री कुशग्रा मेहता / श्री साकेत शर्मा फोन: [02952] 329330 / 329331 / 329334 |
| कानपुर श्री ललित सिंघल फोन: [0512] 2357048 / 2357049 |
| श्री गिरीश चंद्र टंडन फोन: [0512] 2364535 |
| कराडकुडी सुश्री वलिप्यन चित्र फोन: [04565] 329253 / 230806 |
| करुमथमपट्टी सुश्री के प्रवथावरथिनी फोन: [0422] 4218005 / 4218006 |
| करवार श्री उत्तम मारुति पावस्कर फोन: 9845529519 |
| किशनगंज श्री अभिषेक राठी फोन: [01463] 326755 |
| कोलकाता श्री सिबदास तपादर / श्री सुचंद्रा चौधरी फोन: [033] 5514 1949 / 2578 9022 / 2578 8516 |
| श्री कैलाश तोदी फोन: [033] 26555670/26551003/22133183 |
| श्री राजेन्द्र के. अग्रवाल फोन: [033] 22131373 / 74 |
| कुन्नमकुलम श्री चिम्मन्नूर वर्गिज / श्री पी बालाकृष्णन फोन: [04885] 223739 |
| लखिमपुर श्री संजीव वाजपयी फोन: [05872] 259681 |

| |
|--|
| ललितपुर श्री पंकज अरोड़ा / श्री संजय साभरवाल फोन: [05176] 274397 / 274398 |
| लखनऊ श्री शरद गुप्ता फोन: [0522] 3952216/3952217/2616475 |
| श्री अनुपम अटल फोन: [0522] 287000 / 7001 / 7002 |
| श्री मनीश गुप्ता फोन: [0522] 2201626 / 2231056 / 3290325 |
| श्री कुलदीप दरबारी फोन: [0522] 2257721 / 2259064 |
| श्री प्रशांत खुंटिया फोन: [0522] 3234465 / 4017698 / 4006506 |
| श्री सुकेश कुशावाहा फोन: [0522] 5548317 |
| लखनऊ श्री संजय टकवानी फोन: [0522] 2387419 |
| श्री नीरज वर्मा / श्री सुकेश वर्मा फोन: [0522] 2326680 / 2326681 / 4003847 |
| श्री शकील अहमद खान फोन: [0522] 2288888 / 89 |
| श्री अवधेश कुमार गुप्ता फोन: [0522] 24045901 / 02 / 4045901 |
| मालेगांव श्री संजय अग्रवाल / श्री विजय अग्रवाल फोन: [02554] 329750 / 257915 |
| मंगलोर श्री प्रदीप राव / श्री गिरीश रेवणकर फोन: [824] 2441318 / 2412901-4 / 920 / 921 |
| श्री प्रदीप राव / श्री उमेश राय फोन: [824] 513554 |
| मानकपुर श्री मनीश त्रिपाठी / श्री कामेश्वर गुप्ता फोन: [05265] 231500 / 234163 |
| मारगाव श्री सुरेश फर्नांडीज फोन: [0832] 3235892 / 2710877/78 |
| मोतीहारी श्री अनिल कुमार फोन: [06252] 239398 / 239547 |
| मुजफ्फरपुर श्री मनोज लाहिया फोन: [0621] 2269982 / 84 / 3297311 |
| मैसूर श्री दिनेश भंसाली / श्री विजयराज फोन: [0821] 4262374 / 2420453 |
| नागदा श्री पवन बंका फोन: [07366] 246320 / 244252 / 248478 |
| नागपुर श्री विशाल असनानी फोन: [0712] 5615385 / 86 |
| श्री सुशील परख फोन: [0712] 525584 / 535584 |
| श्री संजय जैन फोन: [0712] 2733 858 / 857 |
| श्री पंकज भावनाजी फोन: [0712] 2766033 / 2775292 |
| श्री प्रमोद कुमार फोन: [0712] 2723487 / 2721963 / 2773905 |
| श्री समित ठक्कर फोन: [0712] 6617009 / 6613112 / 6619453 |

शेअरखान पार्टनर्स

नमकल
श्री के श्रीनिवासन
फोन: [04286] 309304

नानपाड़ा
श्री प्रशांत वैभव
फोन: [05253] 234645

नरकटियागंज
श्री सुनिल कुमार केड़िया
फोन: [06253] 242090

नासिक
श्री सुयोग खांडवे
फोन: 09890444436

नई दिल्ली
श्री तरुण बंसल
फोन: [011] 23288539 / 23243131

श्री राजीव मेहता
फोन: [011] 30888835 / 36 / 37 / 38

श्री बलेंदर सिंह नेगी
फोन: [011] 41328885 / 41328886

ऊरई
श्री संजय अग्रवाल
फोन: [05162] 252569 / 257485

पादरा
श्री मुकेश नंदलाल ठक्कर
फोन: [02662] 224664 / 224665

पत्तन
श्री श्रीपाल डी शाह
फोन: [02766] 325759 / 329873

पटना
श्री कृष्ण रूंगटा
फोन: [0612] 2213112 / 16

श्री मोहम्मद अता अशरफ
फोन: [0612] 2226495 / 2232432 / 2205334

श्री अजय कुमार
फोन: [0612] 2222649 / 5582761

श्री विवेक आनंद
फोन: [0612] 2266230

श्री रेनु बैरूलिया
फोन: [0612] 2238428

श्री अलोक कुमार
फोन: [0612] 222953/4/5

श्री राजेश चौधरी
फोन: [0612] 2616104 / 3954835 / 2623797

पावारट्टी
श्री अभिलाष रामानाथन
फोन: [0487] 2645372 / 3209047 / 2645374

पेरिनथलमत्ता
श्री नारायण पुरायन्तूर
फोन: [04933] 396839

पोडुकोटाय
श्री वेंकटचलम
फोन: [04322] 232843

पुणे
श्री वासु बालानी
फोन: [020] 27452751 / 27450698

श्री निलेश शाह
फोन: [020] 24454477 / 24458839

श्री गोपाल हरसुले
फोन: [020] 25656573

श्री एम रामाचंद्रन
फोन: [020] 27030823 / 39519655

श्री अमित अशोक घाटोल
फोन: [020] 32549348 / 25533598

श्री कलेरा संजय वाशुलाल
फोन: [020] 26452442

श्री सुहास बालचंद्र चटाने
फोन: [020] 26990406

श्री केतन अशोक शाह
फोन: [020] 30585848 / 26331485

रायपुर
श्री प्रेमचंद जैन / श्री पुखराज आर बर्डिया
फोन: [0771] 4033229 / 4049451 / 2292632

श्री विपुल कोवारी
फोन: [0771] 4001004 / 4017773

राजकोट
श्री केतन मसरानी / श्री मिहिर
फोन: [0281] 3299505

रामगढ़
श्री राजीव मुरारका
फोन: [06553] 230710

रांची
श्री प्रवीण कुमार मुरारका
फोन: [0651] 2208205 / 2309156

श्री सुविर्नॉय बनर्जी
फोन: [0651] 3295162

रक्सौल
श्री विकास अग्रवाल
फोन: [06252] 221275

सागर
श्री एच. वी. राममूर्ति
फोन: [08183] 220055 / 44

श्री राजा जैन
फोन: [07582] 403931

शहादा
श्री नरेश लालचंद जैन
फोन: [02565] 223529 / 222707

सरनी
श्री वैभव अग्रवाल
फोन: [07146] 278488 / 277499

सीतामढ़ी
श्री शिव कुमार सर्वांगी / श्री निखिल गोनका
फोन: [06226] 252400 / 256384

श्री गंगानगर
श्री दिनेश सिंघल
फोन: [0154] 2475510 / 2471881-882

श्रीनगर
श्री इश्राद मुस्ताक काष्
फोन: [0194] 2485730 / 2485733

सुमेरपुर
श्री भरत कुमार
फोन: [02933] 252971 / 254392

सूरत
श्री बिरेंन छत्रपति
फोन: [0261] 5537174-73 / 2772114

श्री श्रेयस श्रॉफ
फोन: [0261] 2474400 / 3215800

थिरुवल्ला
श्री जैकब वर्की / श्री विजय कुमार के के
फोन: [0469] 2631046 / 2631048

त्रिचुर
श्री टी आर गंगाधरन
फोन: [0487] 2605877

श्री के वेणुगोपाल
फोन: [0487] 2402475 / 2399501
फोन: [0487] 2425098 / 3950724

तिरूनेलवल्ली
श्री एम कामेश्वरम
फोन: [0462] 2320544 / 545 / 549

त्रिपुर
श्री बी जागन
फोन: [0421] 4322656 / 4322356

त्रिचि
श्री मोती पद्मानाबन
फोन: [0431] 2700997 / 4011131

उदयपुर
श्री अनंत अचार्य
फोन: [0294] 2426945/6/ 3292512

श्री नरेंद्र हरकावत
फोन: [0294] 5121322/2567667

ऊतरोल्ला
श्री फूलचंद द्विवेदी
फोन: [05265] 253277 / 253278

वडोदरा
श्री विरेश चंद्रकांत ठक्कर
फोन: [0265] 2233457 / 2233460

श्री तेजस शाह
फोन: [0265] 2783040 / 3013040

श्री मोहित सदारंगानी
फोन: [0265] 5549699 / 2290704

श्री भरतभाई पटेल
फोन: [0265] 2711647/2713648/5539684

श्री मित्तल नाइक
फोन: [0265] 5545557 / 5505001

वाराणसी
श्री लालजी चौबे
फोन: [0542] 2507621 / 2507619

वास्को
श्री पराग मेहता
फोन: [0832] 2512361

विजयवाड़ा
श्री श्याम / श्री नार्गेद कुमार
फोन: [0866] 2550713 / 2554811

विशाखापट्टनम
श्री वी वेंकटराम
फोन: [0891] 5566541 / 2566541 / 2566527

मुंबई
श्री मनोज लालवानी (अंधेरी)
फोन: [022] 26351629 / 26351653

श्री अभिजित पेरीवाल (अंधेरी)
फोन: [022] 26733643-44/530218968-69

श्री दीपेन शाह / श्री आशीष शाह
फोन: [022] 23610772 / 23610773 / 361 1073

श्री हर्षवर्द्धन अजित कुमार गांधी (भयंदर)
फोन: [022] 39317801 02 / 03/ 28041076

श्रीमती छाया भेड़ा / श्री विपुल भेड़ा (दादर)
फोन: [022] 2418 0561 - 63

श्री जगदीश वी. गाडा (वहिसर)
फोन: [022] 28282306 / 28281308

श्री प्रकाश वी गोर (डोंबिवली)
फोन: [0251] 5617530 / 2862890 / 895

श्री सचिन मोराखिया (फोर्ट-होर्निमन सर्कल)
फोन: [022] 2265 9327/ 2265 8422

श्री सलोमी ए. शाह (फोर्ट-अली चेम्बर्स)
फोन: [022] 2270 3909/11

श्री सोमिन संगानी (फोर्ट-जीवन उद्योग बिल्डिंग)
फोन: [022] 2207 7566 / 2207 0427

श्री प्रेमल संघवी (फोर्ट-महेन्द्र चेम्बर्स)
फोन: [022] 56632921

श्री निखिल शाह (फोर्ट)
फोन: [022] 22871500 / 22041050

श्री राजीव शेट (फोर्ट)
फोन: [022] 22722781 / 82

सुश्री मोनिशा मेहता / श्री गौरव शाह (घाटकोपर)
फोन: [022] 55768801/2 /21 / 25100068

श्री हेम तेजुजा (जुहू)
फोन: [022] 56777364 / 5

श्री हेमन्त कुमार गर्ग (माहीम)
फोन: [022] 24456715 / 24466291

श्री इन्दु महेन्द्र पुरोहित (मलाड)
फोन: [022] 28806704 / 28823510

श्री चेतन मियानी/श्रीमति नैना मियानी (मिरा रोड)
फोन: [022] 2813 1522 / 28130220

श्री किशोर शाह (प्रभादेवी)
फोन: [022] [022] 66662444

सुश्री दिवेश कपाड़िया (सांताक्रूज)
फोन: [022] 26616085 / 30937739

श्री संजय येवले (थाने)
फोन: [022] 25379061 / 25375135

श्री सुनिल दुधानी (उल्हासनगर)
फोन: [0251] 2570700 / 2563535

दावा अस्वीकार "इस दस्तावेज को शेअरखान लि. (शेअरखान) द्वारा तैयार किया गया है. यह दस्तावेज बिना पूर्व सूचना के परिवर्तनों के विषयाधीन है तथा केवल उस व्यक्ति या इकाई के लिए है जिसे यह संबंधित किया गया हो तथा इसमें गोपनीय और/या विशेषाधिकार सामग्री हो सकती है एवं यह किसी प्रकार के परिचालन के लिए नहीं है. कोई समीक्षा, पुनः प्रसारण या कोई अन्य उपयोग निषिद्ध है. कृपया नोट करें कि यह दस्तावेज किसी वित्तीय इंस्ट्रुमेंट्स की विक्री या खरीद का प्रस्ताव या आमंत्रण नहीं देता है अथवा किसी सौदे की अधिकारिक पुष्टि नहीं है.

हालांकि समस्त ग्राहकों को यह एक साथ प्रेषित की जाती है, तथापि जल्द ही कि सभी ग्राहकों को यह रिपोर्ट एक ही समय पर प्राप्त हो. शेअरखान द्वारा इस रिपोर्ट के प्राप्तकर्ताओं को केवल रिपोर्ट प्राप्त होने के गुण से ग्राहक नहीं माना जाएगा.

यहां शामिल की गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों या अन्य स्रोतों के आधार पर है जिन्हें विव्यसनीय माना जाता है. यद्यपि हम यहां निहित जानकारी को समय-समय पर अद्यतन करने की कोशिश करते रहेंगे तथापि शेअरखान, इसकी सहायक एवं सहयोगी कंपनियों, इनके निदेशकगण तथा कर्मचारीगण ("शेअरखान और सहयोगी") के लिए जानकारी को अद्यतन करने तथा वर्तमान स्तर पर बनाए रखने की कोई बाधता नहीं है. साथ ही नियामक, अनुपालन या अन्य कारण भी ऐसे हो सकते हैं जो कि शेअरखान एवं इसके सहयोगियों को इससे रोकें. हम ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं कि यहां निहित जानकारी यथार्थ है या सम्पूर्ण है तथा इस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए. यह दस्तावेज केवल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है तथा निवेश निर्णय के लिए निर्दिष्ट निर्णय के लिए आधार जाना चाहिए. यहां निहित जानकारी के उपयोग का पूरा जोखिम इस्तेमालकर्ता पर होगा. इस दस्तावेज के प्रत्येक प्राप्तकर्ता को इस दस्तावेज में संदर्भित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन पर पहुंचने के लिए यथा आवश्यक जल्द ही छानबीन करनी चाहिए (स्वियों और जोखिमों के आधार पर), तथा निवेश के गुणों व जोखिमों का निर्धारण करने के लिए अपने सलाहकारों के साथ परामर्श करना चाहिए. चर्चा किए गये निवेश या ब्यक्त किए गए विचार सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं भी हो सकते हैं. हम अपने विचारों को किसी प्रकार के परिवर्तन की आपकी सूचना देने की घोषणा नहीं करते हैं. शेअरखान के सहयोगी अन्य रिपोर्ट्स जारी कर सकते हैं जिसमें कि भिन्नता हो तथा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी से जो भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचते हों.

यह रिपोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई को वितरण हेतु निर्देशित अथवा अभिहित नहीं है जो कि किसी ऐसे स्थान, राज्य या देश या अन्य न्यायधिकार क्षेत्र का नागरिक या निवासी हो, जहां ऐसा वितरण, प्रकाशन, उपलब्धता या इस्तेमाल करना, या विनिमय के प्रतिबन्ध हो या जिसके लिए शेअरखान तथा उसके सहयोगियों को ऐसे न्यायधिकार क्षेत्र में किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती हो. यहां उल्लिखित प्रतिभूतियां समस्त न्यायधिकार क्षेत्रों या कुछ विशेष निवेशक वर्गों के लिए विक्री हेतु उपयुक्त नहीं भी हो सकती है जो व्यक्ति इस दस्तावेज को प्राप्त करते हैं उन्हें ये जानकारीयां हासिल करनी चाहिए तथा इन प्रतिबन्धों का पालन चाहिए.

शेअरखान तथा सहयोगी द्वारा यहां दी गई जानकारी के प्रकाशन से पूर्व इनका उपयोग किया गया हो सकता है तथा इनमें उनकी स्थितियों हो सकती हैं, वे समय-समय पर इनमें खरीदारी या विक्री कर सकते हैं तथा यहां उल्लिखित किसी प्रतिभूतियां संबंधित प्रतिभूतियों में भीतिक रूप से इच्छुक हो सकते हैं. शेअरखान समय-समय पर यहां उल्लिखित किसी कंपनी से निवेश बैंकिंग या किसी अन्य सेवाओं हेतु याचना कर सकते हैं अथवा उनके लिए कार्य कर सकते हैं. उपरोक्त के कुछ भी सीमित किए बिना, किसी भी दसा में शेअरखान, इसके कोई भी सहयोगी या शामिल कोई तृतीय पक्ष या कोई भी सम्वद्ध, सूचना की गणना या संकलनकर्ता की किसी प्रकार की क्षतियों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. यहां दी गई टिप्पणियां या कबन्धन विवेलेषक के हैं तथा अनिवार्यतः शेअरखान के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

शेअरखान की शाखाएं

अहमदाबाद - मनिनगर

1 मंगल भवन, इशाबेन वाड़ी, कंकरिया रोड, मनिनगर, अहमदाबाद-380 008. फोन: (079) 65410 102 / 829 / 831. ई-मेल: pateshpatel@branch.sharekhan.com

अहमदाबाद - नवरंगपुरा

201/202-डायनेमिक हाउस, विजय क्रॉस रोड के निकट, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009. फोन: (079) 66060141. ई-मेल: pateshpatel@branch.sharekhan.com

अजमेर

11/195, राडॉंडा, कचहरी रोड, अजमेर-305 001. फोन: (0145) 6100919 / 6100920 / 2422665.

इलाहाबाद

1ली मंजिल, दुकान सं. 14-15, वशिष्ठी विनायक टॉवर, यात्रिक होटल के समीप, ताशकंठ मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद-211 003. फोन: (0532) 6452910. ई-मेल: mayur_a@branch.sharekhan.com

अमरावती

जगदम्बा आर्केड, 2री मंजिल, अम्बा गेट के निकट, गांधी चौक, अमरावती-444 601. फोन: (0721) 2569558/ 2564673. ई-मेल: parthraja@branch.sharekhan.com

अंबाला

167/18, 1ली मंजिल, एयरटेल कार्यालय के समीप, राय मार्केट, अंबाला कैन्ट, हरियाणा-133 001. फोन: (0171) 2645376 / 77. ई-मेल: ashwani@branch.sharekhan.com

अमृतसर

5-दीप कमलेक्स, 1ली मंजिल, डोआबा ऑटोमोबाइल्स के सामने, कचहरी रोड, अमृतसर-143 001. फोन: (0183) 6451903 / 904 / 905. ई-मेल: vikramb@branch.sharekhan.com

आनन्द

एफ.5, प्रार्थना विहार कॉम्प्लेक्स, 1ली मंजिल, पंचाल हॉल के निकट, विद्यानगर रोड, आनन्द, गुजरात-388 001. फोन: (02692) 655020-23. ई-मेल: praptij@branch.sharekhan.com

आनन्द-विद्यानगर

1ली मंजिल, पीएम चैम्बर, मोटा बाजार, वल्लभ विद्यानगर, आनन्द, फोन: (02692) 655015-17 गुजरात-388 120. ई-मेल: chetanvegad@branch.sharekhan.com

अंकलेश्वर

नं. एफ-1, एफ-2 एवं एफ-3, श्री नर्मदा आर्केड, एचडीएफसी बैंक के सामने, अंकलेश्वर-393002. फोन: (02646) 227210 / 121. ई-मेल: hemangp@branch.sharekhan.com

बंगलोर - जयानगर

442/22-8, "वासवी प्लाजा", 1ली मंजिल, 11 वीं मेन, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के सामने, IV ब्लॉक, जयानगर, बंगलोर-560 011. फोन: (080) 64527428-31. ई-मेल: adityan@branch.sharekhan.com

बंगलोर - गांधीनगर

ब्रिगेड मजस्टिक, 201-ए ब्लॉक, 2री मंजिल, 25-कालिदास मार्ग, गांधीनगर, बंगलोर-560 009. फोन: (080) 64527413-15. ई-मेल: blore@branch.sharekhan.com

बंगलोर - कोरमंगला

एमरल्ड टॉवर, नं.-147, केएचबी कॉलोनी, 5वां मेन, 5वां ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलोर-560 095. फोन: (080) 64527477-79. ई-मेल: sunil@branch.sharekhan.com

बंगलोर - इंदिरा नगर

1132, आनंद एम्बेसी, 3री मंजिल, फुड वर्ल्ड के ऊपर, 100 फीट रोड, इंदिरा नगर, बंगलोर-560 038. फोन: (080) 64527465-67. ई-मेल: biju@branch.sharekhan.com

बंगलोर - मलेश्वरम

नं.-311, 2री मंजिल, 2री मेन, सैम्पिजे रोड, 15वीं एवं 16वीं क्रॉस के बीच, सैम्पिजे रोड, मलेश्वरम, बंगलोर-560 003. फोन: (080) 64527401-03. ई-मेल: venu@branch.sharekhan.com

बरदोली

303/304, मिलेनियम मॉल, सव्दार वल्लभभाई पटेल म्यूजियम के सामने, स्टेशन रोड, बरदोली-394 003. (गुजरात). फोन: (02622) 657229. ई-मेल: mehulj@branch.sharekhan.com

बरेली

148, सिविल लाइन्स, बरेली-560003. (यूपी), फोन: (0581) 6450668-74. ई-मेल: atul_v@branch.sharekhan.com

भरुच

221-227, 2री मंजिल, ड्रीम लेन प्लाजा, नगरपालिका के सामने, स्टेशन रोड, भरुच-392 001. फोन: (02642) 244998/99. ई-मेल: shailesh@branch.sharekhan.com

भावनगर

गंगोत्री प्लाजा, प्लॉट नं.-8ए, 3री मंजिल, दक्षिणमूर्ति स्कूल के सामने, वगावाड़ी रोड, भावनगर, गुजरात-364 001. फोन: (0278) 2573938/ 2573939/2571333/3201333. ई-मेल: vimalr@branch.sharekhan.com

भोपाल

मकान सं. 15-बी, 1ली मंजिल, प्लॉट सं. 9-बी, मालवीय नगर, राजभवन रोड, भोपाल-462 003. फोन: (0755) 6455904 / 6455905. ई-मेल: mahiml@branch.sharekhan.com

भुवनेश्वर

ए/बी-2री मंजिल, सेंटर प्लाइट, यूनिट सं.-3, खारवेल नगर, भुवनेश्वर-751 001. फोन: (0674) 6534373. ई-मेल: sabitri@branch.sharekhan.com

बिकानेर

102, नागपाल कॅम्प्लेक्स, 1ली मंजिल, डीआरएम ऑफिस के सामने, बीकानेर, राजस्थान-334 001. फोन: (0151) 6450803 / 6450804. ई-मेल: rahuls@branch.sharekhan.com

कालिकट

1ली मंजिल, 6/1002-एफ, सिटी मॉल, वाइएमसीए के सामने, कन्नूर रोड, कालिकट-673 001. फोन: (0495) 6450307 / 308 / 312 / 314 / 315 / 317. ई-मेल: santhu@branch.sharekhan.com

चण्डीगढ़

एससीओ 489-490, 2री मंजिल, सेक्टर-35सी, चण्डीगढ़, पंजाब-160 035. फोन: (0172) 6540 233 / 183 / 158 / 582. ई-मेल: maneet@branch.Sharekhan.com

चेन्नई - अलवारपेट

68, सी.पी. रामास्वामी रोड, 3री मंजिल, अलवारपेट, कालिकट-600 018. फोन: (044) 43009001-5. ई-मेल: sundararajan@branch.sharekhan.com

चेन्नई - चेटपेट

जी-2, साल्जबर्ग स्क्वायर, 107 हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600 031. फोन: (044) 28362800 / 2900 / 28363160. ई-मेल: prem@branch.sharekhan.com

चेन्नई - वैरिज

बेगम इस्कानी कॅम्प्लेक्स, नं.-44, अमेरिकन स्ट्रीट, वैरिज, चेन्नई-600 001. फोन: (044) 64552951-52. ई-मेल: ketanshah@branch.sharekhan.com

चेन्नई - पुरासावाल्कम

एफ-13, डॉ. राजीव टॉवर, 231/28 पुरासावाल्कम हाई रोड, गंगादिश्वर टेंपल टैंक के सामने, चेन्नई-600 007. फोन: (044) 42176004-9. ई-मेल: krishna@branch.sharekhan.com

कोयम्बटूर

विद्येश्वर क्रैटा, 2रा ब्लॉक, 3री मंजिल, 1095-अविनाशी रोड, पी एन पलायम, कोयम्बटूर-641 037. फोन: (0422) 2213434 / 2214282 / 2218252 / 4351999 / 4351997. ई-मेल: mohan@branch.sharekhan.com

ईरोड

अखिल प्लाजा, ब्लॉक नं.-1, टीएस नं.-121, पेरुदुरई रोड, पदमम रेस्टॉरेंट के सामने, ईरोड-638 011. फोन: (0424) 2241000 / 005. ई-मेल: srinivasaprabu@branch.sharekhan.com

ईरोड - गोपीचेट्टीपलायम

चामुंडेश्वरी एंजेलीज बिल्डिंग, 279, कचहरी स्ट्रीट, साथी मेन रोड, गोपीचेट्टीपलायम-638 452. फोन: (04285) 229013/14/15. ई-मेल: vijayakt@branch.sharekhan.com

फरीदाबाद

एससीएफ 16, 1ली मंजिल, आइसीआईसी बैंक के निकट, सेक्टर-15 मार्केट, फरीदाबाद-121 003. फोन: (0129) 2220825 /26/27. ई-मेल: mamta@branch.sharekhan.com

गांधीधाम

202, गोल्ड क्वाइन कम्प्लेक्स, 2री मंजिल, एलआइसी भवन के सामने, गांधीधाम-370 201. ई-मेल: kaushal.p@branch.sharekhan.com

फैजाबाद

मेहरामत प्लाजा, 4099, सिविल लाइंस, पुष्पराज गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन रोड, फैजाबाद-224401. फोन: (05278) 320720/220740/220742/220743. ई-मेल: vipin@branch.sharekhan.com

गोवा - मापुसा

सेंट एंथोनी अपार्टमेंट, तल मंजिल, शॉप नं. बी/17, फ्रीरा आल्टा, मापुसा, गोवा-403 507. फोन: (0832) 6453383 / 84 / 85 / 86 / 6521513. ई-मेल: kamath@branch.sharekhan.com

गोवा - पणजी

होटल मनोशांति बिल्डिंग, तल मंजिल, डॉ. डी. वी. रोड, पणजी, गोवा-403 001. फोन: (0832) 6453407-412. ई-मेल: shrinivasb@branch.sharekhan.com

गोरखपुर

शॉप नं.-17, 1ली मंजिल, एमपी बिल्डिंग, गोलघर, गोरखपुर-273 001. फोन: (0551) 3205066/ 3205715. ई-मेल: vineetp@branch.sharekhan.com

गुंतूर

डी.नं.-5-87-89, 2री गली, 2री मंजिल, एचडीएफसी बैंक के पीछे, लक्ष्मीपुरम मेन रोड, गुंतूर-522 007. फोन: (0863) 6452334. ई-मेल: devadasu@branch.sharekhan.com

गुडगांव

जीएफ-10, जेएमडी रीजेंट स्क्वायर, डीएलएफ फेज-II, सहारा मॉल के सामने, मेन मेहरौली रोड, गुडगांव रोड, गुडगांव-122 001. फोन: (0124) 4104555. ई-मेल: manoj@branch.sharekhan.com

गुडगांव -II

एससीएफ 89, तल मंजिल, सेक्टर-14, अर्बन इस्टेट, गुडगांव-122 001. फोन: (0124) 4115431-32 / 2305430-31.

हैदराबाद

7-1-22/3/1-5/सी, अफ़जीया टावर, 1ली मंजिल, बेगमपेट, हैदराबाद-500 016. फोन: (040) 66827469-70 (डी) 4020354. ई-मेल: naveenk@branch.sharekhan.com

हैदराबाद - बेगम बाजार

14-7-21.14-7-21ए, तल मंजिल, बेगम बाजार, एपी महेश बैंक के सामने, हैदराबाद-500 012. फोन: (040) 55742880-99. ई-मेल: syam@branch.sharekhan.com

इंदौर

102-104, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इंदौर-452 001 फोन: (0731) 6458083-098. ई-मेल: ravis@branch.sharekhan.com

जयपुर

फ्लैट नं.-401/402, 4थी मंजिल, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर-302001. फोन: (0141) 6456098 / 6456114 / 15 / 16. ई-मेल: tarun_k@branch.sharekhan.com

जामनगर - के.पी.हाऊस

के.पी. हाऊस, 2री मंजिल, धनवंत्री कॉलेज ग्राउंड, पंडित नेहरु मार्ग, जामनगर-361 008. फोन: (0288) 2541861-63. ई-मेल: paras@branch.sharekhan.com

जामनगर

4/5, अवन्तिका कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 2री मंजिल, लिंब्डा लेन कॉर्नर, जामनगर-361 001. फोन: (0288) 2554405 / 2533133 / 2671559. ई-मेल: malayp@branch.sharekhan.com

जमशेदपुर

ब्लॉक नं.14, साऊथ सेंटरल विंग, 3री मंजिल, वोल्टास हाऊस, मेन रोड, बिस्तापुर, जमशेदपुर-831 001. फोन: (0657) 2426672/2426087/2426263/2426478. ई-मेल: anup_s@branch.sharekhan.com

जोधपुर

ए-3, 1ली मंजिल, ओलिंपिक टॉवर, स्टेशन रोड, जोधपुर-342 001, फोन: (0291) 2648000 / 4 / 5. ई-मेल: vinod@branch.sharekhan.com

कोच्चि

शिकागो प्लाजा, 1ली मंजिल, राजाजी रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि-682 035. फोन: (0484) 2368411-13/17. ई-मेल: thomas@branch.sharekhan.com

कोच्चि-वैतिल्ला

थोड्डिडल प्लाजा, 31/757-डी, धम्मन रोड, वैतिल्ला जंक्शन, कोच्चि, केरल-682 019. फोन: 6460 120 / 121 / 266 / 622 / 596 / 239. ई-मेल: jose@branch.sharekhan.com

कूड्डुगलूर

1ली मंजिल, थोपिल टॉवर, प्राइवेट बस स्टैंड के निकट, चंदापुरा, कूड्डुगलूर-680 664. फोन: (0480) 2810147/157/167. ई-मेल: vinodkumar@branch.sharekhan.com

कोल्हापुर

ऑफिस नं.-5, 3री मंजिल, अयोध्या टॉवर, बिल्डिंग नं.-1.511/केएच-1/2, ई-वार्ड, डाभोलकर कॉर्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416 001. फोन: (0231) 6687063-66. ई-मेल: prakas@branch.sharekhan.com

कोलकाता

कंकरिया इस्टेट, 1ली मंजिल, 6-लिटल रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-700 071. फोन: (033) 22830055 / 22805555. ई-मेल: nileshshah@branch.sharekhan.com

कोलकाता-डलहौजी

2री मंजिल, जार्जिन हेन्ड्सन लिं, 4-डा. राजेन्द्र प्रसाद सरानी, कोलकाता-700 001. फोन: (033) 22317691 / 22317692. ई-मेल: rshagi@branch.sharekhan.com

कोलकाता-दुर्गापुर

111/95-नाचन रोड, बीनाचिट्टी, जिला दुर्दवान, दुर्गापुर, कोलकाता-713 213. फोन: (0343) 6452701/ 02 / 03. ई-मेल: sanjeevk@branch.sharekhan.com

कोलकाता-हावड़ा

42-डोबरमन रोड, प्रकाश मंशन, हावड़ा एसी मार्केट के समीप, हावड़ा-700 101. फोन: (033) 64523471-80. ई-मेल: rshagi@branch.sharekhan.com

कोलकाता-साल्टलेक

डीएल-78, सेक्टर-2, साल्टलेक सीटी, कोलकाता-700 091. फोन: (033) 23213582/2358184/1826/1830. ई-मेल: rshagi@branch.sharekhan.com

कोल्म

1ली मंजिल, ए. नारायणन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कडुप्पाकड़ा, कोल्म-691008. फोन: (0474) 2769120-25. ई-मेल: rintog@branch.sharekhan.com

लखनऊ

2/159, विवेक खांड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010. फोन: (0522) 2398604 / 4009826 से 34. ई-मेल: mradul@branch.sharekhan.com

लखनऊ - हज़रतगंज

1ली मंजिल, मेरीगोल्ड, 4-शाहानजफ रोड, हज़रतगंज, लखनऊ-226 001. फोन: (0522) 4010342-45. ई-मेल: mradul@branch.sharekhan.com

लुधियाना

3793/1, जगजीत नगर, पख्वाल रोड, डरमेश डेयरी के निकट, लुधियाना, (पंजाब) पंजाब ई-मेल: kapil@branch.sharekhan.com

मदुराई

सरन सेंटर, ए-2, 1ली मंजिल, 19, गोखले रोड, चित्राचौकिकूलम, मदुराई-625 002. फोन: (0452) 436 0303 / 436 0404. ई-मेल: skumar@branch.sharekhan.com

मेहसाना

14-15, 1ली मंजिल, प्रभु कॉम्प्लेक्स, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, राजकमल पेट्रोल पंप के निकट, मेहसाना-384002. फोन: (02762) 248980/249012/248966/ 248974. ई-मेल: rajesh.agar@branch.sharekhan.com

मंगलोर

सी-1, 1ली मंजिल, प्रेसिडियम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आनन्द शेड्डी सर्कल, अटावर, मंगलोर-575 001. फोन: (0824) 6451503 / 6451504. ई-मेल: sanal@branch.sharekhan.com

शेअरखान की शाखाएं

मैसूर

दुकान सं.-3, "मैत्री आर्केड", सरस्वती थिएटर के पास, कान्थाराज उर्स रोड, चामाराजा मुहल्ला, मैसूर-570 009. फोन: [0821] 6451601 / 02 / 04
ई-मेल: halappa@branch.sharekhan.com

नाडियाड

सार्थक बिल्डिंग, 1ली मंजिल, संतोष बिल्डिंग के पास, संतराम रोड, नाडियाड, गुजरात-387 001. फोन: [0268] 6451452-55 / 6451457-59.
ई-मेल: jaimin.patel@branch.sharekhan.com

नागपुर (सी ए)

409/412, हीरा प्लाजा, सेंट्रल एविन्यू, टेलिफोन एक्सचेंज एस्क्वाएर के पास, नागपुर-440 008 फोन: [0712] 2731922-25 / 2732448 / 2773889
ई-मेल: shailesh_k@branch.sharekhan.com

नागपुर - धरमपेट

54, पार्क रोजिडेंसी, खारे टाऊन, धरमपेट, नागपुर-440 010.
फोन: [0712] 6610752-56. ई-मेल: p.kothari@branch.sharekhan.com

नवसारी

1-निर्मल कॉम्प्लेक्स, 1-ली मंजिल, स्टेशन रोड, सयाजी रोड, नवसारी-396 445. फोन: [02637] 652300 / 652400 / 248888.
ई-मेल: amitkeshwani@branch.sharekhan.com

नासिक - अशोक स्तंभ

6-संथेती टॉवर, सर्कल सिनेमा के सामने, अशोक स्तंभ, नासिक-422 002. फोन: [0253] 6610990-999.
ई-मेल: sameerk@branch.sharekhan.com

नासिक - कॉलेज रोड

5 एस्के ओपन मॉल, योलेकर माला, बीवाइके कॉलेज के समीप, कॉलेज रोड, नासिक-422 005. फोन: [0253] 6610975 से 978 तक.
ई-मेल: mandar@branch.sharekhan.com

नई दिल्ली - सी पी

5, पूसा रोड, बाल भारती पब्लिक स्कूल के सामने, नई दिल्ली-110 001.
फोन: [011] 64603806 / 07 / 12 / 13.
ई-मेल: hemendra@branch.sharekhan.com

ई-39, 2ली मंजिल, ईनर सर्कल, पिजा हट के ऊपर, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001. फोन: [011] 66095731 / 66095705.
ई-मेल: amitpal@branch.sharekhan.com

नई दिल्ली - ग्रेटर कैलाश

एम-43, 2री मंजिल, एम-ब्लॉक, मेन मार्केट, जी के-1, नई दिल्ली-110 048
फोन: [011] 64580204-11. ई-मेल: nishant_m@branch.sharekhan.com

नई दिल्ली - पीतमपुरा

411/412, अग्रवाल साइबर प्लाजा, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110 034 फोन: [011] 64580312.
ई-मेल: jaishreegupta@branch.sharekhan.com

नई दिल्ली - कड़कड़डूमा

यूनिट नं. 504, 5वीं मंजिल, वी4 टॉवर, कम्प्यूजिट सेंटर, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली-110 092. ई-मेल: ramb@branch.sharekhan.com

नोएडा

पी-12ए, बीएचएस लिबर्टी, सेक्टर-18 , नोएडा-201 301.
फोन: [0120] 6472 476-87. ई-मेल: abhinav_n@branch.sharekhan.com

ओझापामल

1ली मंजिल, केवीएम प्लाजा, मेन रोड, ओझापामल, केरल-679 010.
फोन: [0466] 2344145/2344146/2344147.
ई-मेल: gopalakrishnan@branch.sharekhan.com

पलक्कड

1ली मंजिल, श्री लक्ष्मी विलास बिल्डिंग्स, जी.बी. रोड, पलक्कड-678 014
फोन: [0491] 6450 179 / 188. ई-मेल: ragu@branch.sharekhan.com

पुणे - एफ सी रोड

301, मिलेनियम प्लाजा, 3री मंजिल, फर्ग्यूसन कॉलेज गेट के सामने, शिवाजी नगर, पुणे-411 004. फोन: [020] 66021301 - 06.
ई-मेल: manjeetkhair@branch.sharekhan.com

पुणे - बन गाडेंन

285, तारा बाग, आइसीआइसीआइ बैंक के सामने - बंद गाडेंन रोड, कोडगांव पार्क रोड, पुणे-411 001. फोन: [020] 66039301 / 66039302.
ई-मेल: ruchik@branch.sharekhan.com

पुणे - निगडी

एबीसी प्लाजा (अग्रवाल कॉम्प्लेक्स), 2री मंजिल, प्लॉट नं-6. सेक्टर नं.-25, भेल चौक, प्राथिकरण, निगडी, पुणे-411 044. फोन: [020] 66300690-97.
ई-मेल: sagarp@branch.sharekhan.com

पुणे - सतारा रोड

404, लैंडमार्क सेंटर, एस. नं.-46/1बी+2बी, प्लॉट नं.-2. सिटी प्राइड थिएटर के सामने, पुणे-411009. फोन: 020-66206341-50.
ई-मेल: milindkher@branch.sharekhan.com

राजकोट

102/13, हेम आर्केड, विवेकानन्द स्टैच्यू के सामने, डा. यज्ञानिक रोड, राजकोट-360 001. फोन: 0281-2482483 / 84 / 85.
ई-मेल: tanna@branch.sharekhan.com

सेलम

श्री गणेश टॉवर, 561, 2री मंजिल, शारदा कॉलेज, मेन रोड, सेलम-636 007.
फोन: [0427] 6454864 / 65 / 66. ई-मेल: pandiyam@branch.sharekhan.com

सेलम (चेरी रोड)

नं.80/7 & 8, पीआइ कम्प्लेक्स, चेरी रोड, सेलम-636 007.
ई-मेल: ashokkumar@branch.sharekhan.com

सिलिगुड़ी

1ली मंजिल, कुबेर फर्निशिंग के ऊपर, देना बैंक के सामने, सीओक रोड, सिलिगुड़ी-734 001. फोन: [0353] 6453475-79.
ई-मेल: surajit@branch.sharekhan.com

सिकंदराबाद

माड़ीदीप बिल्डिंग, 1ली मंजिल, 12-5-4, विजयपुरी, सेंट एन्स कॉलेज के सामने, तारनाका, सिकंदराबाद-500 017. फोन: [040] 64533871-75.
ई-मेल: giribabu@branch.sharekhan.com

सूरत

एम-1 से 6, जॉली प्लाजा, मझली मंजिल, आठवां गेट, सूरत-395 001.
फोन: [0261] 65603 10-14. ई-मेल: zubin@branch.sharekhan.com

त्रिचि - कंटोमेंट

एफ-1, अच्युता, 111-भारतीदसन सलाय, कंटोमेंट, त्रिचि-620 001.
तमिलनाडु, फोन: [0431] 4000705 / 242810.
ई-मेल: arunj_t@branch.sharekhan.com

त्रिचुर

पूमा कॉम्प्लेक्स, एमजी रोड, त्रिपुर-680 001.
फोन: [0487] 2446971-73. ई-मेल: tvngirish@branch.sharekhan.com

तिरुपुर

राम आर्केड, नं.-27, म्यूसिफ कोर्ट स्ट्रीट, तिरुपुर-641 601.
फोन: [0421] 6454316-20. ई-मेल: nkumar@branch.sharekhan.com

त्रिवेंद्रम

लक्ष्मी बिल्डिंग, 1ली मंजिल, टी.सी.नं. 26/430, वॉनरोज रोड, त्रिवेंद्रम-695 039. फोन: [0471] 6450657 / 58 / 59.
ई-मेल: bejoy@branch.sharekhan.com

तिरुवर

कायल मेडाथिल आर्केड, तल मंजिल, नवविलंगड़ी, पुक्कड़ल बाजार, तिरुवर-676 107. फोन: [0494] 2426607/2427476/2431742.
ई-मेल: s.suresh@branch.sharekhan.com

वडोदरा

6-8/12, साकार कॉम्प्लेक्स, 1ली मंजिल, एबीएस टॉवर के सामने, हरिभक्ति एक्सटेंशन, जुना पाद्रा रोड, वडोदरा-390 015. फोन: [0265] 6649261-70.
ई-मेल: nirav@branch.sharekhan.com.

वडोदरा - मंजलापुर

1ली मंजिल, ऋतुक्लेश कॉम्प्लेक्स, तुलसीधाम चार रास्ता, दीप चेंबर्स के निकट, मंजलापुर, वडोदरा-390 011. फोन: 0265-2647970-71.
ई-मेल: lavin@branch.sharekhan.com

वापी

रॉयल फॉर्च्यून, डी-101, ई-101, 1ली मंजिल, वापी-दमन रोड, वापी-396 191.
फोन: [0260] 6452931-36. ई-मेल: jitendrap@branch.sharekhan.com

वरछा - सूरत

जी-18/19, राजहंस प्वाइंट, वरछा मेन रोड, सूरत-395 006.
फोन: [0261] 3244900. ई-मेल: mayurd@branch.sharekhan.com

विलोर

20/बी, पहली पूर्वी मेन रोड, लैण्डमार्क बिल्डिंग, 2री मंजिल, गांधी नगर, विलोर-632 006. फोन: [0416] 6454 306-310.
ई-मेल: raaghupathy@branch.sharekhan.com

विजयवाड़ा

सेच्यूरियन प्लाजा, डी.एन.40-1-129, 2री मंजिल, जुना कूलेक्स बिल्डिंग, एमजी रोड, विजयवाड़ा-520 010. फोन: [0866] 6619992-93/2493753.
ई-मेल: msyarn@branch.sharekhan.com

विज्ञाण

10-1-35/बी, 3री मंजिल, पार्वती नेनी हाऊस, वाल्तेअर अपलेण्ड्स, सीबीएम कम्पाउंडस, विशाखापत्तनम-530 003. फोन: [0891] 6673000/6671744/ 6670566/6670101. ई-मेल: mvikas@branch.sharekhan.com

वड्डा

राधे कॉम्प्लेक्स, 2री मंजिल, इंदिरा मार्केट रोड, अकोला अर्बन को.ऑ. बैंक लि., वड्डा-442001. फोन: [07152] 645023 / 24 / 25 / 26.
ई-मेल: mohan_c@branch.sharekhan.com

मुंबई - अंधेरी

समर्थ वैभव, ऑफिस नं.-114, 1ली मंजिल, ऑफ लिंक रोड, ओशिवारा, अंधेरी (प), मुंबई-400 053. फोन: [022] 56750755-58.
ई-मेल: nainesh@branch.sharekhan.com

मुंबई - बोरीवली

दुकान सं.-105/106, कपूर अपार्टमेंट, पंजाबी लेन कॉर्नर, बोरीवली (प.), मुंबई-400092. फोन: [022] 65131221-24.
ई-मेल: ilesh@branch.sharekhan.com

मुंबई - घाटकोपर

202, साई प्लाजा, 2री मंजिल, जवाहर रोड-आर.बी. मेहता मार्ग जंक्शन, घाटकोपर (पू.), मुंबई-400 077. फोन: [022] 65133960.
ई-मेल: mayur@branch.sharekhan.com

मुंबई - गोर्गांव

दुकान सं.-3, 29-सी, अनामिका, रोड नं.-7, सुवामा रेस्टॉरेट के सामने, जवाहर नगर, गोर्गांव (पं.), मुंबई-400 062.
फोन: [022] 28789471 / 28789472.
ई-मेल: nainesh@branch.sharekhan.com

मुंबई - कादिवली

अंठे सत्य साई रत्ना राजुल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एमजी रोड, कादिवली, मुंबई-400 067. फोन: [022] 67250491-95.
ई-मेल: kalpeshp@branch.sharekhan.com

मुंबई - खार

1ली मंजिल, मात्र स्मृति, प्लॉट नं०-326, लिंकिंग रोड, खार (प) मुंबई-400 052. फोन: [022] 65135333 / 65133972-76.
ई-मेल: vikramt@branch.sharekhan.com

मुंबई - लोवर परेल

“सी” फिनिक्स हाउस, 4थी मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400 013. फोन: [022] 24989000.
ई-मेल: mehuldedhia@sharekhan.com
mehulkshah@sharekhan.com

मुंबई - मलाड

फ्लैट नं. ए-1/ए-2, तल मंजिल, रोजमैरी को.ओ.हा.सो., औरलेम, मावें रोड, मलाड (प.), मुंबई-400 064. फोन: [022] 65133969.
ई-मेल: vikramt@branch.sharekhan.com

मुंबई - माटुंगा

फ्लैट नं.-4बी, तल मंजिल, अश्विन विल्ला, तेलंग रोड, माटुंगा (पूर्व), मुंबई-400 019. फोन: [022] 6513 9230/31/32.
ई-मेल: manishnagrecha@branch.sharekhan.com

मुंबई - मुलुण्ड

7-10, रुनवाल टावरस, (कॅमशियल कॉम्प्लेक्स), गोवर्द्धन नगर के सामने, एलबीएस मार्ग, मुलुण्ड (प), मुंबई-400 080. फोन: [022] 67251240-54.
ई-मेल: bhavesh@branch.sharekhan.com

मुंबई - ओपेरा हाउस

गोपेट मैशन, तल मंजिल, 89-जगन्नाथ शंकर सेठ रोड, गिरगांव, ओपेरा हाउस, मुंबई-400 004. फोन: [022] 23805177-80.
ई-मेल: jaresh@branch.sharekhan.com

मुंबई - पवई

ए-विंग, यूनिट नं.- ए 201/203/204, 2री मंजिल, गैलेरिया बिल्डिंग, हीरानंदानी गाडेंन, पवई, मुंबई-400 076. फोन: [022] 6710 1400 / 67024772-73 / 2570 5832. ई-मेल: rajiv_k@branch.sharekhan.com

मुंबई - रघुवंशी

रघुवंशी मिल्स कम्पाउंड, कृष्णा हाऊस, 3री मंजिल, एसबी मार्ग लोअर परेल (प), मुंबई-400 013. फोन: [022] 6629 7163.

मुंबई - ठाणे

गौरंगी चेंबर्स, 1ली मंजिल, दमानी इस्टेट के सामने, एल बी एस मार्ग, ठाणे-400 602. फोन: [022] 67913961-62 / 67914017-18.
ई-मेल: ashishi@branch.sharekhan.com

मुंबई - स्टॉक एक्सचेंज (रोटुंगा)

पीजी-1, तल मंजिल, रोटुंगा बिल्डिंग, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400 023. फोन: 022-24076630 से 35 (तल मंजिल)
66105600 से 15 (23वीं मंजिल)
ई-मेल: piyush@branch.sharekhan.com

मुंबई - वाशी

227, अरेंजा कॉर्नर, अंगल होटल के ऊपर, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुंबई-400 703. फोन: [022] 67122 122.
ई-मेल: prakash_s@branch.sharekhan.com

दुकान सं.-32, वेल्फेयर चेंबर्स, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुंबई-400 705.
फोन: [022] 67124657-58. ई-मेल: prakash_s@branch.sharekhan.com

मुंबई - विले पार्ले

7-अल्का को.ऑप.हाउसिंग सोसायटी, तल मंजिल, दादाभाई, विले पार्ले (प), मुंबई-400 056. फोन: [022] 26253010/11/12/13.
ई-मेल: devang@branch.sharekhan.com

पीसीजी शाखा

पीसीजी-कोलकाता

कंकरिया इस्टेट, 2ली मंजिल, 6-लिटल रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-700 071. फोन: [033] 22830055.
ई-मेल: vivek_s@branch.sharekhan.com

पीसीजी-मुंबई

“सी”, फिनिक्स हाउस, 4ली मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013. फोन: [022] 6618 9300.
ई-मेल: bhushanv@branch.sharekhan.com

Instnt stck mkt info,
no matter whre U R

Presenting



ShareMobile

Sharekhan's Mobile Service



Try it now, it's free!

Keep in touch with the stock market anytime all the time with ShareMobile, a service that lets you track market movements on your mobile phone. All you need is a Sharekhan account, a java enabled handset, a GPRS connection; and you're ready to go. Catching the market action has never been so easy

Key Features

- Live Stock Prices
- Place requests to Buy & Sell*
- Intraday charts Graphs
- Live Indices
- Sharekhan research
- Latest News

Service Activation

To activate simply go to
http://www.sharekhan.com/sheru_mobile/MTRADE/Default.aspx
and download the browser from the 'Get ShareMobile' section

*SEBI regulations prevents direct buying/selling of shares via mobile phone. You can place your buy/sell order on ShareMobile, & our Dial-n-Trade executive will call you back. This service is free and has NO extra fees.

Sharekhan
YOUR GUIDE TO THE FINANCIAL JUNGLE
www.sharekhan.com

Sharekhan Ltd.: BSE Cash-INB011073351; F&O-INF011073351; NSE – INB/INF231073330; MAPIN – 100008375; DP: NSDL-IN-DP-NSDL-233-2003; CDSL-IN-DP-CDSL-271-2004; PMS INP000000662. Sharekhan Commodities Pvt. Ltd.: MCX-10080; NCDEX-00132; MAPIN – 100013912, for any complaints email at igc@sharekhan.com. Regd/Admin Add:- A-206, Phoenix House, Phoenix Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Please carefully read the risk disclosure document as prescribed by SEBI & FMC and Do's & Don'ts by NCDEX.

Sharekhan Valueline

A monthly investment report based on fundamental research with



- ✓ Stock Ideas
- ✓ Stock Updates
- ✓ Earning Guide
- ✓ Stock Recos
- ✓ Mutual Fund
- ✓ Market Outlook
- ✓ Sector Updates



Select The Best Deal

| Type | Price | Saving |
|------------------------|--------|--------|
| Monthly (1 Issue) | Rs.75 | |
| Quarterly (3 Issues) | Rs.180 | Rs.45 |
| Half Yearly (6 Issues) | Rs.300 | Rs.150 |
| Annual (12 Issues) | Rs.480 | Rs.420 |

Why Sharekhan Valueline?

Our expert research team does a full investigation of a company's following factors; before terming it a Stock idea

- Its background
- Its management
- Its products/services/facilities
- Its financials
- Its valuations

And our recommendations are based across

- Times frames
- Return Objectives
- Risk appetities to suit one and alls

To subscribe, send a Cheque/DD in favour of "Sharekhan Financial Services Pvt Ltd" payable at Mumbai

Send it to following address:
The Research Cell,
A-206, Phoenix House,
Phoenix Mill Compound,
Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai -400013.

Note -

- 1 For payment made through cheque/DD, the order ID , Name and contact details should be mentioned behind the cheque
- 2 The charge will appear on your debit card as 'ccavenue.com/charge'
- 3 For Online Payment: Please Do not click **Back or Refresh** It will take few seconds to redirect to payment gateway

Disclaimer- Investment in Equity & Mutual Fund related securities involves high risk, kindly read the SEBI prescribed Risk Disclosure Document carefully before investing. This report (Valueline) is prepared for assistance only and is not intended to be and must not alone be taken as the basis for an investment decision. Any review, retransmission, reprinting, reproduction or any other use is prohibited. Valueline shall be available subject to the clearance of cheque.

To Subscribe

Email to Valueline@sharekhan.com or

log on to www.sharekhan.com for more details